



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 25]

नई दिल्ली, शनिवार, जून 18—जून 24, 2011 (ज्येष्ठ 28, 1933)

No. 25]

NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 18—JUNE 24, 2011 (JYAISTHA 28, 1933)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by
Statutory Bodies]

राष्ट्रीय आवास बैंक

नई दिल्ली, दिनांक 6 जून 2011

सं. रा.आ. बैंक.एच.एफ.सी. विनि.-4/सीएमडी/2011--राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (53/1987) की धारा 29ए की उप-धारा (1) की धारा (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय आवास बैंक एक आवास वित्त संस्थान के लिये जो कि एक कम्पनी है, और जो राजकीय राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से या उसके बाद आवास वित्त संस्थान का कारोबार शुरू करता है, के लिये 10 करोड़ रुपये की न्यूनतम निवल स्वाधिकृत निधि एतद्वारा निर्धारित करता है :-

किन्तु उच्च निवल स्वाधिकृत निधि संबंधी विनिर्देश उस कम्पनी पर लागू नहीं होंगे जिसका पंजीकरण के लिये आवेदन पत्र कथोक्त अधिनियम की धारा 29ए के तहत राष्ट्रीय आवास बैंक के समक्ष राजकीय राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पहले प्रस्तुत किया गया है।

आर. वी. वर्मा

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

आन्ध्रा बैंक

हैदराबाद, दिनांक 20 मई 2011

सं. 666/3/पी/56--बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अभिग्रहण तथा स्थानांतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 12 की उप धारा (2) के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 19 द्वारा प्राप्त अधिकारों के अनुपालन में, आन्ध्रा बैंक का निदेशक मंडल भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श तथा सरकार की पूर्व स्वीकृति से, एतद्वारा आन्ध्रा बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 1995 में संशोधन हेतु निम्नलिखित विनियम करता है :-

- (1) इन विनियमों को आन्ध्रा बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2009 कहा जाए।

(2) वे सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभाव में आएंगे।

- आन्ध्रा बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 1995 में (एतदपश्चात् कथित विनियम संदर्भित किया गया), विनियम 2 के खंड (ओ) में उप खंड (सी) हेतु, निम्नलिखित उप खंड प्रतिस्थापित किया जाए :-

“(ग) कानूनी रूप से गोद लिए ऐसे पुत्र अथवा पुत्री एवं विधवा अथवा तलाकशुदा पुत्री सहित पुत्री अथवा पुत्र, जब तक वह 25 वर्ष की आयु प्राप्त न कर लें अथवा उसके विवाह अथवा पुनर्विवाह तक, जो भी पहले हो।”

- कथित विनियमों में, विनियम 8 में, उप-विनियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-विनियम जोड़े जाएंगे :-

“(4) न्यासी की नियुक्ति की अवधि 3 वर्ष हेतु होगी तथा बैंक एक न्यासी की पुनःनियुक्ति कर सकता है जिसने पहले ही अपनी अवधि पूरी कर ली हो, बशर्ते कि किसी भी न्यासी की नियुक्ति दो अवधि से अधिक हेतु न हो।”

- कथित विनियमों में, विनियम 9 में, निम्नलिखित प्रावधान जोड़े जाएंगे :-

“बशर्ते कि ऐसे सभी निदेश लिखित में दिए जाएं तथा अपना लक्ष्य अथवा उद्देश्य विनिर्दिष्ट करें।”

- कथित विनियमों में विनियम 10 में, प्रारंभिक भाग में उप-विनियम (2) में “प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 180 दिनों के अंदर” शब्दों को “बैंक के तुलन-पत्र के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अंदर” शब्दों में प्रतिस्थापित किया जाए।

एस. आर. क. प्रसाद
महाप्रबंधक (मा. सं)

पाद टिप्पणी :--प्रधान विनियम 29.09.1995 भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे तथा बाद में किए संशोधन निम्न अनुसार राजपत्र में प्रकाशित किए गए :--

अधिसूचना सं.	दिनांक
1. 666/3/पी/मिन/848	03.04.1999
2. 666/20/पी/359	22.02.2003
3. 666/20/पी/517	03.05.2003
4. 666/20/पी/92	19.06.2004

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान
चैन्नई-600034, दिनांक 1 अप्रैल 2011
(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)

3एससीए(5)/1/2009-10 : संस्थान की अधिसूचना सं. 4-सीए(1)/27/1976-77 तारीख 05.03.1977, 4एससीए(1)/9/1979-80 तारीख 15.03.1980, 4एससीए(1)/4/82-83 तारीख 31.03.1983, 3एससीए(4)/10/83-84 तारीख 31.03.1984, 3एससीए(4)/8/87-88 तारीख 30.12.1987, 3एससीए(4)/10/88-89 तारीख 27.01.1989, 3डब्ल्यूसीए(4)/8/90-91 तारीख 05.03.1991, 3डब्ल्यूसीए(4)/5/92-93 तारीख 01.12.1992, 3एससीए(4)/3/93-94 तारीख 11.01.1994, 3एससीए(4)/4/94-95 तारीख 22.02.1995, 3डब्ल्यूसीए(4)/2/95-96 तारीख 13.05.1996, 3ईसीए(4)/2/96-97 तारीख 20.12.1996, 3एससीए(4)/2/97-98 तारीख 08.12.1997, 3ईसीए(4)/3/98-99 तारीख 12.05.1999, 3एससीए(4)/6/1999-2000 तारीख 03.04.2000, 3ईसीए(4)/3/2000-2001 तारीख 22.02.2001, 3एससीए(4)/1/2001-2002 तारीख 21.11.2001, 3एससीए(4)/4/2002-2003 तारीख 30.04.2003, 3सीसीए(4)/3/2003-2004 तारीख 10.02.2004, 3एससीए(4)/5/2004-2005 तारीख 18.03.2005, 3एससीए(4)/3/2005-2006 तारीख 31.03.2006, 3एससीए(4)/3/2006-2007 तारीख 11.08.2007, 3एससीए(4)/1/2007-2008 तारीख 16.11.2008, 3एससीए(4)/1/2008-2009 तारीख 30.11.2009, 25-सीए(49)/2000 तारीख 04.05.2009, 3एससीए(4)/2/2009-2010 तारीख 09.07.2010 के प्रतिनिर्देश से, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 20 के अनुसरण में यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त विनियमों के विनियम 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान की परिषद् ने निम्नलिखित सदस्यों के नामों को, उनके नामों के सामने उल्लिखित तारीखों से सदस्यों के रजिस्टर में पुनः प्रविष्ट कर दिया है :-

क्रम सं.	सदस्य की संख्या	सदस्य का नाम	
1.	001742	श्री शेषा जैन एफसीए	25/05/2009
2.	003021	श्री बासवपुरनिया चेलासानी एफसीए	08/10/2009
3.	004209	श्री वेंकटरामन के एफसीए	29/12/2009
4.	005785	श्री वेंकटेश्वरा राव के एफसीए	26/02/2010
5.	006862	श्री पार्थासारथी वी एसीए	15/07/2009
6.	007079	श्री राजा एस एसीए	28/04/2009
7.	010564	श्री सुब्रमनियन आर एसीए	12/01/2010
8.	010566	श्री शिवारामाकृष्णा अय्यर एस एसीए	08/04/2009
9.	010691	श्री नटराजन वी के एसीए	18/08/2009

क्रम सं.	सदस्य की संख्या	सदस्य का नाम	
10.	011093	श्री सुकुमारन टी पी एस एफसीए	25/08/2009
11.	012292	श्री राजगोपालन एस वी एसीए	23/02/2010
12.	014224	श्री शामन्ना नानजप्पा एसीए	07/05/2009
13.	014856	श्री रामास्वामी एम वी एसीए	31/12/2009
14.	014959	श्री रंगाबालन के एसीए	19/05/2009
15.	015668	श्री हरीहरन एम एफसीए	04/06/2009
16.	016311	श्री नचिअप्पन एमआर एफसीए	21/07/2009
17.	018051	श्री भारतन के एसीए	26/05/2009
18.	018099	श्री पदमनाभान सी एसीए	01/12/2009

19.	018493	श्री देवराजन जी एफसीए	20/04/2009
20.	018659	श्री गुहाराय आशिष कुमार एसीए	22/03/2010
21.	018862	श्री दिवाकर जे एसीए	23/11/2009
22.	019078	श्री साईनाथ टी आर एफसीए	03/09/2009
23.	019179	श्री कामाछी ए एफसीए	10/11/2009
24.	019245	श्री पलानी बच्चा एस एफसीए	01/02/2010
25.	019524	श्री जोसफ डेसमंड वास एसीए	09/03/2009
26.	019611	श्री नागेश्वरा राव गुनुपुदी एफसीए	12/05/2009
27.	019786	श्री रवि कुमार के एसीए	27/08/2009
28.	020636	श्री हरी सी वी एसीए	23/10/2009
29.	020760	श्री बदरीनाथ आर टी एफसीए	22/06/2009
30.	020917	श्री बालासुब्रमनियन सी एसीए	27/07/2009
31.	020934	श्री अबंजहागन आर एफसीए	12/05/2009
32.	021067	श्री श्रीनाथ बी एफसीए	19/11/2009
33.	021115	श्री माणिकम के एसीए	29/06/2009
34.	021135	श्री रविन्द्रन एस एसीए	30/09/2009
35.	021311	श्री वत्सारमन वी एसीए	08/06/2009
36.	021391	श्री सुब्रमनियन एन एफसीए	11/09/2009
37.	021458	श्री वरुगीस जे एफसीए	13/11/2009
38.	021538	श्री नंदा कुमार आर एसीए	11/04/2009
39.	021646	श्री इकबाल बेग एम एसीए	04/05/2009
40.	021672	श्री बाबु यू वी एम एसीए	27/10/2009
41.	021975	श्री चन्द्रशेखर एस एसीए	29/06/2009
42.	022078	श्री मुरलीधरन एस एसीए	12/05/2009
43.	022125	श्री मनोहरन आर एसीए	28/05/2009

44.	022235	श्री रामाकृष्णन आर एसीए	02/12/2009
45.	022289	श्री राकेश सूद एसीए	04/12/2009
46.	022326	श्री जगदीश भाई एन दवे एफसीए	10/09/2009
47.	022406	श्री सांबशिवम एम एसीए	08/03/2010
48.	022451	श्री शंकर टी जी एसीए	11/01/2010
49.	022469	श्री रवि कुमार एस एसीए	15/10/2009
50.	022485	श्री वैकटारामन वी एफसीए	09/02/2010
51.	022487	श्री विमल कुमार सी एसीए	07/08/2009
52.	022702	श्री चेलिया ए एफसीए	04/03/2010
53.	022809	श्री सुब्बाराव के वी एफसीए	08/02/2010
54.	022847	श्री कुमार के एसीए	10/06/2009
55.	023009	श्री वैकटा शिवकुमार रेड्डी डी एफसीए	17/06/2009
56.	023080	श्री कुचिभोतला श्याम सुंदर एफसीए	14/09/2009
57.	023352	श्री थॉमस वर्गीस पी एसीए	01/03/2010
58.	023362	श्री प्रभाकर शेखर के एसीए	27/07/2009
59.	023767	श्री मीनाक्षीसुंदरम टी सी एसीए	17/12/2009
60.	023824	श्री रामचन्द्रन एस एफसीए	03/02/2010
61.	024031	श्री सत्यनारायण आर वी वी एसीए	04/01/2010
62.	024043	श्री शिवरामा प्रसाद जे एफसीए	04/02/2010
63.	024045	श्री वेणुगोपाल पी एसीए	31/12/2009
64.	024073	श्री जयामास्करन आर एफसीए	29/06/2009
65.	024251	श्री भक्तवत्सल रेड्डी एस एसीए	20/05/2009
66.	024332	श्री रतनाशेखर पी एफसीए	19/05/2009
67.	024427	श्री अशोक वी एस एसीए	30/07/2009

68.	024585	श्री राम रेड्डी वाई एसीए	01/01/2010
69.	024709	श्री नागाप्रसाद बी आर एसीए	25/06/2009
70.	024715	श्री आस्कर सी अल्बुकर्क एसीए	13/07/2009
71.	024774	श्री गणपति पी एसीए	04/05/2009
72.	024958	श्री सत्यानारायण प्रसाद आर के एसीए	08/09/2009
73.	025351	श्री रंगारामानुजम एन आर एफसीए	05/01/2010
74.	025424	श्री कुलोथंगन एन एस एसीए	21/08/2009
75.	025428	सुश्री लता कृष्णाकुमार एसीए	16/10/2009
76.	025441	श्री अनिल आर माल्या एसीए	06/01/2010
77.	025543	सुश्री अन्नाम्मा शेखरन एसीए	29/06/2009
78.	025665	श्री वेंकटेश्वरु आर एसीए	07/08/2009
79.	025681	सुश्री विजयालक्ष्मी के एसीए	03/08/2009
80.	025695	श्रीकुमार एस बी एफसीए	11/02/2010
81.	025769	श्री जयशंकर एस एसीए	17/03/2009
82.	025787	श्री कुमार एल एन सुरेश एसीए	06/04/2009
83.	025807	श्री कानन ए एसीए	21/07/2009
84.	025988	श्री रामानारासिम्हा राव वी वी एस एफसीए	30/12/2009
85.	026184	श्री रमेश आर एसीए	09/04/2009
86.	026187	श्री वेंकटेश्वरन आर एसीए	06/07/2009
87.	026191	श्री रवि रामानाथन एसीए	04/12/2009
88.	026380	श्री सत्यानारायण बाबजी एम एसीए	08/10/2009
89.	026533	श्री वीराप्रभाकर टी एसीए	07/09/2009
90.	026615	श्री आनंद के एसीए	23/11/2009
91.	026697	श्री मेका नरेन्द्र प्रसाद एसीए	14/04/2009

92.	026699	श्री मुरलीधरन वी एफसीए	02/06/2009
93.	026768	श्री विजयकुमार आर वी एफसीए	10/06/2009
94.	026796	श्री संपत कुमार एन एफसीए	07/08/2009
95.	026917	श्री कोप्पका वाई टी वी श्रीनिवास एफसीए	14/09/2009
96.	026962	श्री सानिल वर्गीस एफसीए	26/11/2009
97.	027159	श्री शंकर के एन एसीए	09/09/2009
98.	027192	श्री जयप्रकाश एम एफसीए	02/07/2009
99.	027202	श्री थॉमस टी सी एसीए	07/08/2009
100.	027212	श्री बालाजी आर एफसीए	16/09/2009
101.	027309	श्री सजी मैथ्यू एसीए	11/09/2009
102.	027438	श्री शाह केतनकुमार अमीचंद एसीए	24/08/2009
103.	027493	श्री जॉन के वर्गीस एफसीए	07/08/2009
104.	027520	श्री मुथैया ओ एसीए	21/12/2009
105.	027631	श्री आत्मानाथ शर्मा एच एसीए	24/09/2009
106.	027665	श्री विश्वनाथ कृष्णन एन ए एफसीए	22/03/2010
107.	027743	श्री सुरेश के एसीए	03/11/2009
108.	028025	श्री गणपति शंकर के एसीए	09/09/2009
109.	028117	श्री संजय प्रकाश मोनोट एफसीए	01/01/2010
110.	028133	श्री वेंकटेश्वर राव जी एसीए	28/08/2009
111.	028478	श्री संतोष जेम्स एसीए	04/11/2009
112.	028544	श्री रविन्द्रन जी एसीए	21/07/2009
113.	028849	श्री तनुमाल्यन एस एन एफसीए	04/03/2010
114.	028861	श्री केशवन के एफसीए	17/11/2009
115.	028981	श्री विश्वेश्वरा एच एस एफसीए	10/08/2009

116.	028999	श्री राजेश कुमार माथुर एसीए	11/08/2009
117.	029040	श्री विलिना प्रकाश के वी एसीए	11/08/2009
118.	029055	श्री रवि के एफसीए	22/12/2009
119.	029145	श्री शिवकुमार ए आर एसीए	23/04/2009
120.	029176	श्री शंकर अनंतरामन एफसीए	18/02/2010
121.	029440	श्री जॉन कुरियन एसीए	21/07/2009
122.	029516	श्री विश्वनाथ पी एस एसीए	25/11/2009
123.	029522	श्री सुनील आर शिनाय के एफसीए	09/06/2009
124.	029587	सुश्री कमला के एफसीए	23/10/2009
125.	029669	श्री गिरीश के एफसीए	07/05/2009
126.	029770	श्री नरायणा वासु ए वी एस एसीए	18/06/2009
127.	029780	श्री नागेश्वर राव एन एसीए	08/12/2009
128.	029995	श्री शबनायगम एस एसीए	24/07/2009
129.	038130	श्री मनोज के गर्ग एसीए	16/07/2009
130.	040984	श्री रामाकृष्णन वी एसीए	21/10/2009
131.	041429	श्री अब्राहम थॉमस एफसीए	19/06/2009
132.	043696	श्री मोहन दास टी आर एसीए	05/01/2010
133.	044809	श्री तुलसी कुमार एम के एफसीए	10/06/2009
134.	046066	श्री श्रीराम श्रीनिवास एसीए	27/10/2009
135.	046112	सुश्री राव ममता हरिदास एसीए	24/07/2009
136.	046651	श्री चन्द्रा मोहन एस एसीए	27/05/2009
137.	046694	श्री साथी श्रीधर एसीए	03/11/2009
138.	049901	श्री रोहित प्रकाश एफसीए	29/07/2009

139.	050828	श्री सुरेश चन्द्रा सेनापति एफसीए	14/10/2009
140.	053685	श्री सुनील वी जे जार्ज एसीए	24/08/2009
141.	054320	श्री सोमनाथ मुखर्जी एसीए	26/08/2009
142.	055685	श्री आनंद एस एसीए	31/08/2009
143.	055732	श्री गणेश वी एस एसीए	01/06/2009
144.	056293	सुश्री सुमन एम कारवा एसीए	04/08/2009
145.	056342	श्री सुखटंकार जयंत अनंत एफसीए	23/11/2009
146.	056644	श्री सुबुद्धि कोचंदा नीला मोहन एसीए	17/12/2009
147.	056958	सुश्री भुवनेश्वरी श्रीनिवासन एसीए	11/02/2010
148.	058070	श्री सुब्रमनियम आर वी एसीए	04/05/2009
149.	058230	श्री पांडा देबअर्च एसीए	25/01/2010
150.	058425	सुश्री सुजाता वी एसीए	10/12/2009
151.	058641	श्री पोद्दार विलास एसीए	04/06/2009
152.	062273	श्री नांगालिया अमित कुमार एसीए	15/01/2010
153.	062503	सुश्री साबु मोनिशा एसीए	18/12/2009
154.	062695	सुश्री फिटकरीवाला सुप्रिया एसीए	22/06/2009
155.	063145	श्री जैन राहुल एसीए	17/12/2009
156.	063642	श्री लॉयलका मनीष एसीए	30/07/2009
157.	064776	श्री शब्बीर हुसैन एसीए	10/07/2009
158.	078159	श्री गुप्ता संजय एसीए	09/09/2009
159.	083838	श्री रमन ए एन एसीए	20/01/2010
160.	084354	श्री जोसफ जेम्स एसीए	27/04/2009
161.	086800	श्री संदीप गुप्ता एसीए	25/06/2009
162.	087467	श्री अविनाश जिंदल एसीए	25/03/2010
163.	089521	श्री केशवदास एसीए	13/08/2009
164.	091059	श्री सुनील गुप्ता एसीए	14/05/2009

165.	093191	श्री सिंह कंवलजीत एसीए	03/11/2009
166.	096044	श्री सचिन कुमार एसीए	15/04/2009
167.	096998	श्री खोवाला प्रतीक एसीए	23/02/2010
168.	103433	श्री निगुदकर अजय अविनाश एसीए	04/11/2009
169.	104551	श्रीमती हेतल पराग मोदी एसीए	11/06/2009
170.	106604	श्री प्रेमल अरविन्द देसाई एसीए	03/08/2009
171.	110105	सुश्री शिल्पा ओमप्रकाश महेश्वरी एसीए	11/06/2009
172.	111413	श्री हरिहरन गणेशन एसीए	06/04/2009
173.	112926	श्री विनीत अशोककुमार भंसाली एसीए	29/12/2009
174.	114230	श्री सरोज कुमार कुंतिया एसीए	15/02/2010
175.	114258	श्रीमती उन्नति वीरल शाह एसीए	15/02/2010
176.	115926	श्री हर्षवर्धन रायचंदमाई लुनिया एसीए	01/02/2010
177.	119718	श्री तनवीर अली मोइद्दीन मीरनजी एसीए	24/07/2009
178.	200029	श्री कृष्णामूर्ति आर एसीए	26/04/2010
179.	200033	श्री नवीन श्रीदेवन एफसीए	05/10/2009
180.	200175	श्री बालासुब्रमनियन आर एसीए	15/04/2009
181.	200274	श्री शिबु एम चाको एसीए	25/03/2010
182.	200387	श्री रविन्द्र कुमार एस एसीए	18/11/2009
183.	200432	श्री कुप्पासामी आर एसीए	25/02/2010
184.	200441	श्री लेलन थॉमस एसीए	31/08/2009
185.	200452	श्री शंकरा सुब्रमनियन आर एसीए	12/10/2009
186.	200517	श्री रविशंकर बी एसीए	13/01/2010
187.	200521	श्री नरेन्द्र जैन एसीए	20/04/2009

188.	200602	श्री नरेन्द्र शिनाय एम एसीए	12/08/2009
189.	200719	श्री रामाचन्द्रन ए एसीए	01/10/2009
190.	200845	श्री श्याम सुन्दर राव बी वी एस एसीए	28/07/2009
191.	200922	श्री विनोद जोसफ तेलिस एसीए	11/01/2010
192.	200943	श्री मुरली नारायणन बी आर एफसीए	07/05/2009
193.	201078	श्री नटराजन पी एसीए	03/08/2009
194.	201207	श्री राजासेगरन एम एसीए	07/07/2009
195.	201833	श्री जयराज टी एस एसीए	01/12/2009
196.	201850	श्री मारेला वेंकटा उमापति राव एफसीए	07/07/2009
197.	201885	श्री बेन्जामिन पी टी एसीए	11/09/2009
198.	201957	श्री चन्द्रशेखरन के एसीए	14/08/2009
199.	202160	श्री धरमाला वेंकटा रामन मूर्ति एफसीए	07/09/2009
200.	202181	श्री शिजु अब्राहम थॉमस एसीए	17/02/2010
201.	202284	श्री वेंकटरामन पी एन एसीए	19/06/2009
202.	202294	श्री बदरीनाथ पी एसीए	13/07/2009
203.	202388	श्री राधा श्याम गोतेती एफसीए	04/05/2009
204.	202461	श्री श्रीनिवास वराप्रसाद गुन्नाम एफसीए	20/08/2009
205.	202542	श्री राशिद मोहम्मदी एसीए	09/06/2009
206.	202549	श्री कामभोजी राजा मोहन शेटी एसीए	02/07/2009
207.	202555	श्री श्रीनिवासन एन एसीए	02/12/2009
208.	202566	सुश्री निर्मला मैथ्यू के एफसीए	21/10/2009
209.	202584	श्री उमाशंकर राव पी एफसीए	15/06/2009
210.	202651	श्री श्रीनिवास एल आर एसीए	22/09/2009

211.	202674	श्री मोहन डी वी आर के एसीए	29/03/2010
212.	202687	श्री मणि कांतिश्वरन के एसीए	24/02/2010
213.	202876	श्री नारायण राव पाचीगोला एफसीए	20/10/2009
214.	203003	श्री सेत्वामणि के पी एल एफसीए	15/09/2009
215.	203012	श्री श्रीनिवासन आर एसीए	24/03/2010
216.	203057	श्री सुंदररामन ए एस एसीए	16/07/2009
217.	203242	श्री रत्नाकर बंडारु एफसीए	19/03/2010
218.	203295	सुश्री दीपा एस चन्देरी एसीए	15/05/2009
219.	203342	श्री वेंकटा हरी प्रसाद जी एसीए	23/11/2009
220.	203430	श्री हरीनाथ के एफसीए	01/09/2009
221.	203460	श्री राजेश श्रीपदा एसीए	06/04/2009
222.	203561	श्री श्रीनिवासराम पार्थी एफसीए	18/06/2009
223.	203641	श्री वेंकटेश बी एफसीए	24/12/2009
224.	203702	श्री कृष्णन आर एसीए	27/01/2010
225.	203715	श्री शेख बुदा साहेब एफसीए	07/08/2009
226.	203723	श्री ब्रह्मैय्या वुन्नम एफसीए	16/11/2009
227.	203903	सुश्री मीनाक्षी आर एसीए	15/07/2009
228.	203930	श्री वेंकट राव के एसीए	15/09/2009
229.	203955	श्री प्रभाकर वीरावल्ली एसीए	22/03/2010
230.	203956	सुश्री सुमा वासुदेवन एसीए	11/02/2010
231.	203968	श्री तेजोमूर्तुला रामोजी एसीए	17/12/2009
232.	204012	श्री रामचन्द्रन के एफसीए	08/10/2009
233.	204018	श्री श्रीनिवासन सी एसीए	13/08/2009
234.	204106	सुश्री शुभा एस एसीए	14/05/2009

235.	204115	सुश्री पदमप्रिया रवि शंकर एसीए	16/09/2009
236.	204244	श्री कार्तिक एस वी एसीए	31/08/2009
237.	204254	श्री शाहुल हमीद एफ एसीए	20/01/2010
238.	204285	सुश्री वेदावल्ली पी एसीए	14/12/2009
239.	204405	श्री भालाजी एम एसीए	27/11/2009
240.	204449	श्री रवि कृष्णन एम एसीए	06/10/2009
241.	204562	श्री मंजु पीटर एसीए	17/08/2009
242.	204570	श्री दिनेश गुहन एसीए	18/12/2009
243.	204769	सुश्री अर्चना श्रीनिवासन एसीए	28/04/2009
244.	204809	सुश्री राधिका आर एसीए	14/08/2009
245.	204880	श्री उन्नीकृष्णन बी एसीए	23/07/2009
246.	205040	श्री गणेश एस एफसीए	26/05/2009
247.	205303	श्री बालासुब्रमनियन आर एसीए	29/12/2009
248.	205401	श्री जिराल्ड पीटर एन ए एसीए	24/06/2009
249.	205532	श्री राज कुमार चेन्नोलू एफसीए	22/06/2009
250.	205538	सुश्री जीना ओमेन एसीए	15/02/2010
251.	205558	श्री प्रसाद एस वी बी एसीए	18/08/2009
252.	205605	श्री पारस कुमार पी एफसीए	22/07/2009
253.	205661	सुश्री राधिका एस एसीए	31/08/2009
254.	205663	श्री गणेश टी एसीए	06/05/2009
255.	205719	श्री शेख उस्मान एस ए एसीए	18/03/2010
256.	205726	श्री मुथुकुमार डी एसीए	28/08/2009
257.	205832	सुश्री तारा गोपालकृष्णन एसीए	27/07/2009
258.	205873	श्री बालाजी प्रसाद एन एफसीए	30/06/2009
259.	205967	श्री वेंकटेश वी एसीए	20/01/2010

260.	206053	श्री सुब्रमनियम ए वी के एफसीए	23/01/2010
261.	206218	श्री गुणेश्वर राव पुसरला एसीए	03/02/2010
262.	206290	श्री राजेश ए एसीए	03/06/2009
263.	206325	श्री पकीराज एम एसीए	12/08/2009
264.	206358	सुश्री फौजिया बी जावेद एफसीए	03/07/2009
265.	206429	श्री बालाजी वर्मा पुष्पाति एसीए	29/06/2009
266.	206499	श्री नीजु अब्राहम एसीए	15/07/2009
267.	206543	श्री सुरेश बाबु वी एसीए	22/07/2009
268.	206654	श्री गिरीधर एन भट्ट एसीए	09/02/2010
269.	206789	श्री कन्नेगन्ती रंगा राव एसीए	29/04/2009
270.	206859	श्री गणेश के सी एसीए	06/04/2009
271.	206868	श्रीमती वसन्ती रामानाथन एफसीए	17/09/2009
272.	206991	श्री देशपांडे उमेश श्यामराव एसीए	01/06/2009
273.	207032	श्री वीरा वैकट सतीश गोतीपति एसीए	30/07/2009
274.	207119	श्री श्रीधर संपत एसीए	26/05/2009
275.	207130	श्री बाल ज्ञानेंद्र कुमार एसीए	06/07/2009
276.	207195	श्री श्रीराम गुप्ता कनमारलापुदी एसीए	03/08/2009
277.	207414	श्री कुमार जे एस एफसीए	30/04/2007
278.	207437	श्री विजय शंकर कुमार पोरुरी एसीए	03/11/2009
279.	207500	श्री कस्तुरीरंगन जी एसीए	22/07/2009
280.	207507	सुश्री मीरा पी वी एसीए	24/08/2009
281.	207580	सुश्री लावण्या वी आर एसीए	25/01/2010
282.	207619	श्री शशिधर के एस एसीए	01/02/2010
283.	207666	श्री वैकटाचलम शेखर एसीए	25/11/2009

284.	207802	श्री भट्ट रविन्द्र एस एसीए	09/02/2010
285.	207815	श्री दुरइस्वामी पी एसीए	11/05/2009
286.	207827	श्री सिबिचन के थॉमस एसीए	14/08/2009
287.	207882	श्री चन्द्रन आर एसीए	30/07/2009
288.	207903	श्री मणिकन्दन वी पी एसीए	01/07/2009
289.	207962	श्री अजय नारायण एसीए	04/05/2009
290.	207986	श्री बीजू वी जार्ज एसीए	14/09/2009
291.	208000	श्री आनंदन ई ए एसीए	21/08/2009
292.	208029	श्री विद्यानाथन एस एसीए	14/07/2009
293.	208032	श्री अलगप्पन एम ए एसीए	19/02/2010
294.	208034	श्री राधा कृष्णन सीतारामन एसीए	30/06/2009
295.	208046	श्री मीरन शाह एसीए	17/08/2009
296.	208105	श्री कार्तिकेन आर एसीए	05/11/2009
297.	208159	श्री सत्यानारायणन के एसीए	02/02/2010
298.	208167	श्री रामासुब्रमनियन एस एसीए	03/07/2009
299.	208333	सुश्री मीरा कृष्णन एसीए	25/07/2009
300.	208448	श्री सांबामूर्ति एन एसीए	07/08/2009
301.	208451	श्री राजीव ए एसीए	18/01/2010
302.	208486	श्री अजय थॉमस एसीए	03/03/2010
303.	208666	सुश्री पदमावती अदाला एसीए	15/05/2009
304.	208748	श्री श्रीहरि मदला एसीए	10/07/2009
305.	208766	श्री बिन्दुशेखर एसीए	01/03/2010
306.	208844	श्री अजय नायर एम सी एसीए	21/08/2009
307.	208897	सुश्री अरुणा एस एफसीए	13/11/2009
308.	208943	श्री शिबु निनान एसीए	17/09/2009

309.	209056	श्री श्रीकांत पी एफसीए	05/10/2009
310.	209078	श्री पृथ्वी राज जी एन एसीए	24/06/2009
311.	209100	श्री नागाभूषण रेड्डी वी एसीए	12/10/2009
312.	209170	श्री दुर्ईराज के एसीए	09/03/2010
313.	209203	सुश्री कौशल्या आर एसीए	03/08/2009
314.	209225	श्री अनुराग राठी एसीए	23/11/2009
315.	209288	श्री युनुस अवनी वीदु एसीए	22/10/2009
316.	209364	श्री प्रकाशन एम एसीए	22/09/2009
317.	209508	श्री लक्ष्मीनारायणन एन एसीए	31/12/2009
318.	209512	सुश्री अनुपमा कृष्णामूर्ति एसीए	22/06/2009
319.	209525	सुश्री मीनाक्षी जी एसीए	20/07/2009
320.	209606	श्री श्रीकांत अय्यंगर एसीए	27/08/2009
321.	209719	श्री बीजू जॉन एसीए	29/04/2009
322.	209760	श्री रजनीश मेनन के एसीए	22/07/2009
323.	209781	श्री रामाकृष्णा कामेश्वरराव अकी एसीए	30/09/2009
324.	209785	सुश्री शैफाली एन एस एसीए	11/01/2010
325.	209831	श्री पलनीसेल्वा एम आर एफसीए	20/07/2009
326.	209874	श्री योगेश नारायणन सुंदरम एसीए	28/07/2009
327.	209933	श्री वसंत एस एसीए	22/04/2009
328.	209997	श्री वेंकटेश्वरा रेड्डी डी एसीए	19/02/2010
329.	210081	श्री पंकज कुमार जैन बी एसीए	30/07/2009
330.	210168	सुश्री प्रिया वी पी एसीए	22/07/2009
331.	210203	सुश्री बटुला वी के दुर्गा एसीए	13/11/2009
332.	210282	सुश्री धनलक्ष्मी एस एफसीए	28/01/2010

333.	210336	श्री नगरमबाबु एन एसीए	05/01/2010
334.	210380	सुश्री अनुसूया चमन एसीए	24/09/2009
335.	210433	श्री पदमनाभन एन एसीए	22/12/2009
336.	210489	श्री कृष्णाप्रसाद बी एसीए	27/07/2009
337.	210491	श्री अशोक के के एसीए	21/08/2009
338.	210493	श्री प्रदीप गोपालकृष्णन एसीए	18/09/2009
339.	210640	सुश्री रेणुका बलिगा एसीए	11/08/2009
340.	210663	श्री कल्याण चक्रवर्ती मचीराजु एसीए	29/01/2010
341.	210704	सुश्री सीमा ग्रोवर एसीए	09/02/2010
342.	210772	श्री श्रीनाथ पी एस एसीए	23/07/2009
343.	210788	श्री बालाकृष्णन एस एल एसीए	04/11/2009
344.	210803	श्री जोशी मैथ्यू एसीए	04/06/2009
345.	210960	श्री सुधाकर आई एसीए	23/09/2009
346.	210971	श्री कृष्णा किशोर एन एसीए	29/09/2009
347.	211045	श्री राजाशेखरन बी एसीए	04/02/2010
348.	211068	सुश्री कोरलीमस्ता अर्चना एसीए	01/01/2010
349.	211218	सुश्री प्रिया रामचन्द्रन एसीए	24/03/2010
350.	211248	श्री हरीहरणसूदन आर एसीए	07/08/2009
351.	211275	सुश्री निशी खान एसीए	30/07/2009
352.	211415	श्री अयप्पन एस यू एसीए	18/08/2009
353.	211420	श्री बालागंगाधरन एस एसीए	11/01/2010
354.	211473	सुश्री विजयलक्ष्मी पी नायर एसीए	23/02/2010

355.	211504	श्री नरेन्द्र कुमार एम एसीए	11/05/2009
356.	211575	श्री श्रीनिवास के एसीए	18/05/2009
357.	211582	श्री रियाज शेख एसीए	22/03/2010
358.	211642	सुश्री दिव्या एस एसीए	18/01/2010
359.	211645	श्री श्रीनिवास राव वेमपति एसीए	16/09/2009
360.	211653	श्री इवान ओजवेलेड सेक्युएरा एसीए	30/07/2009
361.	211696	श्री बालु जी कृष्णन एसीए	29/12/2009
362.	211703	श्री बदरीनाथ आर एसीए	11/11/2009
363.	211712	श्री किरन कुमार तोता एसीए	31/07/2009
364.	211914	श्री कार्तिक बालासुब्रमनियन एसीए	11/12/2009
365.	211922	श्री दीपक ए कुमार एसीए	29/03/2010
366.	211958	सुश्री थेरेसा मार्गरेट एस डी पी एसीए	20/08/2009
367.	212082	श्री सुधीर जी एसीए	05/10/2009
368.	212093	श्री दीपक बी एसीए	13/11/2009
369.	212095	सुश्री मिनीमोले साजन एसीए	27/04/2009
370.	212116	सुश्री यामिनी के एसीए	03/12/2009
371.	212143	सुश्री रामा एस एसीए	08/08/2009
372.	212189	सुश्री दिव्या के एसीए	06/05/2009
373.	212239	श्री मोहन रामचन्द्रन एसीए	11/05/2009
374.	212247	श्री वामशीघर जी एसीए	16/11/2009
375.	212256	श्री वेंकटेशन एस एसीए	23/06/2009
376.	212304	श्री मदाली सुरेश एसीए	11/01/2010
377.	212385	श्री राजेश खन्ना वी एसीए	03/08/2009
378.	212410	श्री प्रवीन कुमार एन एसीए	07/10/2009
379.	212422	श्री प्रमोद के पी एसीए	19/08/2009
380.	212583	सुश्री महालक्ष्मी वी एस एसीए	30/09/2009

381.	212690	श्री नरसिम्हा देशीकन टी आर एसीए	14/08/2009
382.	212708	सुश्री तशिना कृष्णैया एसीए	23/07/2009
383.	212736	श्री किशोर कुमार रेड्डी डी एसीए	03/09/2009
384.	212739	श्री मुरली मोहन ए वी बी एसीए	07/09/2009
385.	212878	श्री अरुणकुमार आर एसीए	19/10/2009
386.	212953	सुश्री द्वायनी के एम एसीए	12/10/2009
387.	212963	श्री श्रीनिवास रेड्डी एसीए	25/05/2009
388.	212983	श्री रविकर रेड्डी एसीए	18/01/2010
389.	213072	श्री वेंकटा सुरेश बाबु बुदे एफसीए	26/06/2009
390.	213144	सुश्री कार्तिका जी एसीए	20/04/2009
391.	213159	सुश्री स्वप्ना नादेला एसीए	16/02/2010
392.	213190	श्री मुरली कृष्णा वी एसीए	27/04/2009
393.	213248	श्री हेगड़े किरन महाबलेश्वर एसीए	20/01/2010
394.	213270	श्री सोरीमुथु एम एसीए	30/07/2009
395.	213284	श्री प्रदीप श्रीराम एसीए	23/11/2009
396.	213366	श्री हरीहर सुब्रमनियन जी एसीए	22/12/2009
397.	213394	श्री फणि प्रसाद डुडु के एसीए	20/11/2009
398.	213422	श्री फणि कुमार गनापवारपु एसीए	10/08/2009
399.	213487	श्री रामाकृष्णा जी एसीए	26/11/2009
400.	213576	श्री शाजी एम एफसीए	11/09/2009
401.	213773	श्री सुरेन्द्रनाथ नल्लुरी एसीए	12/06/2009
402.	213834	श्री वंचीसवर बी एसीए	29/09/2009
403.	213931	श्री सुजीत बी एसीए	20/04/2009

404.	214228	श्री चितरंजन परिदा एसीए	09/10/2009
405.	214255	श्री अनिल कुमार कोनेरु एसीए	22/06/2009
406.	214268	श्री सुनील बी एसीए	22/09/2009
407.	214302	श्री शाण्दगे गणेश विश्वनाथ एसीए	30/07/2009
408.	214464	श्री कानन सुगंधारामन एसीए	24/12/2009
409.	214562	श्री श्रीनिवास वी एसीए	22/06/2009
410.	214623	श्री राजेश आचार्य एसीए	01/06/2009
411.	214632	श्री रवि चन्द्र गुणदेपुदी एसीए	07/09/2009
412.	214633	सुश्री महेश्वरी आर एसीए	20/01/2010
413.	214685	श्री अश्वथ जी भट्ट एसीए	05/08/2009
414.	214688	श्री चन्द्रशेखर गोपालुनी एसीए	06/08/2009
415.	214728	श्री सुन्दरे सदानंद एसीए	07/07/2009
416.	214791	श्री संतोष कुमार एसीए	10/08/2009
417.	214889	सुश्री हेमा बी एसीए	22/04/2009
418.	214937	सुश्री दुर्गा साई लक्ष्मी पी एन वी एसीए	20/07/2009
419.	214941	सुश्री नितल एच शाह एसीए	15/03/2010
420.	215015	श्री गोवथमन ए एम एसीए	04/06/2009
421.	215096	श्री अलागप्पन ए आर एसीए	07/08/2009
422.	215155	श्री गिनो पॉल एसीए	14/07/2009
423.	215210	श्री परिदा गोलख चन्द्र एसीए	07/10/2009
424.	215317	श्री अचल प्रकाश भुवनिया एसीए	08/01/2010
425.	215332	श्री अरविन्द बेनानी एसीए	07/05/2009
426.	215383	सुश्री विदारी सुधा महेश एसीए	22/03/2010
427.	215508	श्री जॉन पाशा शेख एसीए	28/07/2009

428.	215523	श्री वेंकटा शिवा नागा पवन श्रीनाथ के एसीए	05/11/2009
429.	215532	श्री हरी बाबु पिनाका एसीए	31/12/2009
430.	215554	सुश्री लिटी के जे एसीए	06/10/2009
431.	215601	श्री पुला रेड्डी सी एसीए	05/05/2009
432.	215726	सुश्री बेरिल दियानी माधवन एसीए	09/09/2009
433.	215754	श्री संतोष वी एसीए	01/09/2009
434.	215760	श्री श्रीधर ए एसीए	22/12/2009
435.	215773	श्री धनंजय ए एसीए	28/08/2009
436.	215778	सुश्री पदमावती एस एसीए	03/08/2009
437.	215882	श्री रविन्द्र नायडू डी एसीए	10/03/2010
438.	215884	श्री श्रीराम एम भट्ट एसीए	02/07/2009
439.	215889	श्री सतीश जी एसीए	06/04/2009
440.	215940	श्री गोविन्द काकडा एसीए	17/08/2009
441.	216009	सुश्री श्री नागा शैलेजा पेरुमाला एसीए	07/09/2009
442.	216025	श्री वदलामणि रामा प्रसाद एसीए	17/08/2009
443.	216027	श्री संजीव उपाध्याय एसीए	09/11/2009
444.	216029	श्री चन्द्रदुर राघवेन्द्र कोनदिनया एसीए	13/10/2009
445.	216037	श्री प्रभाकर रेड्डी जी एसीए	15/05/2009
446.	216192	श्री आदर्श ए आर एसीए	05/10/2009
447.	216232	सुश्री समीक्षा श्रेष्ठा एसीए	08/01/2010
448.	216296	श्री मिस मैथ्यू एसीए	06/04/2009
449.	216504	श्री विनोद कुमार एस एसीए	11/11/2009
450.	216521	श्री गौरी शंकर सी एसीए	18/03/2010
451.	216654	सुश्री शिल्पा एस मल्होत्रा एसीए	03/06/2009
452.	216715	श्री श्रीनिवास राव अप्पना एसीए	09/07/2009

453.	216722	सुश्री कल्पना जी एसीए	29/03/2010
454.	216730	श्री जगदीश एस आर एसीए	18/05/2009
455.	216743	सुश्री शर्मिला रानी एन एसीए	24/11/2009
456.	216776	श्री अशोक नायर एसीए	29/12/2009
457.	216796	श्री जोस जे मेक्कालथ एसीए	02/12/2009
458.	216801	श्री रघुरामन आर के एसीए	30/06/2009
459.	216821	श्री प्रसाद राव मारासु एसीए	14/08/2009
460.	216869	श्री मैथ्यु वर्गीस पारक्कत एसीए	19/10/2009
461.	216913	श्री प्रदीप थॉमस एसीए	15/06/2009
462.	216987	श्री शशि किरन नंदीकोला एसीए	30/11/2009
463.	217048	श्री विनय विश्वनाथन जारतरघर एसीए	13/04/2009
464.	217237	श्री घर्मा राव ए एसीए	09/06/2009
465.	217300	श्री पदमनाभन एसीए	13/01/2010
466.	217515	सुश्री कामत पूर्णिमा श्रीनिवास एसीए	22/07/2009
467.	217520	श्री सदाशिव एन टी एसीए	06/07/2009
468.	217656	श्री राजा शेखर रेड्डी वीना एसीए	09/02/2010
469.	217722	श्री पांडु ई एसीए	18/05/2009
470.	217922	श्री वेंकटेश्वर जी एस एसीए	24/07/2009
471.	217985	श्री एल्विन जड टैगोर आई एसीए	17/03/2010
472.	218018	श्री शंकरा श्रीनिवासन ए एसीए	25/11/2009
473.	218350	सुश्री श्रावथी वी डी एन एसीए	04/12/2009
474.	218454	श्री अशोक कुमार आचार्य एसीए	19/10/2009
475.	218611	श्री डिगी मैथ्यु एसीए	19/06/2009
476.	218843	श्री नागेश ज्ञानचंद एसीए	23/09/2009
477.	219112	श्री पंडितुरई जे एसीए	09/04/2009

478.	219141	सुश्री मधुरिमा एस एसीए	08/07/2009
479.	219211	सुश्री विशाखा मोहनदास पाई एसीए	04/05/2009
480.	219710	श्री आनंद मंडेलिया एसीए	29/06/2009
481.	220159	श्री हरीनाथ बाबु के एसीए	07/09/2009
482.	220262	श्री श्रीनिवास राव डोकी एसीए	18/05/2009
483.	220345	श्री दिवाकर प्रद्युम्न के एसीए	06/07/2009
484.	220357	सुश्री गायत्री कामेश एसीए	08/02/2010
485.	220391	श्री शकील क्षेमनद एसीए	01/09/2009
486.	220679	श्री माला रेड्डी बुटुकुरी एसीए	21/05/2009
487.	220989	श्री शिशु बाबु डी एसीए	02/06/2009
488.	401292	श्री कोठारी विजय कुमार एसीए	11/03/2010
489.	402287	श्री नरुला धीरज कुमार एसीए	06/11/2009
490.	403243	श्री अग्रवाल देवेन्द्र एसीए	08/01/2010
491.	404387	श्री मालपानी विजय एसीए	22/09/2009
492.	407034	सीए. विनायक रामचन्द्र लेले एसीए	01/01/2010
493.	408602	सीए. अनिक कुमार विजय एसीए	30/09/2009
494.	501562	श्री हरीश चन्द्र एसीए	29/09/2009
495.	504125	श्री वाडी जगन्नाथ एसीए	11/01/2010
496.	505620	श्री गोयल विकास एसीए	01/12/2009
497.	510128	श्री मोहम्मद अब्दुल मोइद एसीए	06/07/2009
498.	510335	श्री मोहन राव राजना एसीए	22/06/2009

(टी. कार्तिकेयन)
सचिव

3एससीए(5)/2/2009-2010 : संस्थान की अधिसूचना सं. 3एससीए(4)/2/2009-2010, तारीख 3 जनवरी, 2011 के प्रतिनिर्देश से, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 20 के अनुसरण में यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त विनियमों के विनियम 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान की परिषद् ने निम्नलिखित सदस्यों के नामों को भूतलक्षी प्रभाव से तारीख 1 अक्टूबर, 2009 से रजिस्टर में पुनः प्रविष्ट कर लिया है :-

क्रम सं.	सदस्य की संख्या	सदस्य का नाम
1.	3014	श्री कामेश्वरराव बुलुसु एफसीए
2.	6694	श्री सुब्बाराव तुरलापति वेंकटा एफसीए
3.	7140	श्री रोनाल्ड आइवोर सालवाडोर तेलिस एफसीए
4.	7208	श्री कृष्णा जी ए एफसीए
5.	9956	श्री वेंकटाकृष्णन वी के एफसीए
6.	11705	श्री भंडारी रामेन्द्रा एफसीए
7.	12643	श्री गोपीनाथ सोननाहाली एफसीए
8.	13281	श्री वेंकटपैय्या जे एफसीए
9.	13438	श्री सुबरमनयन के एफसीए
10.	13677	श्री कृष्णामूर्ति के वी एफसीए
11.	14112	श्री लक्ष्मी कांतन टी वी एसीए
12.	14558	श्री मुरगन सी ए एसीए
13.	15346	श्री रामदास टी एफसीए
14.	15714	श्री रंगामणि कोटी तथाचारी एफसीए
15.	16656	श्री बिपिनचन्द्रा जमनादास अंबानी एसीए
16.	18016	श्री आनंद राव सी एफसीए
17.	18020	श्री श्रीमन नारायण चौधरी के एसीए
18.	18182	श्री शिवारामाकृष्णन एन एसीए
19.	18383	श्री श्रीनिवासन वी एसीए
20.	18825	श्री जयप्रकाश एम एसीए
21.	18959	श्री मोहन रेड्डी ए एफसीए
22.	18985	श्री कुमार आर एफसीए
23.	19054	श्री जयकुमार आर एफसीए
24.	19077	श्री राघवेन्द्र माइया यू एफसीए
25.	19253	श्री पलानीस्वामी एम एफसीए
26.	19255	श्री थनिगाराजू एस एफसीए
27.	19582	श्री अजीत कुंभट एफसीए

क्रम सं.	सदस्य की संख्या	सदस्य का नाम
28.	19690	श्री रामामूर्ति सी एफसीए
29.	19746	श्री लोगानाथन आर एफसीए
30.	19803	श्री राजशेखरन ए एस एसीए
31.	19947	श्री रामानाथन आर एफसीए
32.	20236	श्री अलागिरीस्वामी एम एफसीए
33.	20257	श्री गोपालकृष्णमाचारयुतु जी एफसीए
34.	20384	श्री नागेश के एस एफसीए
35.	20433	श्री जयदेवा बी आर एफसीए
36.	20447	श्री बालाकृष्णन के एफसीए
37.	20556	श्री विजयराघवन वी के एफसीए
38.	20567	श्री रामानाथन आर वी एसीए
39.	20704	श्री सरणम वेंकटा राव एसीए
40.	20715	श्री सेल्वारज एस एफसीए
41.	20817	श्री रामाकृष्णा वी एसीए
42.	20833	श्री सिंघवी पी सी एसीए
43.	20843	श्री बद्रीनाथ वाई एस एफसीए
44.	21030	श्री कुमार जी एसीए
45.	21056	श्री श्रीराम एस एफसीए
46.	21149	श्री रविन्द्रनाथ रेड्डी पी एफसीए
47.	21257	श्री राजा बी एफसीए
48.	21349	श्री परमेश्वरन सी ए एफसीए
49.	21362	श्री श्रीनिवासन आर एसीए
50.	21450	श्री धंधापानी टी जी एसीए
51.	21496	श्री इतिचेरिया पी जोशुआ एसीए
52.	21644	श्री शेषागिरी राव एम एसीए
53.	21878	श्री शशिकुमार सी पी एफसीए
54.	21970	श्री अलगा राजा टी वी एफसीए
55.	22054	श्री मल्लिकार्जुन जी एसीए
56.	22085	श्री ललित नायक एफसीए

57.	22153	श्री सतीश रमनाने एसीए
58.	22178	श्री सुदर्शन एम. के. एफसीए
59.	22203	श्री पलानी अलगप्पन एफसीए
60.	22319	श्री वेंकट वी एस एसीए
61.	22512	श्री पदमनाभन एन एफसीए
62.	22526	श्री रविन्द्रानाथ वी एफसीए
63.	22689	सुश्री लथा आर एफसीए
64.	22695	श्री गुलाटी संजीव एफसीए
65.	22815	श्री पेट्रिक रोडरिगो जे ए एसीए
66.	22842	श्री वेंकटरामन मूर्ति वी एफसीए
67.	23013	श्री रविन्द्रन एन एफसीए
68.	23016	श्री भारत पी बी एसीए
69.	23220	श्री वेंकटेश्वर आर एसीए
70.	23227	श्री एंटोनी जोसफ पी एसीए
71.	23284	श्री वर्धन वी एसीए
72.	23359	श्री दत्तात्रे एफसीए
73.	23378	श्री पार्थासास्त्री एस एसीए
74.	23380	श्री श्रीधर एन एफसीए
75.	23539	श्री शिव राम सी एफसीए
76.	23553	श्री वेंकटेश्वर राव एम एफसीए
77.	23585	श्री मोहिदीन खाजा बाशा एफसीए
78.	23620	श्री केशवन आर एफसीए
79.	23658	सुश्री राजराजेश्वरी देवी ए एफसीए
80.	23765	श्री लक्ष्मी रतन एच एफसीए
81.	23908	श्री वेणुगोपाल बी एफसीए
82.	23942	श्री वेंकटेश्वर राव टी एसीए
83.	23975	श्री राजशेखर वी एसीए
84.	24117	श्री मुरली आर एसीए
85.	24157	श्री अच्युत रमय्या के वी एन आर के एसीए
86.	24169	श्री चन्द्रा शेखर वी एसीए
87.	24277	श्री रामा मोहन के एफसीए
88.	24299	श्री काशी रामन एस एसीए
89.	24300	श्री राघवन एम वी एफसीए
90.	24460	श्री जयराम चिनप्पा हुबली एसीए
91.	24627	श्री राजन के पी एफसीए
92.	24811	श्री लक्ष्मीनारायणन वी आर एसीए
93.	24831	श्री विजयकुमार एन एसीए
94.	25070	श्री मीर हसन अली एफसीए
95.	25077	श्री कृष्णन एस एफसीए
96.	25121	श्री सुरु रघुरामा एफसीए
97.	25149	श्री कृष्णामूर्ति टी एसीए
98.	25168	श्री बेनेट जी नजारेथ एसीए
99.	25512	श्री सेल्वम जे के एफसीए

100.	25540	श्री जयरामन एम एसीए
101.	25902	श्री गोपीनाथ रेड्डी वाई एफसीए
102.	25997	श्री राजासुन्दरम एस एसीए
103.	26007	श्री गिरिजन सी एफसीए
104.	26017	श्री पुरुषोत्तम राठी एच एफसीए
105.	26028	श्री विश्वनाथन एस एसीए
106.	26048	श्री यगप्पा फिलोमिन राज टी एफसीए
107.	26070	श्री मेथियाझान के एफसीए
108.	26072	श्री ज्योति प्रकाश ए एफसीए
109.	26249	श्री सतीश कुमार वी एफसीए
110.	26259	श्री गोपाल जे एसीए
111.	26283	श्री श्रीधर राव पी एफसीए
112.	26316	श्री रामालिंगम पी एम एफसीए
113.	26349	श्री मदन मोहन कुप्पा एफसीए
114.	26367	श्री प्रसाद एस एफसीए
115.	26474	श्री श्रीधर एस एफसीए
116.	26499	श्री गुरुशेखरन वी एसीए
117.	26774	श्री वेंकट राघवन वी एसीए
118.	26790	श्री बालाजी एस एसीए
119.	27095	श्री थामसन सैम एफसीए
120.	27158	श्री अजीजुल्ला सिद्दिकी एम एफसीए
121.	27272	श्री श्रीराम के वी एसीए
122.	27340	श्री रविशंकर टी एफसीए
123.	27537	श्री महेश रेड्डी आर एफसीए
124.	27695	श्री कृष्णा स्वामी के एसीए
125.	27796	श्री कृष्णा मोहन एल एसीए
126.	27929	श्री विश्वनाथन एस एसीए
127.	27939	श्री रमेश बाबु एस वी एफसीए
128.	28166	श्री रामाकृष्णन एस एसीए
129.	28176	श्री वेंकटेश्वर राव एन एसीए
130.	28210	श्री गोपाकुमार के एसीए
131.	28215	श्री श्रीकांत ए एसीए
132.	28265	श्री वेंकटेश्वर राव वी एसीए
133.	28300	श्री रमेश एस एसीए
134.	28303	सुश्री भुवना स्वामीनाथन एफसीए
135.	28347	श्री राम शर्मा यमार्थी एफसीए
136.	28608	श्री एंटो एम पी एफसीए
137.	28976	श्री धवाला वेंकटा सूर्या प्रकाश एफसीए
138.	28990	श्री आनंदकुमार आर एफसीए
139.	29128	श्री बालगोपाल सी एम एफसीए
140.	29185	श्री रामाचन्द्रन एस एसीए
141.	29228	श्री अलावाला कोटी रेड्डी एफसीए
142.	29335	सुश्री माया एस एसीए

143.	29515	श्री चक्रधर वी एफसीए
144.	29527	श्री वेणीमलाई आर एसीए
145.	29659	श्री सैमुअल राज जी एसीए
146.	29947	श्री मणि एस एफसीए
147.	29952	सुश्री कोहिला आर एसीए
148.	29967	श्री कृष्णन वी एसीए
149.	29977	श्री रविचन्द्रन के एफसीए
150.	36508	श्री मनी जी सी एस एफसीए
151.	37349	श्री शिवाकुमार एम के एसीए
152.	37985	श्री नरसैय्या मलमपति एफसीए
153.	43431	श्री कृष्णा प्रसाद गाने एसीए
154.	43814	श्री आदिल बेहराम पटेल एसीए
155.	44790	श्री गोपालकृष्णन ए वी एसीए
156.	44840	श्री विश्वनाथन टी वी एसीए
157.	47905	सुश्री माया भास्कर एसीए
158.	48826	श्री पुरोहित लक्ष्मीनारायण कृष्णाचार्य एसीए
159.	52272	श्री सुब्रामनियम एस बी एसीए
160.	52850	श्री राजा दिलीप कुमार एन एसीए
161.	53966	श्री हरी मेनन एसीए
162.	54585	श्री श्रीधर एन एसीए
163.	54895	श्री दुर्गावाजुला शिवाजी एसीए
164.	55061	श्री राजीव कुमार चतुर्वेदी एसीए
165.	55289	श्री रामाकृष्णन एस एसीए
166.	56022	श्री नियोगी संदीप एसीए
167.	56225	श्री बिस्वास अरीजित एसीए
168.	57075	श्री पार्थ साख्खी नारायण एसीए
169.	57648	श्री पेट्रो टी प्रसन्ना कुमार एसीए
170.	58119	श्री उदय प्रकाश एसीए
171.	59475	सुश्री पोद्दार डोला एसीए
172.	59493	श्री विकास अग्रवाल एफसीए
173.	60887	श्री डे सोविक एसीए
174.	61384	श्री भारद्वाज परवीन एसीए
175.	62191	श्री दास अनामित्रा एसीए
176.	62505	सुश्री प्रीति शारदा एफसीए
177.	62622	श्री साबू सौरव एसीए
178.	62788	सुश्री देवोरा कविता एसीए
179.	63382	श्री जैन शीतेश एसीए
180.	63780	सुश्री यशोदा ए एन वी एसीए
181.	64672	श्री सौरभ जयसवाल एसीए
182.	65221	सीए. विनीत चतुर्वेदी एसीए
183.	65423	सीए. बिनीत कुमार गुप्ता एसीए
184.	65644	सीए. सुमित कुमार अग्रवाल एसीए
185.	66401	सीए. संदीप मित्तल एसीए

186.	67347	सुश्री मंजरी सेनगुप्ता एसीए
187.	67379	श्री दिपन्कर राय एसीए
188.	71502	श्री मेहता रमेश एसीए
189.	78455	सुश्री यादव शालिनी एसीए
190.	79648	श्री भोजवानी प्रमोद कुमार एफसीए
191.	80141	श्री सुब्रमनियन यू एसीए
192.	83602	श्री रमानी जे वी एफसीए
193.	89233	श्री नारायण राव चन्थाटी एफसीए
194.	89408	श्री समीर शर्मा एफसीए
195.	89924	श्री राजीव दुआ एसीए
196.	92198	श्री सबरवाल नमित एसीए
197.	93256	श्री जोसफ जॉन एसीए
198.	95351	श्री चिरीमार ललित किशोर एसीए
199.	98856	श्री प्रत्यूश एफसीए
200.	98953	सुश्री रजनी वी रमन एसीए
201.	100605	श्री कुमार पी एसीए
202.	103074	श्री अरुण कुमार जी आर एफसीए
203.	106551	सुश्री मोनिका विजयकुमार एसीए
204.	106598	श्री गिरी वेंकटरमानी एसीए
205.	106933	श्री अरुण प्रसन्ना एसीए
206.	110166	सुश्री जयश्री एस लोकाेश्वर एसीए
207.	110189	श्री राधाकृष्णन गोविन्दन एसीए
208.	112868	श्री हरीश उप्पीली एसीए
209.	115239	सुश्री अश्विन दिलीप कोनदिनिया एसीए
210.	115603	सुश्री शीतल सतीश छजेड एसीए
211.	119279	श्रीमती दीपा दीपक लोहाना एसीए
212.	120068	श्री नवीन कुमार गडिया एसीए
213.	120152	श्री रवि भट्ट एसीए
214.	120667	श्री देवेश कुमार शर्मा एसीए
215.	121840	श्री नवीद जियाउल खान एसीए
216.	123759	श्री आनंद विनायक जोशी एसीए
217.	125341	श्रीमती शाहिदा तब्बुसम महमूद राजा सोलंकी एसीए
218.	126491	श्री विशाल निरंजन भरुका एसीए
219.	128721	श्रीमती हरजीत अलंकार पारकर एसीए
220.	129114	श्री विवेक अरुण मारने एसीए
221.	200166	श्री बालाजी आर एस एफसीए
222.	200234	श्री आनंद नायडु वी एफसीए
223.	200298	श्री राजामणि एस एसीए
224.	200377	श्री जयकर सैमुअल एसीए
225.	200392	श्री सुब्रमनियन के एसीए
226.	200401	श्री बालाजी जी वी एफसीए
227.	200402	श्री प्रकाश राम लक्ष्मीनारायण एसीए
228.	200404	श्री भास्कर एल एसीए

229.	200544	श्री नारायणन जी एस एसीए
230.	200622	सुश्री राजेश्वरी एस एसीए
231.	200645	श्री श्रीधर नागाबंदी एफसीए
232.	200709	श्री नागेश बी एफसीए
233.	200711	श्री वेंकटेश्वरलु के एसीए
234.	200723	श्री सैमुअल रेजी अब्राहम एसीए
235.	200748	श्री शिवा नागेश्वर राव दोरादला एफसीए
236.	200804	श्री वेंकटरामन के एसीए
237.	200823	श्री मधु मेनन के एसीए
238.	200837	श्री रमेश एन चारी एसीए
239.	200874	श्री शम्सुद्दीन ए एफसीए
240.	200902	श्री पांडुरंगाराव बी एफसीए
241.	200912	श्री शौरीराजन ए एसीए
242.	200956	श्री मूर्ति पी एस एसीए
243.	200966	श्री गुरुनाथन एस एसीए
244.	201033	सुश्री अत्मेलू ए आर एसीए
245.	201118	सुश्री सुधारानी एस एफसीए
246.	201171	श्री बालचन्द्र छडगा पी आर एसीए
247.	201175	श्री सुन्दरम के एस एसीए
248.	201178	श्री सुन्देशन एन एफसीए
249.	201190	श्री अरविन्द शिनाय आई एफसीए
250.	201217	श्री बेहुलियन एस एसीए
251.	201245	श्री सुंदरराजन जी एफसीए
252.	201273	श्री टॉमी मैथ्यू एसीए
253.	201557	श्री ओमप्रकाश के वी एफसीए
254.	201572	श्री रामकुमार एस एसीए
255.	201625	सुश्री उषा विजयन एसीए
256.	201636	श्री सैथिल नाथन बाला सुब्रमनियम एसीए
257.	201783	श्री नरसिम्हन एस एफसीए
258.	201807	श्री अब्दुल गफ्फूर पी एसीए
259.	201868	श्री विजय कुमार आर एसीए
260.	201887	श्री चिदम्बर आर विश्वेश्वरन एसीए
261.	202058	श्री गणपति भट्ट एफसीए
262.	202201	सुश्री धनलक्ष्मी एसीए
263.	202236	श्री पदमनाभन के एसीए
264.	202365	श्री कांसा कोटी वेंकटा श्रीकान्थ एफसीए
265.	202454	श्री प्रसन्ना एम वी एसीए
266.	202494	श्री सेल्वा मणि वी एफसीए
267.	202699	श्री रविचन्द्रन वी एसीए
268.	202787	श्री किशोर कुमार के एफसीए
269.	202838	श्री रवि एस एसीए

270.	202857	श्री रघोत्तम एस एसीए
271.	202892	श्री मोहन राजगोपालन एसीए
272.	203061	श्री वेन्काना नेल्लमिली एफसीए
273.	203066	श्री शत्रुघ्न सरमा रत्नापुडी एसीए
274.	203067	श्री राजन एन एफसीए
275.	203090	सुश्री अर्मुथावल्ली आर एफसीए
276.	203132	श्री चन्द्र रेड्डी बी एफसीए
277.	203258	श्री वेंकटा रेड्डी सीएच एसीए
278.	203329	श्री सुब्रमनियन के एसीए
279.	203367	श्री विशालक्षण पी एफसीए
280.	203450	श्री रविचन्द्रन टी एफसीए
281.	203458	श्री अजित पॉल एफसीए
282.	203479	श्री वेंकटा रतनम धवेजी सी एफसीए
283.	203564	श्री प्रशांत एम पी एसीए
284.	203596	श्री वेंकटा रतना कुमार पी एसीए
285.	203617	श्री महेश एन एसीए
286.	203680	श्री रामासुब्रमनियन जे एसीए
287.	203681	श्री देवानंद एसीए
288.	203711	श्री श्रीधर आर एफसीए
289.	203733	श्री श्रीनिवास राव कोरदा एफसीए
290.	203751	श्री वेवेल एल सिमोन्स एसीए
291.	203909	श्री अर्जुन अनंत एसीए
292.	203916	श्री महेश जी शिंदे एफसीए
293.	204016	श्री जगन्नाथन के एस एसीए
294.	204045	श्री लक्ष्मीनारायण आर एफसीए
295.	204047	श्री थॉमस टी एम एसीए
296.	204069	श्री मरकन्दन टी वी एसीए
297.	204079	श्री वेणु पी एसीए
298.	204158	श्री अब्दुल हमिद ए एफसीए
299.	204164	श्री टॉमी जोसफ एसीए
300.	204188	श्री पीटर क्लेवर सलदान्हा एफसीए
301.	204213	श्री माणिक्या प्रकाश बी एफसीए
302.	204257	सुश्री उमा महेश्वरी ए एसीए
303.	204440	श्री श्रीराम टी एसीए
304.	204502	श्री विनोद मैथ्यू एसीए
305.	204527	सुश्री संध्या के एसीए
306.	204528	श्री रवि कुमार धरबा एफसीए
307.	204548	श्री अनिल जोसफ एफसीए
308.	204554	श्री शिवा रेड्डी वाई वी एसीए
309.	204597	श्री बेलागुर एच एच एसीए
310.	204630	श्री प्रवीन रंगनाथन एन एफसीए
311.	204638	श्री गोविन्दराजन वी जी एफसीए
312.	204694	सुश्री लक्ष्मी किरन स्वाति डी एफसीए
313.	204718	सुश्री आशा स्टेनली एफसीए

314.	204905	श्री सुंदरमूर्ति के एसीए
315.	204919	सुश्री जयंति एन एसीए
316.	204939	श्री महालिंगम एम एसीए
317.	204996	श्री हरी कुमार के जी एसीए
318.	205160	श्री गुरुनाथन आर एफसीए
319.	205176	श्री नागेश्वरा राव काटामुरी एफसीए
320.	205178	सुश्री हनदत बिचकेथी मीरा शिनाय एसीए
321.	205331	श्री शाह नवाज टी एफसीए
322.	205422	श्री प्रशांत एम पी एसीए
323.	205597	श्री राजेशखन्ना सी एसीए
324.	205672	श्री रामा मोहन एन ए एसीए
325.	205673	श्री वेंकटरामन के एफसीए
326.	205759	श्री रामाकृष्णा बी वी एसीए
327.	205905	श्री हरनाथ रेड्डी ए एफसीए
328.	205909	श्री वेंकटासुब्रमनियन आर एसीए
329.	205918	श्री बालाजी आर एसीए
330.	205923	सुश्री हेमलता आर एसीए
331.	205924	श्री अनिस टी हेदरी एसीए
332.	205978	श्री सुरेश आर एसीए
333.	206041	श्री अरविन्द राव वी एन एसीए
334.	206090	श्री प्रसाद राव के वी डी एफसीए
335.	206106	श्री हरीनधा रेड्डी वी एफसीए
336.	206181	श्री राजीव फिलिप पी एन एसीए
337.	206192	सुश्री काला सुब्रमनियन एफसीए
338.	206228	श्री राजशेखर आर एसीए
339.	206249	श्री वेंकटेश पी ए एफसीए
340.	206289	श्री श्रीनिवासन ए एसीए
341.	206293	सुश्री मरिना एन्थोनी पिंटो एसीए
342.	206317	सुश्री जेयोना एन जोस एफसीए
343.	206356	सुश्री माधुरी एस एसीए
344.	206388	श्री एरिक साल्वादो मोरिस एफसीए
345.	206410	श्री वेंकटरामन एस एसीए
346.	206435	श्री सौमय्याजुलु डी वी एस एन एफसीए
347.	206480	श्री वीरा नागा भास्कर राव चोलापुनेदी एफसीए
348.	206522	सुश्री सुमा के एसीए
349.	206552	श्री बदया एस एस एन एफसीए
350.	206613	श्री गणेश पी एफसीए
351.	206627	श्री कृष्णा पी एस एस एफसीए
352.	206644	सुश्री हेमा एस एसीए
353.	206707	श्री सूर्याप्रकाश एस एसीए
354.	206726	श्री श्रीराम एस एसीए

355.	206958	श्री सप्तऋषि आर एफसीए
356.	207042	सुश्री अरुणा पी एफसीए
357.	207084	श्री हेमा प्रकाश रेड्डी के एसीए
358.	207128	श्री श्रीराम श्रीनिवासन जे एसीए
359.	207385	सुश्री शालिनी के एस एफसीए
360.	207407	श्री शण्मुगसुन्दरम एन एसीए
361.	207414	श्री कुमार जे एस एफसीए
362.	207536	श्री रामा प्रसाद वी एसीए
363.	207562	श्री रोबिन रामाकृष्णा एसीए
364.	207575	श्री राजेश टी बी एसीए
365.	207583	श्री राम मनोज कुमार एस एस एफसीए
366.	207633	श्री सतीश के आर एसीए
367.	207652	श्री मारुति रघुराम जोनलागाडा एसीए
368.	207771	सुश्री पदमजा चौधरी पी एसीए
369.	207775	श्री वर्धा चेरी एस एफसीए
370.	207788	श्री दिनेश कुमार ए के एफसीए
371.	207798	श्री टॉमी जेम्स एसीए
372.	207876	श्री तिरुमाला श्रीनिवास राव बालानगु एफसीए
373.	207884	श्री नारायणन एस एफसीए
374.	207888	श्री शिवारामाकृष्णन टी पी एसीए
375.	207927	श्री शशिधर एन एसीए
376.	208049	श्री शिवाप्रियन एन एसीए
377.	208056	श्री सत्यनारायण मेडा एसीए
378.	208113	श्री रंगाविठ्ठल के एसीए
379.	208165	श्री नंदीशा पी एम एसीए
380.	208171	श्री रामवइशवन आर एफसीए
381.	208194	सुश्री राजेश्वरी बालाकुमार एसीए
382.	208373	श्री बेलवेन्द्रियन वी एसीए
383.	208437	श्री वीनु थॉमस एफसीए
384.	208509	श्री रमेश एस एसीए
385.	208686	सुश्री रमय्या जे एसीए
386.	208794	श्री सुधीन्द्र जे एसीए
387.	208810	श्री कुमार जी एफसीए
388.	208910	श्री अलापति एस पी प्रसाद एफसीए
389.	208963	श्री वेंकटा नारायण याक्कांति एसीए
390.	208986	श्री पदमनाभ सी के एसीए
391.	209034	श्री प्रशांत एम शाह एसीए
392.	209062	श्री शिवु सैमुअल एम एसीए
393.	209068	श्री कलप्पा के के एसीए
394.	209204	श्री गणपति सुब्रमनियन वी एसीए
395.	209270	श्री कुट्टी चन्द्रशेखर के एफसीए
396.	209276	श्री वेंकडेश्वर प्रसाद बुलुसु एफसीए

397.	209321	श्री माता श्रीनिवास पेढा एफसीए
398.	209330	श्री नटराज पी एसीए
399.	209342	श्री सुनील एग्नल जॉन सिक्वेश एसीए
400.	209399	श्री श्रीनिवास राव चवलम एसीए
401.	209401	श्री माइकल स्टीफन एसीए
402.	209403	सुश्री गीता चेलप्पा एसीए
403.	209425	सुश्री विनीथा आर एसीए
404.	209594	श्री पेरुमहन्ती भुजंग प्रसाद एफसीए
405.	209652	सुश्री मुथु मागेश्वरी आर एसीए
406.	209655	सुश्री माधवी वी एसीए
407.	209675	सुश्री शीलू जोस एफसीए
408.	209706	श्री श्याम सुंदर के एसीए
409.	209850	श्री गिरी एम एस एसीए
410.	209935	श्री नारायणन आर एसीए
411.	209947	श्री रतनाकर शास्त्री एफसीए
412.	210079	श्री उप्पिली एस एसीए
413.	210134	श्री सुब्रमनियन आर एसीए
414.	210145	श्री सुब्रमनियम वी एसीए
415.	210169	सुश्री पवित्रा जी एसीए
416.	210260	श्री रक्षित एम वी एसीए
417.	210266	श्री राजेश पी बी एफसीए
418.	210274	श्री बाबु पी एसीए
419.	210306	श्री श्रीनिवास राव पोटनुरु एसीए
420.	210365	श्री रवि चन्द्र जैन एसीए
421.	210462	श्री ईश्वरदास वी एसीए
422.	210501	श्री वेंकटेश्वरा राव डी एफसीए
423.	210527	सुश्री लक्ष्मी प्रिया के आर एस एसीए
424.	210639	श्री संपत्त कुमार पी एसीए
425.	210708	श्री महेश जे पिल्लै एसीए
426.	210742	श्री श्रीराम एस एसीए
427.	210753	श्री साईराम वी एसीए
428.	210782	श्री आचार्य निरंजन शिरीशा एसीए
429.	210810	सुश्री प्रिया नरसिम्हन एसीए
430.	210908	श्री उमेश बाबु जे एफसीए
431.	211031	श्री सुन्द्रेसन के एफसीए
432.	211037	श्री शिवकुमार सी एसीए
433.	211051	श्री श्रीनिवास वी एसीए
434.	211065	श्री राघवेन्द्र कुमार एस एसीए
435.	211104	सुश्री श्रीविद्या वी एस एसीए
436.	211141	श्री गौतम अग्रवाल एसीए
437.	211169	श्री तुरलापति किरन कुमार एसीए
438.	211179	श्री मोहनदास एस एसीए
439.	211189	श्री रंजीथ बोबू पी एसीए
440.	211201	श्री विजयकृष्णा आर एसीए

441.	211234	श्री वेंकटेश्वरन एम एसीए
442.	211273	श्री जगन्नाथ प्रसाद आर एसीए
443.	211354	श्री स्वामिनाथन के एसीए
444.	211373	सुश्री संध्या सी एसीए
445.	211380	श्री राघवेन्द्र गुदुर एसीए
446.	211401	श्री ज्योति स्वरूप एम एसीए
447.	211431	श्री सुधीर आर एसीए
448.	211437	श्री गोपाल रंजन पेधी एसीए
449.	211443	श्री रामप्रसाद गट्टु एफसीए
450.	211459	श्री माइकल जोस एसीए
451.	211512	श्री लक्ष्मी नरसिम्हन एल एसीए
452.	211548	श्री रवि तथावर्ती एसीए
453.	211578	सुश्री निशीता नाडेल्ला एसीए
454.	211630	श्री संजय कुमार झावर एसीए
455.	211664	सुश्री कोमाथी के एसीए
456.	211682	श्री कामेश आर एसीए
457.	211683	श्री गंगाधरन वी एसीए
458.	211768	श्री बाश्यम ए एस एसीए
459.	211825	श्री विशाल एम शाह एसीए
460.	211852	सुश्री सरिता टी एसीए
461.	211874	श्री श्याम सुंदर एस एसीए
462.	211911	श्री बिक्सम रेड्डी चिन्ता कुंतल एफसीए
463.	211992	श्री सुरेश एस एसीए
464.	212048	श्री सहजजंदा रेड्डी टी एसीए
465.	212201	सुश्री उलगामई एम एसीए
466.	212223	सुश्री मीनाक्षी आर एसीए
467.	212293	श्री जेम्स टी वी एसीए
468.	212318	श्री देव प्रसाद ए एसीए
469.	212324	श्री अरविन्द एस एसीए
470.	212388	श्री गंगइया जी एसीए
471.	212467	श्री पोयामोली वी एसीए
472.	212479	श्री हरीश सी एफसीए
473.	212506	श्री सिद्धार्थ मोहन वी अनुमुकोन्दा एसीए
474.	212524	श्री राजवीर सिंह एसीए
475.	212528	श्री विजयआनंद राव बी एसीए
476.	212545	सुश्री गनाप्रिया बी एसीए
477.	212606	श्री बेन्सी जोसफ एसीए
478.	212611	श्री हरीश पुजारे एसीए
479.	212616	श्री राज किरन अयागरी एसीए
480.	212624	श्री अरुणागिरीनाथन एस एसीए
481.	212648	श्री जार्ज के मैथ्यू एसीए
482.	212809	सुश्री पदमाक्षी के वी एसीए
483.	212854	श्री वासुदेव नाथन एल एसीए

484.	212930	श्री राजेश आर के एसीए
485.	212942	सुश्री अनुष्का संजय कटारा एसीए
486.	212977	श्री मुष्मला श्रीधर एसीए
487.	212986	सुश्री मधु कनकारिया एस एसीए
488.	212988	सुश्री संगीता ए एसीए
489.	212991	श्री अखिल ए कपाडिया एसीए
490.	213009	श्री संतोष नायर आर एसीए
491.	213054	श्री रंजक कुमार एस एसीए
492.	213175	सुश्री श्रीविद्या एस एसीए
493.	213182	श्री वैकटेश के एसीए
494.	213218	सुश्री गौरी विजय देव एसीए
495.	213219	सुश्री ललिता एस एसीए
496.	213250	श्री गोपीनाथ मिश्रा एसीए
497.	213269	श्री विजय कौशिक पी आर एसीए
498.	213301	श्री येल्ला रेड्डी ए एफसीए
499.	213311	श्री कालेपल्ली रविन्द्र वर्मा एसीए
500.	213407	सुश्री सुधा एम एन एसीए
501.	213415	सुश्री अनुपमा लक्ष्मी येनामन्दरा एसीए
502.	213433	श्री भट्ट संतोष शंकर एसीए
503.	213450	श्री सुरेश के एफसीए
504.	213585	श्री चन्द्रकांत पेडादा एसीए
505.	213612	श्री जयकृष्ण पी एफसीए
506.	213655	श्री मैथ्यू थॉमस एसीए
507.	213665	श्री नरसिम्हा रेड्डी बी एसीए
508.	213672	श्री सेबी जोस एसीए
509.	213721	श्री भास्कर कुमार बी एफसीए
510.	213729	श्री जेबी मैथ्यू जाकरिया एसीए
511.	213739	श्री किशोर कुमार चलुवदी एसीए
512.	213750	सुश्री उमादेवी टी एसीए
513.	213805	श्री प्रदीप कुमार गुन्डेश्वर एफसीए
514.	213845	श्री शिवकुमार आर एसीए
515.	213944	श्री त्रिलोक ललित रहेजा एसीए
516.	213971	श्री दुश्यंत वी मेहता एसीए
517.	213996	श्री विकास कोठारी एसीए
518.	214003	श्री अनिलकुमार नकीरकांति एसीए
519.	214019	श्री प्रसन्ना के एसीए
520.	214072	श्री नागेश्वर रेड्डी बोमावरम एफसीए
521.	214148	श्री चैतन्या लिंगमालु वी आर के एसीए
522.	214150	श्री सुधाकर के एसीए
523.	214158	श्री रामा कृष्णा वी वी एसीए
524.	214210	सुश्री राधिका बी एसीए
525.	214387	सुश्री शारदा अग्रवाल एसीए
526.	214391	श्री कार्तिक भट्ट एफसीए
527.	214400	श्री रोबिन के पॉल एसीए

528.	214403	सुश्री आरती चेलामल एन एसीए
529.	214441	श्री सुनील राव ए एसीए
530.	214475	श्री रामाकृष्णा बातीनेनी एसीए
531.	214508	श्री कुलकर्णी संग्राम सुधीर एसीए
532.	214511	श्री सैयद सिराज एसीए
533.	214584	सुश्री मीतु सुराना एसीए
534.	214588	श्री बंडारु रामबाबू एसीए
535.	214624	श्री सौरभ अग्रवाल एसीए
536.	214646	श्री जौली के एस एसीए
537.	214649	श्री रामाचन्द्र राव पी एसीए
538.	214710	श्री जगन मोहन के जे एसीए
539.	214795	श्री सुरेश के एसीए
540.	214998	श्री रायकर विनय सुरेन्द्र एसीए
541.	215055	श्रीमती संध्या वी पथांगे एसीए
542.	215071	श्री मुरली कृष्णाय सी वी एम एसीए
543.	215077	श्री सेलवाविनयागम पी एसीए
544.	215086	श्री युगन्धर नेतयम एसीए
545.	215100	सुश्री लीजा जॉन एसीए
546.	215219	सुश्री रेखा के एसीए
547.	215302	सुश्री नित्या नारायण एसीए
548.	215342	श्री मोहंती संतोष कुमार एसीए
549.	215351	श्री श्रीवत्सा एस एसीए
550.	215399	श्री रवि कुमार बेलदी एसीए
551.	215456	सुश्री रानी एस एसीए
552.	215522	सुश्री चित्रा के उराल एसीए
553.	215614	श्री संतोष ए सी एफसीए
554.	215682	सुश्री प्राप्ति जी एसीए
555.	215745	सुश्री धन्या अजयकुमार एसीए
556.	215768	श्री कृष्णामूर्ति शिबराया एसीए
557.	215779	श्री शैषाद्रि वी एसीए
558.	215918	श्री श्रीराम पी एस एसीए
559.	215942	सुश्री नित्या गोविन्द एसीए
560.	216020	श्री बालामुरगन बी एसीए
561.	216044	श्री सूर्यानारायण मडाला एसीए
562.	216050	श्री कपुगन्ती रमेश एसीए
563.	216073	सुश्री कृष्णा प्रशांती के एसीए
564.	216110	श्री आनंद राव एसीए
565.	216162	श्री सूरज लमीछने एसीए
566.	216242	श्री अनु अब्राहम एसीए
567.	216269	सुश्री महालक्ष्मी ए एसीए
568.	216304	श्री धर्मान्धु राउत एसीए
569.	216366	श्री शिहाबुद्दीन थंगल सी ए एसीए
570.	216387	सुश्री कल्पना टी एसीए
571.	216443	सुश्री नंदनी एम एसीए

572.	216474	श्री शांतिलाल सी एसीए
573.	216485	श्री थंगाराज पी एसीए
574.	216494	श्री शुभंकर दास एसीए
575.	216515	सुश्री प्रवीन के आर एसीए
576.	216659	सुश्री माधवी लता स्वापल्ली एसीए
577.	216668	श्री प्रभाकरन वी एसीए
578.	216711	श्री जोबिन सबेस्टियन एम एसीए
579.	216779	श्री आदर्शा के जी एसीए
580.	216790	सुश्री शिरीन मेरी चेरियन एसीए
581.	216846	श्री राघवेन्द्रा राव पोगुला एसीए
582.	216858	श्री प्रकाश अडिगा बी एसीए
583.	217011	श्री राजेन्द्र प्रसाद ताल्लुरी एसीए
584.	217025	सुश्री रंजानी आर एसीए
585.	217028	सुश्री सारन्य वी एसीए
586.	217059	सुश्री चित्रा सी एसीए
587.	217114	श्री प्रेमकुमार एस एसीए
588.	217195	सुश्री उमावल्ली एम एसीए
589.	217220	श्री अनीश जार्ज एसीए
590.	217236	श्री एजो कनोथ जोसफ एसीए
591.	217241	श्री श्रीधर बाबू जी एसीए
592.	217261	श्री सेन्थिल कुमार एस एसीए
593.	217285	श्री समबथ कुमार ई एम एसीए
594.	217313	सुश्री दीपा जीवन एसीए
595.	217368	श्री हशीर ई वी एसीए
596.	217404	श्री गणेशन एस एसीए
597.	217475	सुश्री सुकन्या नाथ एसीए
598.	217493	श्री मोहनकृष्णन टी एसीए
599.	217494	श्री वेंकटेश प्रभु एसीए
600.	217563	श्री रोशन पोखरियल एसीए
601.	217585	श्री सुब्बारायडु सी एसीए
602.	217639	श्री अजीत कुमार धीर एसीए
603.	217825	सुश्री जैकलिन प्रीति वाई एसीए
604.	217884	श्री सुताकर डी एसीए
605.	218030	सुश्री प्रदीप के एसीए
606.	218061	सुश्री अबीरामासुंदरी पी एसीए
607.	218173	सुश्री कृतिका के एसीए
608.	218204	श्री कुन्दुरु नरसिम्हा रेड्डी एसीए
609.	218205	श्री प्रेम कुमार एल एसीए
610.	218244	श्री आनंद पानीकर एन एसीए
611.	218466	श्री योगीशा के जे एसीए
612.	218474	श्री जीवन कुमार एसीए
613.	218496	श्री सैयद विकरुद्दीन हुसैन एसीए
614.	218540	श्री अब्दुल ख्याम शेख एसीए
615.	218546	श्री मैथ्यू पी एम एसीए

616.	218564	श्री ऋषि कोठारी एसीए
617.	218640	सुश्री महालक्ष्मी पी एसीए
618.	218662	श्री साजिद रिजवी एल एम एसीए
619.	218672	सुश्री लक्ष्मी वी एसीए
620.	218683	श्री श्रीवात्सन आर एसीए
621.	218692	श्री अनुज जैन एसीए
622.	218700	श्री प्रवीन कुमार जलान एसीए
623.	218741	श्री दीपक अवतार गुप्ता एसीए
624.	218759	श्री राघवन सी एन वी एसीए
625.	218784	श्री जनार्दन रामाचन्द्र हेबर एसीए
626.	218892	श्री जावेद परवेज एसीए
627.	218935	श्री श्रीनिवासन एस एसीए
628.	218965	श्री नवीन कुमार ए एसीए
629.	218967	श्री नटराज शेखर थुनुगुतल एसीए
630.	219027	सुश्री जबीना बाबु एसीए
631.	219033	श्री गुरु संधानम जी एसीए
632.	219041	श्री वेंकटा पवन कुमार मालेला एसीए
633.	219098	श्री रमेश ए एसीए
634.	219134	सुश्री प्रीति मेरी जॉनसन एसीए
635.	219144	श्री विजय कुमार बोयिना एसीए
636.	219203	सुश्री आसिफा बानु शेख एसीए
637.	219206	श्री रामचन्द्र रेड्डी के एसीए
638.	219243	सुश्री रतनावनी के एसीए
639.	219246	सुश्री मधुचन्द्र एस चौगुला एसीए
640.	219254	श्री प्रताप आर एसीए
641.	219298	श्री तेनीती सुधाकर एसीए
642.	219301	श्री ज्योतिर्लिंगम एस एसीए
643.	219306	श्री पेडी रेड्डी टी एसीए
644.	219358	श्री कनकादास एल एसीए
645.	219405	श्री उग्रसेन मुदुली एसीए
646.	219440	श्री सिद्धार्थ एस एसीए
647.	219502	श्री अब्दुल कलीम बी एच एसीए
648.	219552	श्री प्रदीप वी एसीए
649.	219626	श्री नागराजा चारी पी एसीए
650.	219627	श्री रवि एच एस एसीए
651.	219663	सुश्री टिव्या एसीए
652.	219664	श्री श्रीधर कुन्देती एसीए
653.	219736	श्री लोकेश बच्चु एसीए
654.	219869	श्री अनिल डिसूजा एसीए
655.	219962	श्री प्रधान प्रिया दास एसीए
656.	219992	श्री सुब्बा राव चिता एसीए
657.	220061	श्री वैद्यनाथन जे एसीए
658.	220071	श्री किशोर कुमार बी एसीए
659.	220078	सुश्री अश्विनी जे एसीए

660.	220086	सुश्री लक्ष्मी वी एस एसीए
661.	220172	श्री सोमा शेखर गोलापुडी एसीए
662.	220217	सुश्री सुधा रानी यारापतरुनी एसीए
663.	220255	श्री स्कंदप्रसाद सीतारमन एसीए
664.	220260	सुश्री अदिती अश्विन कोटनिस एसीए
665.	220284	सुश्री रामादेवी खरीदु एसीए
666.	220287	श्री प्रकाश राव एम वी एस एसीए
667.	220342	श्री कमलेश ए के एसीए
668.	220413	श्री शिरीश आनंद जी एसीए
669.	220488	सुश्री विजया लक्ष्मी गुमपेना एसीए
670.	220492	श्री रामाकृष्णा रेड्डी बोरा एसीए
671.	220585	श्री मल्लिकार्जुन एम एस एसीए
672.	220588	श्री सचिन सी एसीए
673.	220618	श्री श्रीनिवासन वी आर एसीए
674.	220673	श्री कार्तिक कुमार के वी एसीए
675.	220717	सुश्री विजयालक्ष्मी ए एसीए
676.	220725	श्री महेश माणिकम के एसीए
677.	220728	श्री शशिधरन टी एसीए
678.	220729	सुश्री सोनू जैन एसीए
679.	220755	श्री दास सब्यासाची एसीए
680.	220852	श्री वेंकटेश्वरा राव तोताकुरा एसीए
681.	220865	श्री कृष्णा स्वरूप डी जी वी जी एसीए
682.	220875	सुश्री उन्नामलाई एआर एसीए
683.	220904	श्री पारिख जिमी रजनीकांत एसीए
684.	220951	श्री राजागोपालन वी एसीए
685.	220956	श्री रवि कुमार टी एसीए
686.	221011	श्री जॉन सैमुअल सी एसीए
687.	221024	सुश्री रंजीता मुनागला एसीए
688.	221084	सुश्री सौम्या आनंद एसीए
689.	221088	सुश्री शुभा वी मेनन एसीए
690.	221117	श्री रामु जामी एसीए
691.	221200	सुश्री मेघना टी हिन्दोचा एसीए
692.	221207	सुश्री एने जो ममपिल्लै एसीए
693.	221290	श्री राजेश बाबु जैसवाल एसीए
694.	221291	श्री अरविन्दन डी एसीए
695.	221304	श्री गोविन्दा राजु जे एसीए
696.	221321	श्री रमेश रेड्डी अणम एसीए
697.	221338	श्री कृष्णा किशोर नामा एसीए
698.	221342	सुश्री चन्द्रकला एच एच एसीए
699.	221392	श्री लक्ष्मी पुरण चन्द्र राव चेल्ला एसीए
700.	221434	श्री वेंकटरामन टी एसीए
701.	221544	श्री ललित मसकरा एसीए
702.	221554	श्री मालादी कृष्णा मोहन एसीए

703.	221615	श्री कुमुदा चन्द्र महाराणा एसीए
704.	221626	श्री रजनीश आर एसीए
705.	221662	सुश्री जीना एलिजाबेथ जार्ज एसीए
706.	221727	सुश्री सुजा नायर एसीए
707.	221738	श्री दिनेश जे एसीए
708.	221747	श्री किरन एन एसीए
709.	221756	श्री शिवा कृष्णा आई वी एस एन एसीए
710.	221762	श्री गुणाशेखर एन एसीए
711.	221780	श्री नवीन कुमार पी एसीए
712.	221793	श्री सुशील कुमार चितगोपकर एसीए
713.	221811	सुश्री शैलेजा सी एसीए
714.	221826	सुश्री शिवाकामी एस एसीए
715.	221837	श्री नवल किशोर सासमल एसीए
716.	221894	श्री शिवा नागेश्वर राव गुमादिल्ली एसीए
717.	221908	श्री रामा कृष्णा एम एसीए
718.	221909	श्री सचिन्द्र दीवन एसीए
719.	221922	श्री मनोहर बाबु अरवापल्ली एसीए
720.	221971	सुश्री हिमा बिन्दु कांचरला एसीए
721.	221983	सुश्री आशा विन्सेंट एसीए
722.	221985	श्री विनोद एच एन एसीए
723.	222004	श्री कार्तिक भट्ट एसीए
724.	222015	श्री नरसिम्हाप्रसाद रमेश रेवनकर एसीए
725.	222074	श्री राजेश बापत एसीए
726.	222081	सुश्री दीप्ति पेरतला एसीए
727.	222155	श्री संदीप कुंचम जे एसीए
728.	222177	श्री दिनेश बाबु एस बी एसीए
729.	222179	श्री विक्रम जोशी एसीए
730.	222219	श्री पाटिल नरहरि लक्ष्मणराव एसीए
731.	222226	श्री नरसिम्हा मूर्ति के एसीए
732.	222257	श्री मधुकर कामत के एसीए
733.	222285	श्री वुचिदी बालाराम एसीए
734.	222330	श्री मिथुन आनंद एसीए
735.	222331	श्री सुरेश कानन पी एसीए
736.	222335	सुश्री रामा के एसीए
737.	222338	श्री प्रसाद मामिलापल्ली एसीए
738.	222381	श्री ललित लालवानी एसीए
739.	222407	श्री रामभूपल रेड्डी एम एसीए
740.	222428	सुश्री रीना मेरी जॉन एसीए
741.	222443	श्री जामी संतोष कुमार एसीए
742.	222468	श्री मो. अब्दुल कादिर एसीए
743.	222503	श्री प्रधान नंदन कुमार एसीए
744.	222525	सुश्री बरखा सिंह एसीए

745.	222577	श्री अजीत कुमार के एसीए
746.	222588	श्री सोनी जोसफ एसीए
747.	222598	सुश्री वीएन एस कुमारी के एसीए
748.	222605	सुश्री प्रिया एम एसीए
749.	222785	श्री राघवन जे एसीए
750.	222788	श्री यतिश वी ए एसीए
751.	400575	श्री जैन मुकेश कुमार एसीए
752.	400899	श्री अरोड़ा जीतेन्द्र एसीए
753.	401604	श्री महात्राषि शांडिल्या एसीए
754.	402721	श्री परशुराम पुरिया सोमेश एसीए
755.	403402	श्री प्रणव कुमार सी एसीए
756.	403661	सुश्री गनिता शाह एसीए
757.	406244	श्री वैभव सुरेश जोशी एसीए

758.	409390	सीए. कपिल कुमार गुप्ता एसीए
759.	500051	श्री गुप्ता सत्या प्रकाश एसीए
760.	500885	श्री गुप्ता दुश्यंत एसीए
761.	501970	श्री राजीव कुमार एसीए
762.	502037	श्री अग्रवाल मनोज कुमार एसीए
763.	504835	श्री गुप्ता अतुल एसीए
764.	507180	श्री खागेन्द्र भट्टाराय एसीए
765.	508410	श्री बिनीत कुमार एसीए
766.	509360	श्री नीरज चौधरी एसीए
767.	509886	सुश्री स्मिता उमेशन एसीए
768.	510026	सुश्री अशावती पोडुवाल एसीए
769.	511864	श्री ज्योति प्रकाश आर एसीए
770.	513863	श्री नरसिम्हा राजु कोलुकुलुरी ए एसीए

टी. कार्तिकेयन
सचिव

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 6 मई 2011

सं. एन-15/13/11/1/2011--यो. एवं वि.--कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम, 1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा 46(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 मई, 2011 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95-क तथा पंजाब कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1955 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ पंजाब राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जाएंगे, अर्थात् :--

राजस्व गाँव का नाम	तहसील	जिला
नगर परिषद्, नंगल की सीमाओं के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र	नंगल	नंगल

आर. सी. शर्मा
निदेशक (यो. एवं वि.)

सं. एन-15/13/11/2/2011--यो. एवं वि.--कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम, 1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा 46(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 मई, 2011 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95-क तथा पंजाब कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1955 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ पंजाब राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जाएंगे, अर्थात् :--

राजस्व गाँव का नाम	तहसील	जिला
नगर पालिका क्षेत्र, फरीदकोट तथा फरीदकोट ग्रामीण (1 से 5) हदबस्त संख्या 75	फरीदकोट	फरीदकोट

आर. सी. शर्मा
निदेशक (यो. एवं वि.)

दिनांक 16 मई 2011

सं. एन-15/13/14/5/2010--यो. व वि.--कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम, 1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा 46(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 मई, 2011 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95-क तथा तमिलनाडु कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1954 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ तमिलनाडु राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जाएंगे, अर्थात् :--

केन्द्र	राजस्व गाँव
तिरुनेलवेली जिला तिरुनेलवेली तालुक तिरानचेरी	पिरानचेरी

आर. सी. शर्मा
निदेशक (यो. एवं वि.)

नई दिल्ली, दिनांक 26 मई 2011

संख्या : ए-12(11)-2/2000-स्था.1(क).—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 97 की उप धारा (2) के खण्ड (XXI) और उप धारा (2क) के साथ पठित उक्त धारा की उप धारा (1) और धारा 17 की उप धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम (भर्ती) विनियम, 1965, कर्मचारी राज्य बीमा निगम भर्ती विनियम, 1972, कर्मचारी राज्य बीमा निगम रिकार्ड सार्टर भर्ती विनियम, 1994, कर्मचारी राज्य बीमा निगम कनिष्ठ गेस्टेनर ऑपरेटर (भर्ती) विनियम, 1994 तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम (चपरासी) भर्ती विनियम, 2007 जहाँ तक वे गेस्टेनर ऑपरेटर, जमादार, दफ्तरी, रिकार्ड सार्टर, चपरासी, फरास, चौकीदार तथा सफाई कर्मी से संबंधित है, का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किए गए अथवा करने से रह गये कार्यों के अलावा कर्मचारी राज्य बीमा निगम केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से कर्मचारी राज्य बीमा निगम में बहु-कार्य स्टाफ के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया को विनियमित करने हेतु एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**— (1) ये विनियम कर्मचारी राज्य बीमा निगम, बहु-कार्य स्टाफ भर्ती विनियम, 2011 कहे जायेंगे।

(2) ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं वेतनमान.**— पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे सम्बद्ध वेतनमान इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में उल्लिखित अनुसार होंगे।
3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि.**—भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में उल्लिखित अनुसार होंगे।

4. **अनर्हता.**— ऐसा कोई व्यक्ति —

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह करने का करार किया है जिसका विवाहिती जीवित है; अथवा

(ख) जिसने अपने विवाहिती के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है अथवा विवाह करने का करार किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक इस बात से संतुष्ट हैं कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति अथवा विवाह की दूसरी पार्टी पर लागू वैयक्तिक कानून के अन्तर्गत अनुमेय है अथवा ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं तो वे किसी व्यक्ति को इन विनियमों से छूट दे सकते हैं।

5. **ढील देने की शक्ति.**—जहाँ क.रा.बी. निगम के महानिदेशक की राय में ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है तो वे केन्द्रीय सरकार से पूर्व अनुमोदन लेने के पश्चात तत्संबंधी कारणों को लेखबद्ध करके किसी श्रेणी अथवा व्यक्तियों के वर्ग के संबंध में इन विनियमों के किसी भी उपबंध में आदेश द्वारा ढील दे सकते हैं।
6. **अवशिष्ट मामले.**—इन विनियमों के उपबंधों के अधीन निगम में पदों की तदनुरूपी श्रेणी पर लागू कर्मचारी राज्य बीमा निगम (भर्ती) विनियम, 1965 में उल्लिखित अन्य सभी उपबंध इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची में कॉलम संख्या (1) में उल्लिखित पद पर लागू होंगे।
7. **अपवाद.**—इन विनियमों की कोई बात ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुरूप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा व्यक्तियों के अन्य वर्गों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन/ वेतनमान (रुपये)	क्या चयन पद है अथवा गैर-चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती वालों के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
बहु-कार्य स्टाफ	2826* (2011) *कार्यभार के आधार पर संख्या में परिवर्तन हो सकता है	ग्रुप 'ग'	वेतन बैंड-1 (5200-20200) + ग्रेड वेतन 1800/- रु.	लागू नहीं	18 से 25 वर्ष की आयु के बीच टिप्पणी : आयु-सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तारीख भारत में उम्मीदवारों के लिए आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख होगी (न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य का लद्दाख प्रभाग, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिला तथा चम्बा जिला का पंगी उप प्रभाग, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के प्रत्याशियों के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी।) रोजगार कार्यालय के माध्यम से की गई भर्ती के मामले में आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तारीख वह होगी जिस अंतिम तारीख तक रोजगार कार्यालय को नाम भेजने के लिए कहा गया है।	मैट्रिक पास अथवा समतुल्य

क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित की गई आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत उम्मीदवारों पर भी लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो तो	भर्ती की पद्धति क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद होने की स्थिति में उसका गठन	वह परिस्थितियां जिनमें भर्ती हेतु संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं	2 वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं	ग्रुप 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति (स्थायीकरण पर विचारार्थ) में शामिल है :- निदेशक(चिकित्सा) दिल्ली/ चिकित्सा अधीक्षक/ क्षेत्रीय निदेशक/ निदेशक(मुख्यालय)/ संयुक्त निदेशक(मुख्यालय)अध्यक्ष उप निदेशक(प्रशा.)/ उप निदेशक(चिकित्सा)/ उप निदेशक(सामान्य)/सदस्य सहायक भविष्य निधि आयुक्त (क.भ.नि.सं.)सदस्य	लागू नहीं

(डॉ. सी.एस. केदार)
महानिदेशक

अहमदाबाद-380014, दिनांक 2 मई 2011

सं. यू-16/53/2003/चिकि.11/गुज.--कर्मचारी राज्य बीमा निगम (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम 105 के अधीन निगम की शक्तियां महानिदेशक को प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की दिनांक 25 अप्रैल, 1951 को हुई बैठक में पारित किए गए संकल्प के अनुसरण में तथा महानिदेशक के आदेश संख्या पीटी-फाइल-यू-13/12/13/2005-पीटीएमआर (मैडी.-1) दिनांक 04.08.2008 द्वारा ये शक्तियां आगे मुझे सौंपी जाने पर मैं इसके द्वारा निम्नलिखित डॉक्टर(रों) को मानकों के अनुसार देय पारिश्रमिक पर निम्नलिखित तिथि तक एक वर्ष के लिए या पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशी के कार्यग्रहण करने तक, जो भी पूर्व हो, को राज्य चिकित्सा आयुक्त, (गुजरात) द्वारा निर्धारित क्षेत्र के लिए बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षण करने तथा मूल प्रमाणपत्र की सत्यता संदिग्ध होने पर उन्हें आगे प्रमाण पत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करता हूं :--

डॉक्टर का नाम	अवधि	केन्द्र का नाम
डॉ. डी. एम. खालसा पीटीएमआर	03.05.2011 से 02.05.2012	बड़ौदा/गुजरात

एच. पी. सिंह
राज्य चिकित्सा आयुक्त

केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद्

नई दिल्ली, दिनांक

सं. 13-32/2010के.हो.प./के.हो.र. भाग-II--नवीनीकरण 1993--केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् (पंजीकरण) विनियम 1982 के विनियम 9 जिसे होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 (1973 की 59वां) की धारा 21 एवं 15 के साथ पढ़ा जाए, पंजिका जिसे केन्द्रीय होम्योपैथी पंजिका के नाम से जाना जाता है। (जिसे भारत के राजपत्र में 02.01.1993 को प्रकाशित किया गया था एवं उक्त राजपत्र से हटाये नामों को भारत के राजपत्र दिनांक 09.08.2008 में छपा गया था) के कुछ पुनः स्थापित नामों को भारत के राजपत्र में, दिनांक 30 अप्रैल--06 मई, 2011 में की सूची की तारतम्यता में कुछ और नाम पुनः स्थापित कर साधारण सूचना हेतु भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए जाते हैं।

ललित वर्मा
रजिस्ट्रार

क्र.सं.	नाम	पिता/पति का नाम	पता (क) निवास स्थान (ख) व्यवसाय	राज्य जिसमें रजिस्ट्रीकृत है तथा राज्य रजिस्ट्रीकरण संजूर करने वाला प्राधिकारी	राज्य रजिस्ट्रार में रजिस्ट्रीकरण दिनांक	राज्य रजिस्ट्रार में दिया गया रजिस्ट्रीकरण संख्याक	यदि केन्द्रीय रजिस्ट्रार से हटाया गया है, तो उसकी तारीख और उसका/उसके कारण	टिप्पणियाँ
27	डॉ. गोविन्दास्वामी बालासुब्रमण्यन	गोविन्दास्वामी	होम्योपैथी मेडीकल प्रेवेंटीसनर 7, साऊथ कार स्ट्रीट, पेन्डम 606105, कुड्डलौर	तमिल नाडू	19/06/75	6814		2010/1680
28	डॉ. बालासुब्रमण्यन	गोनापथीय मिल्लाई	106-107 सेनबगवाल्म मन कोविल एस.टी. विरावनल्लुर - 627426	तमिल नाडू	07/04/75	908		2099/1750
29	डॉ. कृष्ण कुमार भागी	जी. आर. शर्मा	गांव - पपरौदी पी.ओ. एण्ड तहसील - समराला - 141114 जिला - लुधियाना (पंजाब)	हरियाणा	08/11/77	2131		2561/2120
30	डॉ. अशोक कुमार मारदाज	हरचरण दास मारदाज	84, न्यू लाजपत नगर पखोरवल रोड लुधियाना 141002	हिमाचल प्रदेश	20/01/77	बी-2859		2615/2161
31	डॉ. उर्मिला देवी भार्गवे	यश पाल	ए-122 एम.2.के. (और) एफ.एफ. मेफिल्ड गार्डन सेक्टर 47 गुडगांव (हरियाणा) 122018	हिमाचल प्रदेश	03/10/75	840-बी		2668/2204

32	डॉ. श्रीमती सुमित्रा भाटिया	सूरजन लाल भाटिया	2-ई/130-बी, एन.आई. टी. फरीदाबाद - 121001	हरियाणा	01/12/76	519		2779/2279
33	डॉ. सुरेश कुमार भाटिया	जे. के. भाटिया	स्ट्रीट नं. 5, घोबी तलाई बिकानेर (राज.) 334001	राजस्थान	10/11/71	717		2781/2299
34	डॉ. दिलीप भूषन मट्टाचर्टजी	दिनेश च. मट्टाचर्टजी	बिवर रोड, ओक-लैंड, शिलोंग - 1, मेघालय	मेघालय	15/10/84	2		2848/2356
35	डॉ. श्री नर्गेन्द्रा नाथ बॉस	प्रताप चन्द्रा बॉस	नॉर्थ ईस्ट नोअपारा (अमताला बाजार) पी.ओ. नोअपारा पी.एस. बरसात जिला (एन.) 24 पी.जी. एस. कोलकता - 700125 (वेस्ट बंगाल)	हरियाणा	07/12/77	2648-बी		3115/2583
36	डॉ. के. वी. गोविन्दा चेट्टी	के. वी. वेंकटरामा चेट्टी	पुडुपति पी.ओ. धर्मपुरी जि. तमिलनाडू 636905	तमिल नाडू	24/06/75	4349		3688/3079
37	ब्रह्मा स्वरूप चौधरी	राममरोसे	एट एण्ड पी.ओ. पुराना बाजार थारेट (थारेट) पिन - 475673 जिला दतिया (मध्य प्रदेश)	मध्य प्रदेश	21/07/73	5977		3940/3289
38	डॉ. टी. के. दामोदरन	कन्ना पिल्लई टी.	न्यू स्ट्रीट बालाथूर जिम. तालुक, वी.एल.टी. जिला 635813	तमिल नाडू	30/04/75	1527		4130/3448
39	डॉ. डी. दयाल उप्पल	सी. डी. उप्पल	731/7 हाजसिंग बोर्ड नियर जी.टी.बी. नगर जलन्धर शहर (144003)	पंजाब	06/02/75	बी-249		4624/3871
40	डॉ. शिव दयाल	जोति राम	एच-13, महेशनगर अम्बाला केन्ट. 133001	हरियाणा	02/09/76	382-बी		4630/3877

41	डॉ. ए. डी. राजागोपाल	ऐन्थले दुरईस्वामी	ओल्ड नं. 23 न्यू नं. 116 गोकुलपुरम, सैकेण्ड एस. टी. चैनगलपतीउ - 603001	तमिल नाडू	01/04/75	252	5435/4560
42	डॉ. दत्ता पूरनेनदू विकास	सुरेन्द्रा दत्ता	“गिरी भवन” आनंदमयिताल्ला बोरपारा, पी.ओ. चंदननगर, जिला - हुगली 712136	हरियाणा	08/11/77	2324	5491/4605
43	डॉ. दर्शन चन्द गुप्ता	बाबू राम	कन्साल रोड मेन मण्डी (बी.टी.पी.) पिन - 151509	पंजाब	05/01/78	4764	7012/5860
44	डॉ. गौरी शंकर गुप्ता		महारकर का बड़ा गणेश कालोनी, नया बाजार, लश्कर, जिला. ग्वालियर मध्य प्रदेश - 474009	मध्य प्रदेश	29/05/63	3696	7027/5872
45	डॉ. बेनी माधव गुप्ता	हनुमन्दिन	गुछई बाजार रेवा (म.प्र.) पिन - 486001	मध्य प्रदेश	25/07/73	6002	7139/5959
46	डॉ. विश्वा नाथ गुप्ता	बेहरी लाल	14/13/5, फैंज गंज, शांतिकुटीर मुरादाबाद	हरियाणा	08/11/77	2276-बी	7145/5965
47	डॉ. हाजा मोहिदीन अब्दुल हमीद	अब्दुल हमीद एस. के.	1 - 204, मेन रोड, कट्टर पोस्ट, तिरुवरुर जि. तमिलनाडू - 610104	तमिल नाडू	07/06/75	8131	7244/6053
48	डॉ. मधु सुदन जैन	जी. पी. जैन	47 - ए, इन्डस्ट्रीयल एरिया, रानी बाजार बिकानेर - 334001	राजस्थान	18/01/73	2381	7899/6618

49	डॉ. सुधिन्द्रा कुमार जैन	सोमत प्रसाद जैन	प्लेट नं. 201, प्लॉट नं. 236, गोपाल कृष्णा सोसायटी रोड नं. 15 जवाहर नगर गोरगांव (विस्ट) मुम्बई - 400062	हरियाणा	06/08/77	1679-बी	7949/6660
50	डॉ. उर्मिला जैन	जतिन्द्र कुमार जैन	बी 52/16 बाग नूहरिया माल, फिरोजपुर रोड लुधियाना	हरियाणा	08/11/77	2208	7963/6671
51	डॉ. पी. सम्बन्धाम	वी. पचक्कीरि पडायची	कलानीवसल, मेन रोड वडाकरिया पी.ओ. 609314, मे लड थूरिया (तमिलनाडु)	तमिल नाडू	04/02/76	9463	22841/18736
52	डॉ. जोएल सेम पंडियन	जॉर्ज जोएल	गीवा क्लीनिक नं. 1 अप्पावो इविंग मास्टर एस.टी. मुरुगन कुरुची 627002	तमिल नाडू	18/04/77	11108	22887/18776
53	डॉ. सुखमिन्द्र सिंह सिधु	संता सिंह	सिधु होम्यो. चिकित्सा, म. नं. 131/14, संता बाजार, एन/खादिमवन नवाब गंज रोड मालेरकोट जिला - संगौर	पंजाब	28/05/76	1432-बी	25729/21281
54	डॉ. शम्भू नाथ तिवारी	परमानंद तिवारी	एट पोस्ट - बरी सेमरिया जिला रेवा मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश	19/10/65	4346	29790/24891
55	डॉ. बसंता कुमार तिपाठी	सरो आनंद तिपाठी	एट एण्ड पी.ओ. किनजीरकेला जिला सन्दागढ़ वाया बालिसंकरा 770015 (उड़ीसा)	उड़ीसा	27/07/74	2462/ए	29840/24935

NATIONAL HOUSING BANK
New Delhi, the 6th June, 2011

No. NHB.HFC.REG-4/CMD/2011. In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 29A of the National Housing Bank Act, 1987 (53 of 1987) the National Housing Bank, hereby specifies the minimum net owned fund to be ten crore of rupees for a housing finance institution which is a company which commences the business of a housing finance institution on or after the date of publication of this notification in the Official Gazette:

Provided that the specification of higher net owned fund shall not be applicable to a company whose application for certificate of registration under section 29A of the said Act is submitted to the National Housing Bank before the date of publication of this notification in the Official Gazette.

R. V. VERMA
Chairman and Managing Director

ANDHRA BANK

Hyderabad, the 20th May 2011

No.666/3/P/56 - In exercise of the powers conferred by Section 19, read with sub-section (2) of section 12 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Board of Directors of the Andhra Bank in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Government, hereby makes the following regulations further to amend the Andhra Bank (Employees') Pension Regulations, 1995, namely: -

1. (1) These regulations may be called the Andhra Bank (Employees') Pension (Amendment) Regulations, 2009.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Andhra Bank (Employees') Pension Regulations, 1995, (hereinafter referred as the said regulation), in regulation 2, in clause(o), for sub-clause (c), the following sub-clause shall be substituted, namely:-

"(c) son or daughter including widow or divorced daughter till he or she attains the age of twenty five years or upto his or her marriage or re-marriage, whichever is earlier including such son or daughter adopted legally;".

3. In the said regulations, in regulation 8 after sub-regulation (3), the following sub-regulation shall be inserted namely:-

"(4) The term of appointment of trustee shall be for a period of three years and the Bank may re-appoint a trustee who has already completed his term; provided that no trustee shall be appointed for more than two terms."

4. In the said regulations, in regulation 9, the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that all such direction shall be given in writing and shall specify the purpose or objective."

5. In the said Regulations, regulation 10, in sub-regulation (2), in the opening portion, for the words "Within one hundred and eighty days from the closing of each financial year", the words "Within sixty days from the date of publication of the Balance Sheet of the Bank" shall be substituted.

(S R K PRASAD)
GENERAL MANAGER (HR)

Foot Note: The Principal Regulations were published in the Gazette on India on 29.09.1995 and subsequent amendments were published in the Gazette of India as under:-

<u>Notification No.</u>	<u>Date</u>
1. 666/3/P/Min/848	03.04.1999
2. 666/20/P/359	22.02.2003
3. 666/20/P/517	03.05.2003
4. 666/20/P/92	19.06.2004

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

Chennai-600034, the 1st April 2011

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

3SCA(5)/1/2009-2010: With reference to this Institute's Notification Nos. 4-CA(1)/27/1976-77 dated 05/03/1977, 4SCA(1)/9/1979-80 dated 15/03/1980, 4SCA(1)/4/82-83 dated 31/03/1983, 3SCA(4)/10/83-84 dated 31/03/1984, 3SCA(4)/8/1987-88 dated 30/12/1987, 3SCA(4)/10/88-89 dated 27/01/1989, 3WCA(4)/8/90-91 dated 05/03/1991, 3WCA(4)/5/92-93 dated 01/12/1992, 3SCA(4)/3/93-94 dated 11/01/1994, 3SCA(4)/4/94-95 dated 22/02/1995, 3WCA(4)/2/95-96 dated 13/05/1996, 3ECA(4)/2/96-97 dated 20/12/1996, 3NCA(4)/2/97-98 dated 08/12/1997, 3ECA(4)/3/1998-99 dated 12/05/1999, 3SCA(4)/6/1999-2000 dated 03/04/2000, 3ECA(4)/3/2000-2001 dated 22/02/2001, 3NCA(4)/1/2001-2002 dated 21/11/2001, 3SCA(4)/4/2002-2003 dated 30/04/2003, 3CCA(4)(3)/2003-2004 dated 10/02/2004, 3SCA(4)/5/2004-2005 dated 18/03/2005, 3SCA(4)/3/2005-2006 dated 31/03/2006, 3SCA(4)/3/2006-2007 dated 11/08/2007, 3SCA(4)/1/2007-2008 dated 16/11/2008, 3SCA(4)/1/2008-2009 dated 30/11/2009, 25-CA(49)/2000 dated 04/05/2009, 3SCA(4)/2/2009-2010 dated 09/07/2010.

It is hereby notified in pursuance of Regulation 20 of the Chartered Accountants Regulations 1988, that in exercise of the powers conferred by Regulation 19 of the said Regulations, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has restored to the Register of Members with effect from the dates mentioned against their names, the names of the following members:-

S. No.	MRN	Member Name	Restore Date	S.No.	MRN	Member Name	Restore Date
1	001742	MR. SESA JAIN FCA	25/05/2009	19	018493	MR. DEVARAJAN G FCA	20/04/2009
2	003021	MR. BASAVAPURNAIAH CHALASANI FCA	08/10/2009	20	018659	MR. GUHARROY ASHISH KUMAR ACA	22/03/2010
3	004209	MR. VENKATARAMAN K FCA	29/12/2009	21	018862	MR. DIVAKAR J ACA	23/11/2009
4	005785	MR. VENKATESWARA RAO K FCA	26/02/2010	22	019078	MR. SAINATH T R FCA	03/09/2009
5	006862	MR. PARTHASARATHY V ACA	15/07/2009	23	019179	MR. KAMATCHI A FCA	10/11/2009
6	007079	MR. RAJA S ACA	28/04/2009	24	019245	MR. PALANI BATCHA S FCA	01/02/2010
7	010564	MR. SUBRAMANIAN R ACA	12/01/2010	25	019524	MR. JOSEPH DESMOND VAZ ACA	09/03/2009
8	010566	MR. SIVARAMAKRISHNA IYER S ACA	08/04/2009	26	019611	MR. NAGESWARA RAO GUNUPUDI FCA	12/05/2009
9	010691	MR. NATARAJAN V K ACA	18/08/2009	27	019786	MR. RAVI KUMAR K ACA	27/08/2009
10	011093	MR. SUKUMARAN T P S FCA	25/08/2009	28	020636	MR. HARI C V ACA	23/10/2009
11	012292	MR. RAJAGOPALAN S V ACA	23/02/2010	29	020760	MR. BADARINATH R T FCA	22/06/2009
12	014224	MR. SHAMANNA NANJAPPA ACA	07/05/2009	30	020917	MR. BALASUBRAMANIAN C ACA	27/07/2009
13	014856	MR. RAMASWAMY M V ACA	31/12/2009	31	020934	MR. ANBAZHAGAN R FCA	12/05/2009
14	014959	MR. RANGABALAN K ACA	19/05/2009	32	021067	MR. SRINATH B FCA	19/11/2009
15	015668	MR. HARIHARAN M FCA	04/06/2009	33	021115	MR. MANICKAM K ACA	29/06/2009
16	016311	MR. NACHIAPPAN MR FCA	21/07/2009	34	021135	MR. RAVICHANDRAN S ACA	30/09/2009
17	018051	MR. BHARATHAN K ACA	26/05/2009	35	021311	MR. VATSARAMAN V ACA	08/06/2009
18	018099	MR. PADMANABHAN C ACA	01/12/2009	36	021391	MR. SUBRAMANIAN N FCA	11/09/2009

S.No.	MRN	Member Name	Restore Date	S.No.	MRN	Member Name	Restore Date
37	021458	MR. VERUGHESE J FCA	13/11/2009	67	024427	MR. ASHOK V S ACA	30/07/2009
38	021538	MR. NANDA KUMAR R ACA	11/04/2009	68	024585	MR. RAM REDDY Y ACA	01/01/2010
39	021646	MR. IQBAL BAIG M ACA	04/05/2009	69	024709	MR. NAGAPRASAD B R ACA	25/06/2009
40	021672	MR. BABU U V M ACA	27/10/2009	70	024715	MR. OSCAR C ALBUQUERQUE ACA	13/07/2009
41	021975	MR. CHANDRASEKAR S ACA	29/06/2009	71	024774	MR. GANAPATHY P ACA	04/05/2009
42	022078	MR. MURALIDHARAN S ACA	12/05/2009	72	024958	MR. SATHYANARAYANA PRASAD R K ACA	08/09/2009
43	022125	MR. MANOHARAN R ACA	28/05/2009	73	025351	MR. RANGARAMANUJAM N R FCA	05/01/2010
44	022235	MR. RAMAKRISHNAN R ACA	02/12/2009	74	025424	MR. KULOTHUNGAN S ACA	21/08/2009
45	022289	MR. RAKESH SUD ACA	04/12/2009	75	025428	MS. LATHA KRISHNAKUMAR ACA	16/10/2009
46	022326	MR. JAGADISH BHAI N DAVEY FCA	10/09/2009	76	025441	MR. ANIL R MALLYA ACA	06/01/2010
47	022406	MR. SAMBASIVAM M ACA	08/03/2010	77	025543	MS. ANNAMMA SEKHARAN ACA	29/06/2009
48	022451	MR. SHANKAR T G ACA	11/01/2010	78	025665	MR. VENKATESWARLU R ACA	07/08/2009
49	022469	MR. RAVI KUMAR S ACA	15/10/2009	79	025681	MS. VIJAYALAKSHMI K ACA	03/08/2009
50	022485	MR. VENKATA RAMAN V FCA	09/02/2010	80	025695	MR. KUMAR S B FCA	11/02/2010
51	022487	MR. VIMAL KUMAR C ACA	07/08/2009	81	025769	MR. JAISHANKAR S ACA	17/03/2009
52	022702	MR. CHELLIAH A FCA	04/03/2010	82	025787	MR. KUMAR L N SURESH ACA	06/04/2009
53	022809	MR. SUBBARAO K V FCA	08/02/2010	83	025807	MR. KANNAN A ACA	21/07/2009
54	022847	MR. KUMAR K ACA	10/06/2009	84	025988	MR. RAMANARASIMHA RAO V V S FCA	30/12/2009
55	023009	MR. VENKATA SIVAKUMAR REDDY D FCA	17/06/2009	85	026184	MR. RAMESH R ACA	09/04/2009
56	023080	MR. KUCHIBHOTLA SYAM SUNDAR FCA	14/09/2009	86	026187	MR. VENKATESWARAN R ACA	06/07/2009
57	023352	MR. THOMAS VARUGHESE P ACA	01/03/2010	87	026191	MR. RAVI RAMANATHAN ACA	04/12/2009
58	023362	MR. PRABHAKAR SEKHAR K ACA	27/07/2009	88	026380	MR. SATYANARAYANA BABJI M ACA	08/10/2009
59	023767	MR. MEENAKSHISUNDARAM T C ACA	17/12/2009	89	026533	MR. VEERAPRABHAKAR T ACA	07/09/2009
60	023824	MR. RAMACHANDRAN S FCA	03/02/2010	90	026615	MR. ANAND K ACA	23/11/2009
61	024031	MR. SATYANARAYANA R V V ACA	04/01/2010	91	026697	MR. MEKA NARENDRA PRASAD ACA	14/04/2009
62	024043	MR. SIVA RAMA PRASAD J FCA	04/02/2010	92	026699	MR. MURALIDHARAN V FCA	02/06/2009
63	024045	MR. VENUGOPAL P ACA	31/12/2009	93	026768	MR. VIJAYAKUMAR R V FCA	10/06/2009
64	024073	MR. JEYABASKARAN R FCA	29/06/2009	94	026796	MR. SAMPATH KUMAR N FCA	07/08/2009
65	024251	MR. BHAKTAVATSALA REDDY S ACA	20/05/2009	95	026917	MR. KOPPAKA Y T V SRINIVAS FCA	14/09/2009
66	024332	MR. RATNASEKAR P FCA	19/05/2009	96	026962	MR. SANIL VARGHESE FCA	26/11/2009

S.No.	MRN	Member Name	Restore Date	S.No.	MRN	Member Name	Restore Date
97	027159	MR. SHANKAR K N ACA	09/09/2009	127	029780	MR. NAGESHWAR RAO N ACA	08/12/2009
98	027192	MR. JAYAPRAKASH M FCA	02/07/2009	128	029995	MR. SABANAYAGAM S ACA	24/07/2009
99	027202	MR. THOMAS T C ACA	07/08/2009	129	038130	MR. MANOJ K GARGA ACA	16/07/2009
100	027212	MR. BALAJI R FCA	16/09/2009	130	040984	MR. RAMAKRISHNAN V ACA	21/10/2009
101	027309	MR. SAJI MATHEW ACA	11/09/2009	131	041429	MR. ABRAHAM THOMAS FCA	19/06/2009
102	027438	MR. SHAH KETANKUMAR AMICHAND ACA	24/08/2009	132	043696	MR. MOHAN DAS T R ACA	05/01/2010
103	027493	MR. JOHN K VARGHESE FCA	07/08/2009	133	044809	MR. THULASI KUMAR M K FCA	10/06/2009
104	027520	MR. MUTHIAH O ACA	21/12/2009	134	046066	MR. SRIRAM SRINIVAS ACA	27/10/2009
105	027631	MR. ATHMANATHA SHARMA H ACA	24/09/2009	135	046112	MS. RAO MAMATHA HARIDAS ACA	24/07/2009
106	027665	MR. VISWANATH KRISHNAN N A FCA	22/03/2010	136	046651	MR. CHANDRA MOHAN S ACA	27/05/2009
107	027743	MR. SURESH K ACA	03/11/2009	137	046694	MR. SATHI SRIDHAR ACA	03/11/2009
108	028025	MR. GANAPATHY SANKAR K ACA	09/09/2009	138	049901	MR. ROHIT PRAKASH FCA	29/07/2009
109	028117	MR. SANJAY PRAKASH MOHNOT FCA	01/01/2010	139	050828	MR. SURESH CHANDRA SENAPATY FCA	14/10/2009
110	028133	MR. VENKATESWAR RAO G ACA	28/08/2009	140	053685	MR. SUNIL V J GEORGE ACA	24/08/2009
111	028478	MR. SANTHOSH JAMES ACA	04/11/2009	141	054320	MR. SOMNATH MUKHERJEE ACA	26/08/2009
112	028544	MR. RAVINDRAN G ACA	21/07/2009	142	055685	MR. ANAND S ACA	31/08/2009
113	028849	MR. THANUMALAYAN S N FCA	04/03/2010	143	055732	MR. GANESH V S ACA	01/06/2009
114	028861	MR. KESAVAN K FCA	17/11/2009	144	056293	MS. SUMAN M KARWA ACA	04/08/2009
115	028981	MR. VISVESWARA H S FCA	10/08/2009	145	056342	MR. SUKHTANKAR JAYANT ANANT FCA	23/11/2009
116	028999	MR. RAJESH KUMAR MATHUR ACA	11/08/2009	146	056644	MR. SUBUDHI KONCHADA NEELA MOHAN ACA	17/12/2009
117	029040	MR. VILINA PRAKASH K V ACA	11/08/2009	147	056958	MS. BHUVANESWARI SRINIVASAN ACA	11/02/2010
118	029055	MR. RAVI K FCA	22/12/2009	148	058070	MR. SUBRAMANIAM R V ACA	04/05/2009
119	029145	MR. SIVAKUMAR A R ACA	23/04/2009	149	058230	MR. PANDA DEBARCHAN ACA	25/01/2010
120	029176	MR. SHANKAR ANANTHARAMAN FCA	18/02/2010	150	058425	MS. SUJATHA V ACA	10/12/2009
121	029440	MR. JOHN KURIAN ACA	21/07/2009	151	058641	MR. PODDAR VIKAS ACA	04/06/2009
122	029516	MR. VISWANATH P S ACA	25/11/2009	152	062273	MR. NANGALIA AMIT KUMAR ACA	15/01/2010
123	029522	MR. SUNIL R SHENOY K FCA	09/06/2009	153	062503	MS. SABOO MONISHA ACA	18/12/2009
124	029587	MS. KAMALA K FCA	23/10/2009	154	062695	MS. FITKARIWALA SUPRIYA ACA	22/06/2009
125	029669	MR. GIREESH K FCA	07/05/2009	155	063145	MR. JAIN RAHUL ACA	17/12/2009
126	029770	MR. NARAYANA VASU A V S ACA	18/06/2009	156	063642	MR. LOYALKA MANISH ACA	30/07/2009

S.No.	MRN	Member Name	Restore Date	S.No.	MRN	Member Name	Restore Date
157	064776	MR. SHABBIR HUSSAIN ACA	10/07/2009	187	200521	MR. NARENDRA JAIN ACA	20/04/2009
158	078159	MR. GUPTA SANJAY ACA	09/09/2009	188	200602	MR. NARENDRA SHENOY M ACA	12/08/2009
159	083838	MR. RAMAN A N ACA	20/01/2010	189	200719	MR. RAMACHANDRAN A ACA	01/10/2009
160	084354	MR. JOSEPH JAMES ACA	27/04/2009	190	200845	MR. SYAMA SUNDARA RAO V V S ACA	28/07/2009
161	086800	MR. SANDEEP GUPTA ACA	25/06/2009	191	200922	MR. VINOD JOSEPH TELLIS ACA	11/01/2010
162	087467	MR. AVNISH JINDAL ACA	25/03/2010	192	200943	MR. MURALI NARAYANAN V R FCA	07/05/2009
163	089521	MR. KESHAVDAS ACA	13/08/2009	193	201078	MR. NATARAJAN P ACA	03/08/2009
164	091059	MR. SUNIL GUPTA ACA	14/05/2009	194	201207	MR. RAJASEGARAN M ACA	07/07/2009
165	093191	MR. SINGH KANWALJEET ACA	03/11/2009	195	201833	MR. JAYARAJ T S ACA	01/12/2009
166	096044	MR. SACHIN KUMAR ACA	15/04/2009	196	201850	MR. MARELLA VENKATA UMAPATHI RAO FCA	07/07/2009
167	096998	MR. KHOWALA PRATIK ACA	23/02/2010	197	201885	MR. BENJAMIN P T ACA	11/09/2009
168	103433	MR. NIGUDKAR AJAY AVINASH ACA	04/11/2009	198	201957	MR. CHANDRASEKARAN K ACA	14/08/2009
169	104551	MRS. HETAL PARAG MODI ACA	11/06/2009	199	202160	MR. DHARMALA VENKATA RAMANA MURTHY FCA	07/09/2009
170	106604	MR. PREMAL ARVIND DESAI ACA	03/08/2009	200	202181	MR. SHIJU ABRAHAM THOMAS ACA	17/02/2010
171	110105	MS. SHILPA OMPRAKASH MAHESHWARI ACA	11/06/2009	201	202284	MR. VENKATARAMAN P N ACA	19/06/2009
172	111413	MR. HARIHARAN GANESAN ACA	06/04/2009	202	202294	MR. BADRINATH P ACA	13/07/2009
173	112926	MR. VINEET ASHOKKUMAR BHANSALI ACA	29/12/2009	203	202388	MR. RADHA SHYAM GOTETI FCA	04/05/2009
174	114230	MR. SAROJ KUMAR KHUNTIA ACA	15/02/2010	204	202461	MR. SRINIVASA VARAPRASAD GUNNAM FCA	20/08/2009
175	114258	MRS. UNNATI VIRAL SHAH ACA	15/02/2010	205	202542	MR. RASHID MOHAMMED I ACA	09/06/2009
176	115926	MR. HARSHVARDHAN RAICHANDBHAI LUNIA ACA	01/02/2010	206	202549	MR. KAMBHOJI RAJA MOHAN SETTY ACA	02/07/2009
177	119718	MR. TANVEER ALI MOINUDDIN MIRANJI ACA	24/07/2009	207	202555	MR. SRINIVASAN N ACA	02/12/2009
178	200029	MR. KRISHNAMURTHY R ACA	26/04/2010	208	202566	MS. NIRMALA MATHEW K FCA	21/10/2009
179	200033	MR. NAVEEN SREEDEVAN FCA	05/10/2009	209	202584	MR. UMASANKAR RAO P FCA	15/06/2009
180	200175	MR. BALASUBRAMANIAN R ACA	15/04/2009	210	202651	MR. SRINIVAS L R ACA	22/09/2009
181	200274	MR. SHIBU M CHACKO ACA	25/03/2010	211	202674	MR. MOHAN D V R K ACA	29/03/2010
182	200387	MR. RAVINDRA KUMAR S ACA	18/11/2009	212	202687	MR. MANI KANTESWARAN K ACA	24/02/2010
183	200432	MR. KUPPUSAMY R ACA	25/02/2010	213	202876	MR. NARAYANA RAO PACHIGOLLA FCA	20/10/2009
184	200441	MR. LALEN THOMAS ACA	31/08/2009	214	203003	MR. SELVAMANI K P L FCA	15/09/2009
185	200452	MR. SANKARA SUBRAMANIAN R ACA	12/10/2009	215	203012	MR. SRINIVASAN R ACA	24/03/2010
186	200517	MR. RAVISHANKAR B ACA	13/01/2010	216	203057	MR. SUNDARARAMAN A S ACA	16/07/2009

S.No.	MRN	Member Name	Restore Date	S.No.	MRN	Member Name	Restore Date
217	203242	MR. RATNAKAR BANDARU FCA	19/03/2010	247	205303	MR. BALASUBRAMANIAN R ACA	29/12/2009
218	203295	MS. DEEPA S CHANDRIE ACA	15/05/2009	248	205401	MR. JERALD PETER N A ACA	24/06/2009
219	203342	MR. VENKATA HARI PRASAD G ACA	23/11/2009	249	205532	MR. RAJ KUMAR CHEBROLU FCA	22/06/2009
220	203430	MR. HARINATH K FCA	01/09/2009	250	205538	MS. JEENA OOMMEN ACA	15/02/2010
221	203460	MR. RAJESH SRIPADA ACA	06/04/2009	251	205558	MR. PRASAD S V B ACA	18/08/2009
222	203561	MR. SRINIVASA RAO PARITI FCA	18/06/2009	252	205605	MR. PARAS KUMAR P FCA	22/07/2009
223	203641	MR. VENKATESH B FCA	24/12/2009	253	205661	MS. RADHIKHA S ACA	31/08/2009
224	203702	MR. KRISHNAN R ACA	27/01/2010	254	205663	MR. GANESH T ACA	06/05/2009
225	203715	MR. SHAIK BUDA SAHEB FCA	07/08/2009	255	205719	MR. SHAIK USMAN S A ACA	18/03/2010
226	203723	MR. BRAHMAIAH VUNNAM FCA	16/11/2009	256	205726	MR. MUTHUKUMAR D ACA	28/08/2009
227	203903	MS. MEENAKSHI R ACA	15/07/2009	257	205832	MS. TARA GOPALKRISHNAN ACA	27/07/2009
228	203930	MR. VENKAT RAO K ACA	15/09/2009	258	205873	MR. BALAJI PRASAD N FCA	30/06/2009
229	203955	MR. PRABHAKAR VEERAVALLI ACA	22/03/2010	259	205967	MR. VENKATESH V ACA	20/01/2010
230	203956	MS. SUMA VASUDEVAN ACA	11/02/2010	260	206053	MR. SUBRAHMANYAM A V K FCA	23/01/2010
231	203968	MR. TEJOMURTULA RAMOJI ACA	17/12/2009	261	206218	MR. GUNNESWARA RAO PUSARLA ACA	03/02/2010
232	204012	MR. RAMACHANDRAN K FCA	08/10/2009	262	206290	MR. RAJESH A ACA	03/06/2009
233	204018	MR. SRINIVASAN C ACA	13/08/2009	263	206325	MR. PACKIARAJ M ACA	12/08/2009
234	204106	MS. SHUBHA S ACA	14/05/2009	264	206358	MS. FAUZIA B JAVID FCA	03/07/2009
235	204115	MS. PADMAPRIYA RAVI SHANKAR ACA	16/09/2009	265	206429	MR. BALAJI VARMA PUSAPATI ACA	29/06/2009
236	204244	MR. KARTICK S V ACA	31/08/2009	266	206499	MR. NIJU ABRAHAM ACA	15/07/2009
237	204254	MR. SHAHUL HAMEED F ACA	20/01/2010	267	206543	MR. SURESH BABU V ACA	27/07/2009
238	204285	MS. VEDAVALLI P ACA	14/12/2009	268	206654	MR. GIRIDHAR N BHAT ACA	09/02/2010
239	204405	MR. BHALAAJI M ACA	27/11/2009	269	206789	MR. KANNEGANTI RANGA RAO ACA	29/04/2009
240	204449	MR. RAVI KRISHNAN M ACA	06/10/2009	270	206859	MR. GANESH K C ACA	06/04/2009
241	204562	MR. MANJU PETER ACA	17/08/2009	271	206868	MRS. VASANTHI RAMANATHAN FCA	17/09/2009
242	204570	MR. DHINESH GUHAN ACA	18/12/2009	272	206991	MR. DESHPANDE UMESH SHYAMRAO ACA	01/06/2009
243	204769	MS. ARCHANA SRINIVASAN ACA	28/04/2009	273	207032	MR. VEERA VENKATA SATISH GOTTIPATI ACA	30/07/2009
244	204809	MS. RADHIKA R ACA	14/08/2009	274	207119	MR. SHRIDHAR SAMPATH ACA	26/05/2009
245	204880	MR. UNNIKRISHNAN B ACA	23/07/2009	275	207130	MR. BAL GYANENDRA KUMAR ACA	06/07/2009
246	205040	MR. GANESH S FCA	26/05/2009	276	207195	MR. SREE RAM GUPTA KANAMARI APUDI ACA	03/08/2009

S.No.	MRN	Member Name	Restore Date	S.No.	MRN	Member Name	Restore Date
277	207414	MR. KUMAR J S FCA	30/04/2007	307	208897	MS. ARUNA S FCA	13/11/2009
278	207437	MR. VIJAYA SANKAR KUMAR PORURI ACA	03/11/2009	308	208943	MR. SHIBU NINAN ACA	17/09/2009
279	207500	MR. KASTHURIRANGAN G ACA	22/07/2009	309	209056	MR. SREEKANTH P FCA	05/10/2009
280	207507	MS. MIRA P V ACA	24/08/2009	310	209078	MR. PRITHVI RAJ G N ACA	24/06/2009
281	207580	MS. LAVANYA V R ACA	25/01/2010	311	209100	MR. NAGABUSHANA REDDY V ACA	12/10/2009
282	207619	MR. SASHI DHAR K S ACA	01/02/2010	312	209170	MR. DURAIRAJ K ACA	09/03/2010
283	207666	MR. VENKATACHALAM SEKAR ACA	25/11/2009	313	209203	MS. KAUSHALYA R ACA	03/08/2009
284	207802	MR. BHAT RAVEENDRA S ACA	09/02/2010	314	209225	MR. ANURAG RATHI ACA	23/11/2009
285	207815	MR. DORESWAMY P ACA	11/05/2009	315	209288	MR. YOONUS AVANI VEEDU ACA	22/10/2009
286	207827	MR. SIBICHAN K THOMAS ACA	14/08/2009	316	209364	MR. PRAKASHAN M ACA	22/09/2009
287	207882	MR. CHANDRAN R ACA	30/07/2009	317	209508	MR. LAKSHMINARAYANAN N ACA	31/12/2009
288	207903	MR. MANIKANDAN V P ACA	01/07/2009	318	209512	MS. ANUPAMA KRISHNAMURTHY ACA	22/06/2009
289	207962	MR. AJAY NARAYAN ACA	04/05/2009	319	209525	MS. MINAKSHI G ACA	20/07/2009
290	207986	MR. BIJU V GEORGE ACA	14/09/2009	320	209606	MR. SRIKANTH IYENGAR ACA	27/08/2009
291	208000	MR. ANANDAN E A ACA	21/08/2009	321	209719	MR. BIJU JOHN ACA	29/04/2009
292	208029	MR. VYDIANATHAN S ACA	14/07/2009	322	209760	MR. RAJINISH MENON K ACA	22/07/2009
293	208032	MR. ALAGAPPAN M A ACA	19/02/2010	323	209781	MR. RAMAKRISHNA KAMESWARARAO AAKI ACA	30/09/2009
294	208034	MR. RADHA KRISHNAN SEETHARAMAN ACA	30/06/2009	324	209785	MS. SHEFALI N S ACA	11/01/2010
295	208046	MR. MEERAN SHAH ACA	17/08/2009	325	209831	MR. PALANISELVAM R FCA	20/01/2009
296	208105	MR. KARTHIKEYAN R ACA	05/11/2009	326	209874	MR. YOGESH NARAYANAN SUNDARAM ACA	28/07/2009
297	208159	MR. SATHYANARAYANAN K ACA	02/02/2010	327	209933	MR. VASANTH S ACA	22/04/2009
298	208167	MR. RAMASUBRAMANIAN S ACA	03/07/2009	328	209997	MR. VENKATESWARA REDDY D ACA	19/02/2010
299	208333	MS. MEERA KRISHNAN ACA	25/07/2009	329	210081	MR. PANKAJ KUMAR JAIN B ACA	30/07/2009
300	208448	MR. SAMBAMOORTHY N ACA	07/08/2009	330	210168	MS. PRIYA V P ACA	22/07/2009
301	208451	MR. RAJEEV A ACA	18/01/2010	331	210203	MS. BATHULA V K DURGA ACA	13/11/2009
302	208486	MR. AJAI THOMAS ACA	03/03/2010	332	210282	MS. DHANALAKSHMI S FCA	28/01/2010
303	208666	MS. PADMAVATI ADDALA ACA	15/05/2009	333	210336	MR. NAGARAMBABU N ACA	05/01/2010
304	208748	MR. SRIHARI MADALA ACA	10/07/2009	334	210380	MS. ANUSUYA CHAMAN ACA	24/09/2009
305	208766	MR. BINDUSHEKAR ACA	01/03/2010	335	210433	MR. PADMANABHAN N ACA	22/12/2009
306	208844	MR. AJAY NAIR M C ACA	21/08/2009	336	210489	MR. KRISHNAPRASAD B ACA	27/07/2009

S.No.	MRN	Member Name	Restore Date	S.No.	MRN	Member Name	Restore Date
337	210491	MR. ASHOK K K ACA	21/08/2009	367	212082	MR. SUDHEER G ACA	05/10/2009
338	210493	MR. PRADEEP GOPALKRISHNAN ACA	18/09/2009	368	212093	MR. DEEPAK B ACA	13/11/2009
339	210640	MS. RENUKA BALIGA ACA	11/08/2009	369	212095	MS. MINIMOLE SAJAN ACA	27/04/2009
340	210663	MR. KALYAN CHAKRAVARTHY MACHIRAJU ACA	29/01/2010	370	212116	MS. YAMINI K ACA	03/12/2009
341	210704	MS. SEEMA GROVER ACA	09/02/2010	371	212143	MS. RAMA S ACA	08/08/2009
342	210772	MR. SRINATH P S ACA	23/07/2009	372	212189	MS. DIVYA K ACA	06/05/2009
343	210788	MR. BALAKRISHNAN S L ACA	04/11/2009	373	212239	MR. MOHAN RAMACHANDRAN ACA	11/05/2009
344	210803	MR. JOSH Y MATHEW ACA	04/06/2009	374	212247	MR. VAMSHIDHAR G ACA	16/11/2009
345	210960	MR. SUDHAKAR I ACA	23/09/2009	375	212256	MR. VENKATESAN S ACA	23/06/2009
346	210971	MR. KRISHNA KISHORE N ACA	29/09/2009	376	212304	MR. MADDALI SURESH ACA	11/01/2010
347	211045	MR. RAJASEKARAN B ACA	04/02/2010	377	212385	MR. RAJESH KHANNA V ACA	03/08/2009
348	211068	MS. KORLIMARLA ARCHANA ACA	01/01/2010	378	212410	MR. PRAVEEN KUMAR N ACA	07/10/2009
349	211218	MS. PRIYA RAMACHANDRAN ACA	24/03/2010	379	212422	MR. PRAMOD K P ACA	19/08/2009
350	211248	MR. HARIHARASUDHAN R ACA	07/08/2009	380	212583	MS. MAHALAKSHMI V S ACA	30/09/2009
351	211275	MS. NISHY KHAN ACA	30/07/2009	381	212690	MR. NARASIMHA DESIKAN T R ACA	14/08/2009
352	211415	MR. AYYAPPAN S U ACA	18/08/2009	382	212708	MS. TASHINA KRISHNIAH ACA	23/07/2009
353	211420	MR. BALAGANGADHARAN S ACA	11/01/2010	383	212736	MR. KISHORE KUMAR REDDY D ACA	03/09/2009
354	211473	MS. VIJAYALAKSHMI P NAIR ACA	23/02/2010	384	212739	MR. MURALI MOHAN A V B ACA	07/09/2009
355	211504	MR. NARENDRA KUMAR M ACA	11/05/2009	385	212878	MR. ARUNKUMAR R ACA	19/10/2009
356	211575	MR. SRINIVAS K ACA	18/05/2009	386	212953	MS. DHAKSHAYINI K M ACA	12/10/2009
357	211582	MR. RIYAZ SHAIK ACA	22/03/2010	387	212963	MR. SRINIVAS REDDY ACA	25/05/2009
358	211642	MS. DIVYA S ACA	18/01/2010	388	212983	MR. RAVIKAR REDDY ACA	18/01/2010
359	211645	MR. SRINIVASA RAO VEMPATI ACA	16/09/2009	389	213072	MR. VENKATA SURESH BABU BUDE FCA	26/06/2009
360	211653	MR. IWAN OZWELED SEQUEIRA ACA	30/07/2009	390	213144	MS. KARTHIKA G ACA	20/04/2009
361	211696	MR. BALU G KRISHNAN ACA	29/12/2009	391	213159	MS. SWAPNA NADELLA ACA	16/02/2010
362	211703	MR. BADRINATH R ACA	11/11/2009	392	213190	MR. MURALI KRISHNA V ACA	27/04/2009
363	211712	MR. KIRAN KUMAR THOTA ACA	31/07/2009	393	213248	MR. HEGDE KIRAN MAHABALESHWAR ACA	20/01/2010
364	211914	MR. KARTIK BALASUBRAMANIAN ACA	11/12/2009	394	213270	MR. SORIMUTHU M ACA	30/07/2009
365	211922	MR. DEEPAK A KUMAR ACA	29/03/2010	395	213284	MR. PRADEEP SRIRAM ACA	23/11/2009
366	211958	MS. THERESA MARGARET S D P ACA	20/08/2009	396	213366	MR. HARIHARA SUBRAMANIAN G ACA	22/12/2009

S.No.	MRN	Member Name	Restore Date	S.No.	MRN	Member Name	Restore Date
397	213394	MR. PHANI PRASAD DUDDU K ACA	20/11/2009	427	215508	MR. JOHN PASHA SHAIK ACA	28/07/2009
398	213422	MR. PHANI KUMAR GANAPAVARAPU ACA	10/08/2009	428	215523	MR. VENKATA SIVA NAGA PAVAN SRINATH K ACA	05/11/2009
399	213487	MR. RAMA KRISHNA G ACA	26/11/2009	429	215532	MR. HARI BABU PINNAKA ACA	31/12/2009
400	213576	MR. SHAJI M FCA	11/09/2009	430	215554	MS. LITTY K J ACA	06/10/2009
401	213773	MR. SURENDRANADH NALLURI ACA	12/06/2009	431	215601	MR. PULLA REDDY C ACA	05/05/2009
402	213834	MR. VANCHEESWAR B ACA	29/09/2009	432	215726	MS. BERYL DIANI MADHAVAN ACA	09/09/2009
403	213931	MR. SUJIT B ACA	20/04/2009	433	215754	MR. SANTOSH V ACA	01/09/2009
404	214228	MR. CHITTA RANJAN PARIDA ACA	09/10/2009	434	215760	MR. SREEDHAR A ACA	22/12/2009
405	214255	MR. ANIL KUMAR KONERU ACA	22/06/2009	435	215773	MR. DANUNJAYA A ACA	28/08/2009
406	214268	MR. SUNIL B ACA	22/09/2009	436	215778	MS. PADMAVATHI S ACA	03/08/2009
407	214302	MR. SHANDAGE GANESH VISHWANATH ACA	30/07/2009	437	215882	MR. RAVINDRA NAIDU D ACA	10/03/2010
408	214464	MR. KANNAN SUGANTHARAMAN ACA	24/12/2009	438	215884	MR. SRIRAM M BHAT ACA	02/07/2009
409	214562	MR. SRINIVAS V ACA	22/06/2009	439	215889	MR. SATHISH G ACA	06/04/2009
410	214623	MR. RAJESH ACHARYA ACA	01/06/2009	440	215940	MR. GOVIND KAKDA ACA	17/08/2009
411	214632	MR. RAVI CHANDRA GUNDEPUDI ACA	07/09/2009	441	216009	MS. SRI NAGA SAILAJA PERUMALLA ACA	07/09/2009
412	214633	MS. MAHESWARI R ACA	20/01/2010	442	216025	MR. VADLAMANI RAMA PRASAD ACA	17/08/2009
413	214685	MR. ASHWATH G BHAT ACA	05/08/2009	443	216027	MR. SANJEEV UPADHYAY ACA	09/11/2009
414	214688	MR. CHANDRA SEKHAR GOPALUNI ACA	06/08/2009	444	216029	MR. CHUNDURU RAGHAVENDRA KOUNDINYA ACA	13/10/2009
415	214728	MR. SUNDARAY SADANANDA ACA	07/07/2009	445	216037	MR. PRABHAKAR REDDY G ACA	15/05/2009
416	214791	MR. SANTOSH KUMAR ACA	10/08/2009	446	216192	MR. ADARSH A R ACA	05/10/2009
417	214889	MS. HEMA B ACA	22/04/2009	447	216232	MS. SAMIKSHYA SHRESTHA ACA	08/01/2010
418	214937	MS. DURGA SAI LAKSHMI P N V ACA	20/07/2009	448	216296	MR. MINS MATHEW ACA	06/04/2009
419	214941	MS. NITAL H SHAH ACA	15/03/2010	449	216504	MR. VINOD KUMAR S ACA	11/11/2009
420	215015	MR. GOWTHAMAN A M ACA	04/06/2009	450	216521	MR. GOWRI SANKAR C ACA	18/03/2010
421	215096	MR. ALAGAPPAN AR ACA	07/08/2009	451	216654	MS. SHILPA S MALHOTRA ACA	03/06/2009
422	215155	MR. GINO PAUL ACA	14/07/2009	452	216715	MR. SRINIVASA RAO APPANA ACA	09/07/2009
423	215210	MR. PARIDA GOLAKH CHANDRA ACA	07/10/2009	453	216727	MS. KALPANA G ACA	29/03/2010
424	215317	MR. ACHAL PRAKASH BHUWANIA ACA	08/01/2010	454	216730	MR. JAGADISHA S R ACA	18/05/2009
425	215332	MR. ARVIND BENANI ACA	07/05/2009	455	216743	MS. SHARMILA RANI N ACA	24/11/2009
426	215383	MS. BIDARI SUDHA MAHESH ACA	22/03/2010	456	216776	MR. ASHOK NAIR ACA	29/12/2009

S.No.	MRN	Member Name	Restore Date	S.No.	MRN	Member Name	Restore Date
457	216796	MR. JOSE J MEKKALATH ACA	02/12/2009	478	219141	MS. MADHURIMA S ACA	08/07/2009
458	216801	MR. RAGHURAMAN R K ACA	30/06/2009	479	219211	MS. VISHAKHA MOHANDAS PAI ACA	04/05/2009
459	216821	MR. PRASADA RAO MARASU ACA	14/08/2009	480	219710	MR. AANAND MANDELIA ACA	29/06/2009
460	216869	MR. MATHEW VARGHESE PARAKKATT ACA	19/10/2009	481	220159	MR. HARINATH BABU K ACA	07/09/2009
461	216913	MR. PRADEEP THOMAS ACA	15/06/2009	482	220262	MR. SRINIVASA RAO DOKI ACA	18/05/2009
462	216987	MR. SASI KIRAN NANDIKOLLA ACA	30/11/2009	483	220345	MR. DIVAKAR PRADYUMNA K ACA	06/07/2009
463	217048	MR. VINAY VISHWANATH JARTARGHAR ACA	13/04/2009	484	220357	MS. GAYATHRI KAMESH ACA	08/02/2010
464	217237	MR. DHARMA RAO A ACA	09/06/2009	485	220391	MR. SHAKEEL SCHEMNAD ACA	01/09/2009
465	217300	MR. PADMANABHA N ACA	13/01/2010	486	220679	MR. MALLA REDDY BUTUKURI ACA	21/05/2009
466	217515	MS. KAMATH POORNIMA SRINIVAS ACA	22/07/2009	487	220989	MR. SHESHU BABU D ACA	02/06/2009
467	217520	MR. SADASHIVA N T ACA	06/07/2009	488	401292	MR. KOTHARI VIJAY KUMAR ACA	11/03/2010
468	217656	MR. RAJA SEKHAR REDDY VENNA ACA	09/02/2010	489	402287	MR. NARULA DHIRAJ KUMAR ACA	06/11/2009
469	217722	MR. PANDU E ACA	18/05/2009	490	403243	MR. AGRAWAL DEVENDRA ACA	08/01/2010
470	217922	MR. VENKATESHAN G S ACA	24/07/2009	491	404387	MR. MALPANI VIJAY ACA	22/09/2009
471	217985	MR. ALLWIN JUDE TAGORE I ACA	17/03/2010	492	407034	CA. VINAYAK RAMCHANDRA LELE ACA	01/01/2010
472	218018	MR. SANKARA SRINIVASAN A ACA	25/11/2009	493	408602	CA. ANIK KUMAR VIJAY ACA	30/09/2009
473	218350	MS. SRAVANTHI V D N ACA	04/12/2009	494	501562	MR. HARISH CHANDER ACA	29/09/2009
474	218454	MR. ASHOK KUMAR ACHARYA ACA	19/10/2009	495	504125	MR. VADDI JAGANNATH ACA	11/01/2010
475	218611	MR. DIGY MATHEW ACA	19/06/2009	496	505620	MR. GOYAL VIKAS ACA	01/12/2009
476	218843	MR. NAGESH GNANACHAND ACA	23/09/2009	497	510128	MR. MOHD ABDUL MOID ACA	06/07/2009
477	219112	MR. PANDITHURAI J ACA	09/04/2009	498	510335	MR. MOHAN RAO RAJANA ACA	22/06/2009

T. KARTHIKEYAN
Secy.

3SCA(5)/2/2009-2010 : With reference to this Institute's Notification No. 3SCA(4)/2/2009-2010 dated 3rd January 2011 it is hereby notified in pursuance of Regulation 20 of the Chartered Accountants Regulations 1988, that in exercise of the powers conferred by Regulation 19 of the said Regulations, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has restored retrospectively to the Register of Members with effect from 1st October 2009 the names of the following members

S NO	MRN	MEMBER NAME
1	3014	MR. KAMESWARARAO BULUSU FCA
2	6694	MR. SUBBARAO TURLAPATY VENKATA FCA
3	7140	MR. RONALD IVOR SALVADORE TELLIS FCA
4	7208	MR. KRISHNA G A FCA
5	9956	MR. VENKATAKRISHNAN V K FCA
6	11705	MR. BHANDARI RAMENDRA FCA
7	12643	MR. GOPINATH SONNANAHALLI FCA
8	13281	MR. VENKATAPPAIH J FCA
9	13438	MR. SUBRAMANYAN K FCA
10	13677	MR. KRISHNAMURTHY K V FCA
11	14112	MR. LAKSHMI KANTHAN T V ACA
12	14558	MR. MURUGAN C A ACA
13	15346	MR. RAMADASS T FCA
14	15714	MR. RANGAMANI KOTI THATHACHARI FCA
15	16656	MR. BIPINCHANDRA JAMNADAS AMBANI ACA
16	18016	MR. ANAND RAO C FCA
17	18020	MR. SRIMAN NARAYANA CHOWDARY K ACA
18	18182	MR. SIVARAMAKRISHNAN N ACA
19	18383	MR. SRINIVASAN V ACA
20	18825	MR. JAYAPRAKASH M ACA
21	18959	MR. MOHAN REDDY A FCA
22	18985	MR. KUMAR R FCA
23	19054	MR. JAYAKUMAR R FCA
24	19077	MR. RAGHAVENDRA MAIYA U FCA
25	19253	MR. PALANISWAMY M FCA
26	19255	MR. THANIGARAJU S FCA
27	19582	MR. AJIT KUMBHAT FCA
28	19690	MR. RAMAMOORTHY C FCA
29	19746	MR. LOGANATHAN R FCA
30	19803	MR. RAJASEKHARAN A S ACA

S NO	MRN	MEMBER NAME
31	19947	MR. RAMANATHAN R FCA
32	20236	MR. ALAGIRISWAMY M FCA
33	20257	MR. GOPALAKRISHNAMACHARYULU G FCA
34	20384	MR. NAGESH K S FCA
35	20433	MR. JAYADEVA B R FCA
36	20447	MR. BALAKRISHNAN K FCA
37	20556	MR. VIJAYARAGHAVAN V K FCA
38	20567	MR. RAMANATHAN R V ACA
39	20704	MR. SARANAM VENKATA RAO ACA
40	20715	MR. SELVARAJ S FCA
41	20817	MR. RAMAKRISHNA V ACA
42	20833	MR. SINGHVI P C ACA
43	20843	MR. BADRINATH Y S FCA
44	21030	MR. KUMAR G ACA
45	21056	MR. SRIRAM S FCA
46	21149	MR. RAVEENDRANADH REDDY P FCA
47	21257	MR. RAJA B FCA
48	21349	MR. PARAMESWARAN C A FCA
49	21362	MR. SRINIVASAN R ACA
50	21450	MR. DHANDAPANI T G ACA
51	21496	MR. ITTICHERIA P JOSHUA ACA
52	21644	MR. SESHAGIRI RAO M ACA
53	21878	MR. SASIKUMAR C P FCA
54	21970	MR. ALAGA RAJA T V FCA
55	22054	MR. MALLIKARJUNA G ACA
56	22085	MR. LALIT NAYAK FCA
57	22153	MR. SATISH RAMNANE ACA
58	22178	MR. SUDARSHAN M K FCA
59	22203	MR. PALANI ALAGAPPAN FCA
60	22319	MR. VENKAT V S ACA

S NO	MRN	MEMBER NAME
61	22512	MR. PADMANABHAN N FCA
62	22526	MR. RAVINDRANATH V FCA
63	22689	MS. LATHA R FCA
64	22695	MR. GULATI SANJEEV FCA
65	22815	MR. PATRICK RODRIGO J A ACA
66	22842	MR. VENKATARAMANA MURTHY V FCA
67	23013	MR. RAVINDRAN N FCA
68	23016	MR. BHARATH P B ACA
69	23220	MR. VENKATESAN R ACA
70	23227	MR. ANTONY JOSEPH P ACA
71	23284	MR. VARADHAN V ACA
72	23359	MR. DATTATRY FCA
73	23378	MR. PARTHASARATHY S ACA
74	23380	MR. SRIDHAR N FCA
75	23539	MR. SIVA RAM C FCA
76	23553	MR. VENKATESWARA RAO M FCA
77	23585	MR. MOHIDDIN KHAJA BASHA FCA
78	23620	MR. KESAVAN R FCA
79	23658	MS. RAJARAJESWARI DEVI A FCA
80	23765	MR. LAKSHMI RATAN H FCA
81	23908	MR. VENUGOPAL B FCA
82	23942	MR. VENKATESWAR RAO T ACA
83	23975	MR. RAJASEKAR V ACA
84	24117	MR. MURALI R ACA
85	24157	MR. ATCHUTA RAMAYYA K V N R K ACA
86	24169	MR. CHANDRA SEKAR V ACA
87	24277	MR. RAMA MOHAN K FCA
88	24299	MR. KASI RAMAN S ACA
89	24300	MR. RAGHAVAN M V FCA
90	24460	MR. JAYARAJ CHANNAPPA HUBLI ACA
91	24627	MR. RAJAN K P FCA
92	24811	MR. LAKSHMINARAYANAN V R ACA
93	24831	MR. VIJAYAKUMAR N ACA
94	25070	MR. MIR HASAN ALI FCA
95	25077	MR. KRISHNAN S FCA
96	25121	MR. SURU RAGHURAMA FCA
97	25149	MR. KRISHNAMOORTHY T ACA
98	25168	MR. BENNET G NAZARETH ACA
99	25512	MR. SELVAM J K FCA
100	25540	MR. JAYARAMAN M ACA

S NO	MRN	MEMBER NAME
101	25902	MR. GOPINATHA REDDY Y FCA
102	25997	MR. RAJASUNDARAM S ACA
103	26007	MR. GIRIJAN C FCA
104	26017	MR. PURUSHOTHAM RATHI H FCA
105	26028	MR. VISWANATHAN S ACA
106	26048	MR. YAGAPPA PHILOMIN RAJ T FCA
107	26070	MR. MATHIAZHAGAN K FCA
108	26072	MR. JYOTHI PRAKASH A FCA
109	26249	MR. SATISH KUMAR V FCA
110	26259	MR. GOPAL J ACA
111	26283	MR. SRIDHARA RAO P FCA
112	26316	MR. RAMALINGAM.P M FCA
113	26349	MR. MADAN MOHAN KUPPA FCA
114	26367	MR. PRASAD S FCA
115	26474	MR. SREEDHAR S FCA
116	26499	MR. GURUSEKARAN V ACA
117	26774	MR. VENKATA RAGHAVAN V ACA
118	26790	MR. BALAJI S ACA
119	27095	MR. THOMSON SAM FCA
120	27158	MR. AZEEZULLAH SIDDIQUI M FCA
121	27272	MR. SRIRAM K V ACA
122	27340	MR. RAVISHANKAR T FCA
123	27537	MR. MAHESH REDDY R FCA
124	27695	MR. KRISHNA SWAMY K ACA
125	27796	MR. KRISHNA MOHAN L ACA
126	27929	MR. VISWANATHAN S ACA
127	27939	MR. RAMESH BABU S V FCA
128	28166	MR. RAMAKRISHNAN S ACA
129	28176	MR. VENKATESWARA RAO N ACA
130	28210	MR. GOPAKUMAR K ACA
131	28215	MR. SREEKANTH A ACA
132	28265	MR. VENKATESHWARA RAO V ACA
133	28300	MR. RAMESH S ACA
134	28303	MS. BHUVANA SWAMINATHAN FCA
135	28347	MR. RAMA SHARMA YAMARTHI FCA
136	28608	MR. ANTO M P FCA
137	28976	MR. DHAVALA VENKATA SURYA PRAKASH FCA
138	28990	MR. ANANDAKUMAR R FCA
139	29128	MR. BALAGOPAL C M FCA
140	29185	MR. RAMACHANDRAN S ACA

S NO	MRN	MEMBER NAME
141	29228	MR. ALAVALA KOTI REDDY FCA
142	29335	MS. MAYA S ACA
143	29515	MR. CHAKRADHAR V FCA
144	29527	MR. VENNIMALAI R ACA
145	29659	MR. SAMUEL RAJ G ACA
146	29947	MR. MANI S FCA
147	29952	MS. KOHILA R ACA
148	29967	MR. KRISHNAN V ACA
149	29977	MR. RAVICHANDRAN K FCA
150	36508	MR. MANI G C S FCA
151	37349	MR. SHIVAKUMAR M K ACA
152	37985	MR. NARASIAH MALEMPATI FCA
153	43431	MR. KRISHNA PRASAD GANNE ACA
154	43814	MR. ADIL BEHRAM PATEL ACA
155	44790	MR. GOPALAKRISHNAN A V ACA
156	44840	MR. VISHWANATHAN T V ACA
157	47905	MS. MAYA BHASKAR ACA
158	48826	MR. PUROHIT LAXMINARAYAN KRISHNACHARYA ACA
159	52272	MR. SUBRAMANIAM S B ACA
160	52850	MR. RAJA DILIP KUMAR N ACA
161	53966	MR. HARI MENON ACA
162	54585	MR. SREEDHAR N ACA
163	54895	MR. DURGAVAJJULA SIVAJEE ACA
164	55061	MR. RAJIV KUMAR CHATURVEDI ACA
165	55289	MR. RAMAKRISHNAN S ACA
166	56022	MR. NEOGI SANDIP ACA
167	56225	MR. BISWAS ARIJIT ACA
168	57075	MR. PARTH SARTHI NARAYAN ACA
169	57648	MR. PATRO T PRASANNA KUMAR ACA
170	58119	MR. UDAY PRAKASH ACA
171	59475	MS. PODDAR DOLA ACA
172	59493	MR. VIKAS AGRAWAL FCA
173	60887	MR. DEY SOUVIK ACA
174	61384	MR. BHARDWAJ PRAVEEN ACA
175	62191	MR. DAS ANAMITRA ACA
176	62505	MS. PRITI SARDA FCA
177	62622	MR. SABOO SOURAV ACA
178	62788	MS. DEORA KAVITA ACA
179	63382	MR. JAIN RITESH ACA
180	63780	MS. YASHODA A N V ACA

S NO	MRN	MEMBER NAME
181	64672	MR. SAURABH JAISWAL ACA
182	65221	CA. VINEET CHATURVEDI ACA
183	65423	CA. BINIT KUMAR GUPTA ACA
184	65644	CA. SUMIT KUMAR AGARWAL ACA
185	66401	CA. SUNDEEP MITTAL ACA
186	67347	MS. MANJARI SENGUPTA ACA
187	67379	MR. DIPANKAR ROY ACA
188	71502	MR. MEHTA RAMESH ACA
189	78455	MS. YADAV SHALINI ACA
190	79648	MR. BHOJWANI PRAMOD KUMAR FCA
191	80141	MR. SUBRAMANIAN U ACA
192	83602	MR. RAMANI J V FCA
193	89233	MR. NARAYANA RAO CHANTHATI FCA
194	89408	MR. SAMEER SIARMA FCA
195	89924	MR. RAJEEV DUA ACA
196	92198	MR. SABHARWAL NAMIT ACA
197	93256	MR. JOSEPH JOHN ACA
198	95351	MR. CHIRIMAR LALIT KISHORE ACA
199	98856	MR. PRATYUSH FCA
200	98953	MS. RAJINI V RAMAN ACA
201	100605	MR. KUMAR P ACA
202	103074	MR. ARUN KUMAR G R FCA
203	106551	MS. MONICA VIJAYAKUMAR ACA
204	106598	MR. GIRI VENKATARAMANI ACA
205	106933	MR. ARUN PRASANNA ACA
206	110166	MS. JAYASHREE S LOKESHWAR ACA
207	110189	MR. RADHAKRISHNAN GOVINDAN ACA
208	112868	MR. HARIISH UPPILI ACA
209	115239	MS. ASHWINI DILIP KAUNDINYA ACA
210	115603	MS. SHITAL SATISH CHHAJED ACA
211	119279	MRS. DEEPA DEEPAK LOHANA ACA
212	120068	MR. NAVIN KUMAR GADIA ACA
213	120152	MR. RAVI BHAT ACA
214	120667	MR. DEVESH KUMAR SHARMA ACA
215	121840	MR. NAVEED ZEYAU Khan ACA
216	123759	MR. ANAND VINAYAK JOSHI ACA
217	125341	MRS. SHAHEDA TABASSUM MAHEMUD RAZA SOLANKI ACA
218	126491	MR. VISHAL NIRANJAN BHARUKA ACA
219	128721	MRS. HARJEET ALANKAR PARKAR ACA
220	129114	MR. VIVEK ARUN MARNE ACA

S NO	MRN	MEMBER NAME
221	200166	MR. BALAJI R S FCA
222	200234	MR. ANANDA NAIDU V FCA
223	200298	MR. RAJAMANI S ACA
224	200377	MR. JAYAKAR SAMUEL ACA
225	200392	MR. SUBRAMANIAN K ACA
226	200401	MR. BALAJI G V FCA
227	200402	MR. PRAKASH RAM LAKSHMINARAYANA ACA
228	200404	MR. BHASKAR L ACA
229	200544	MR. NARAYANAN G S ACA
230	200622	MS. RAJESWARI S ACA
231	200645	MR. SRIDHAR NAGABANDI FCA
232	200709	MR. NAGESH B FCA
233	200711	MR. VENKATESWARLU K ACA
234	200723	MR. SAMUEL REJI ABRAHAM ACA
235	200748	MR. SIVA NAGESWARA RAO DORADLA FCA
236	200804	MR. VENKATARAMANA K ACA
237	200823	MR. MADHU MENON K ACA
238	200837	MR. RAMESH N CHARI ACA
239	200874	MR. SHAMSUDHIN A FCA
240	200902	MR. PANDURANGARAO B FCA
241	200912	MR. SOURIRAJAN A ACA
242	200956	MR. MOORTHY P S ACA
243	200966	MR. GURUNATHAN S ACA
244	201033	MS. ALAMELU AR ACA
245	201118	MS. SUDHARANI S FCA
246	201171	MR. BALACHANDRA CHADAGA P R ACA
247	201175	MR. SUNDARAM K S ACA
248	201178	MR. SUNDARRESAN N FCA
249	201190	MR. ARAVINDA SHENOY I FCA
250	201217	MR. BAHULEYAN S ACA
251	201245	MR. SUNDARRAJAN G FCA
252	201273	MR. TOMY MATHEW ACA
253	201557	MR. OMPRAKASH K V FCA
254	201572	MR. RAMKUMAR S ACA
255	201625	MS. USHA VIJAYAN ACA
256	201636	MR. SANTHIL NATHAN BALA SUBRAMANIAM ACA
257	201783	MR. NARASIMHAN S FCA
258	201807	MR. ABDUL GAFOOR P ACA
259	201868	MR. VIJAYA KUMAR R ACA
260	201887	MR. CHIDAMBARA R VISVESWARAN ACA

S NO	MRN	MEMBER NAME
261	202058	MR. GANAPATHI BHAT FCA
262	202201	MS. DHANLAKSHMI ACA
263	202236	MR. PADMANABAN K ACA
264	202365	MR. KASA KOTI VENKATA SRIKANTH FCA
265	202454	MR. PRASANNA M V ACA
266	202494	MR. SELVA MANI V FCA
267	202699	MR. RAVICHANDRAN V ACA
268	202787	MR. KISHORE KUMAR K FCA
269	202838	MR. RAVI S ACA
270	202857	MR. RAGHOTHAMAN S ACA
271	202892	MR. MOHAN RAJAGOPALAN ACA
272	203061	MR. VENKANNA NALLAMILLI FCA
273	203066	MR. SATRUGHNA SARMA RACHAPUDI ACA
274	203067	MR. RAJAN N FCA
275	203090	MS. AMURTHAVALLI R FCA
276	203132	MR. CHANDRA REDDY B FCA
277	203258	MR. VENKATA REDDY CH ACA
278	203329	MR. SUBRAMANIAN K ACA
279	203367	MR. VISALAKSHAN P FCA
280	203450	MR. RAVICHANDRAN T FCA
281	203458	MR. AJIT PAUL FCA
282	203479	MR. VENKATA RATNAM DHAVEJI C FCA
283	203564	MR. PRASHANT M P ACA
284	203596	MR. VENKATA RATHNA KUMAR P ACA
285	203617	MR. MAHESH N ACA
286	203680	MR. RAMASUBRAMANIAN J ACA
287	203681	MR. DEVANANDA ACA
288	203711	MR. SRIDHAR R FCA
289	203733	MR. SRINIVASA RAO KORADA FCA
290	203751	MR. WAVELL L SIMONS ACA
291	203909	MR. ARJUN ANANTH ACA
292	203916	MR. MAHESH G SHENDGE FCA
293	204016	MR. JAGANNADHAN K S ACA
294	204045	MR. LAKSHMINARAYANAN R FCA
295	204047	MR. THOMAS T M ACA
296	204069	MR. MARKANDAN T V ACA
297	204079	MR. VENU P ACA
298	204158	MR. ABDUL HAMEED A FCA
299	204164	MR. TOMY JOSEPH ACA
300	204188	MR. PETER CLAVER SALDANHA FCA

S NO	MRN	MEMBER NAME		S NO	MRN	MEMBER NAME	
301	204213	MR. MANIKYA PRAKASH B	FCA	341	206293	MS. MARINA ANTHONY PINTO	ACA
302	204257	MS. UMA MAHESWARI A	ACA	342	206317	MS. ZEYONA ANN JOSE	FCA
303	204440	MR. SRIRAM T	ACA	343	206356	MS. MADHURI S	ACA
304	204502	MR. VINOD MATHEW	ACA	344	206388	MR. ERIC SALVADO MORRIS	FCA
305	204527	MS. SANDHYA K	ACA	345	206410	MR. VENKATARAMANA S	ACA
306	204528	MR. RAVI KUMAR DHARBA	FCA	346	206435	MR. SOMAYAJULU D V S N	FCA
307	204548	MR. ANIL JOSEPH	FCA	347	206480	MR. VEERA NAGA BHASKARA RAO CHOLLAPUNEDI	FCA
308	204554	MR. SIVA REDDY Y V	ACA	348	206522	MS. SUMA K	ACA
309	204597	MR. BELAGUR H H	ACA	349	206552	MR. BADYA S S N	FCA
310	204630	MR. PRAVIN RANGANATH N	FCA	350	206613	MR. GANESH P	FCA
311	204638	MR. GOVINDARAJAN V G	FCA	351	206627	MR. KRISHNA P S S	FCA
312	204694	MS. LAKSHMI KIRAN SWATHY D	FCA	352	206644	MS. HEMA S	ACA
313	204718	MS. ASHA STANLEY	FCA	353	206707	MR. SURYAPRAKASH S	ACA
314	204905	MR. SUNDARAMURTHY K	ACA	354	206726	MR. SRIRAM S	ACA
315	204919	MS. JAYANTHI N	ACA	355	206958	MR. SAPTHARISHI R	FCA
316	204939	MR. MAHALINGAM M	ACA	356	207042	MS. ARUNA P	FCA
317	204996	MR. HARI KUMAR K G	ACA	357	207084	MR. HEMA PRAKASH REDDY K	ACA
318	205160	MR. GURUNATHAN R	FCA	358	207128	MR. SRIRAMA SRINIVASAN J	ACA
319	205176	MR. NAGESWARA RAO KATTAMURI	FCA	359	207385	MS. SHALINI K S	FCA
320	205178	MS. HANDATH BICKATHY MEERA SHENOY	ACA	360	207407	MR. SHANMUGASUNDARAM N	ACA
321	205331	MR. SHAH NAWAZ T	FCA	361	207414	MR. KUMAR J S	FCA
322	205422	MR. PRASHANTH M P	ACA	362	207536	MR. RAMA PRASAD V	ACA
323	205597	MR. RAJESHKHANNA C	ACA	363	207562	MR. ROBIN RAMAKRISHNA	ACA
324	205672	MR. RAMA MOHAN N A	ACA	364	207575	MR. RAJESH T B	ACA
325	205673	MR. VENKATA RAMAN K	FCA	365	207583	MR. RAM MANOJ KUMAR S S	FCA
326	205759	MR. RAMA KRISHNA B V	ACA	366	207633	MR. SATISH K R	ACA
327	205905	MR. HARANATH REDDY A	FCA	367	207652	MR. MARUTHI RAGHURAM JONNALAGADDA	ACA
328	205909	MR. VENKATASUBRAMANIAN R	ACA	368	207771	MS. PADMAJA CHOWDARY P	ACA
329	205918	MR. BALAJI R	ACA	369	207775	MR. VARDHA CHARY S	FCA
330	205923	MS. HEMALATHA R	ACA	370	207788	MR. DINESH KUMAR A K	FCA
331	205924	MR. ANIS T HAIDERI	ACA	371	207798	MR. TOMY JAMES	ACA
332	205978	MR. SURESH R	ACA	372	207876	MR. TIRUMALA SRINIVASA RAO BALANAGU	FCA
333	206041	MR. ARVIND RAO V N	ACA	373	207884	MR. NARAYANAN S	FCA
334	206090	MR. PRASADA RAO K V D	FCA	374	207888	MR. SIVARAMAKRISHNAN T P	ACA
335	206106	MR. HARINADHA REDDY V	FCA	375	207927	MR. SHASHIDHAR N	ACA
336	206181	MR. RAJIV PHILIP P N	ACA	376	208049	MR. SIVAPRIYAN N	ACA
337	206192	MS. KALA SUBRAMANIAN	FCA	377	208056	MR. SATYANARAYANA MEDA	ACA
338	206228	MR. RAJASEKAR R	ACA	378	208113	MR. RANGAVITTAL K	ACA
339	206249	MR. VENKATESH P A	FCA	379	208165	MR. NANDEESHA P M	ACA
340	206289	MR. SRINIVASAN A	ACA	380	208171	MR. RAAMVAIRAVAN R	FCA

S NO	MRN	MEMBER NAME
381	208194	MS. RAJESHWARI BALAKUMAR ACA
382	208373	MR. BELAVENDIRAN V ACA
383	208437	MR. VINU THOMAS FCA
384	208509	MR. RAMESH S ACA
385	208686	MS. RAMYA J ACA
386	208794	MR. SUDHEENDRA J ACA
387	208810	MR. KUMAR G FCA
388	208910	MR. ALAPATI S P PRASAD FCA
389	208963	MR. VENKATA NARAYANA YAKKANTI ACA
390	208986	MR. PADMANABHA C K ACA
391	209034	MR. PRASHANT M SHAH ACA
392	209062	MR. SHIBU SAMUEL M ACA
393	209068	MR. KALAPPA K K ACA
394	209204	MR. GANAPATHY SUBRAMANIAN V ACA
395	209270	MR. KUTTY CHANDRASEKHAR K FCA
396	209276	MR. VENKADESWARA PRASAD BULUSU FCA
397	209321	MR. MATTA SREENIVAS PEDDA FCA
398	209330	MR. NATARAJ P ACA
399	209342	MR. SUNIL AGNEL JOHN SEQUEIRA ACA
400	209399	MR. SRINIVASA RAO CHAVALAM ACA
401	209401	MR. MICHAEL STEPHEN ACA
402	209403	MS. GEETHA CHELLAPPA ACA
403	209425	MS. VINITHA R ACA
404	209594	MR. PERUMAHANTY BHUJANGA PRASAD FCA
405	209652	MS. MUTHU MAGESHWARI R ACA
406	209655	MS. MADHAVI V ACA
407	209675	MS. SILU JOSE FCA
408	209706	MR. SHYAM SUNDAR K ACA
409	209850	MR. GIRI M S ACA
410	209935	MR. NARAYANAN R ACA
411	209947	MR. RATNAKARA SASTRY D FCA
412	210079	MR. UPPILI S ACA
413	210134	MR. SUBRAMANIAN R ACA
414	210145	MR. SUBRAMANIAM V ACA
415	210169	MS. PAVITHRA G ACA
416	210260	MR. RAKSHITH M V ACA
417	210266	MR. RAJESH P B FCA
418	210274	MR. BABU P ACA
419	210306	MR. SRINIVASA RAO POTNURU ACA
420	210365	MR. RAVI CHANDRA JAIN ACA

S NO	MRN	MEMBER NAME
421	210462	MR. EASWARDAS V ACA
422	210501	MR. VENKATESWARA RAO D FCA
423	210527	MS. LAKSHMI PRIYA K R S ACA
424	210639	MR. SAMPATHKUMAR P ACA
425	210708	MR. MAHESH J PILLAI ACA
426	210742	MR. SRIRAM S ACA
427	210753	MR. SAIRAM V ACA
428	210782	MR. ACHARYA NIRANJAN SRISHA ACA
429	210810	MS. PRIYA NARASIMHAN ACA
430	210908	MR. UMESH BABU J FCA
431	211031	MR. SUNDARESAN K FCA
432	211037	MR. SIVAKUMAR C ACA
433	211051	MR. SRINIVAS V ACA
434	211065	MR. RAGHAVENDER KUMAR S ACA
435	211104	MS. SRIVIDHYA V S ACA
436	211141	MR. GAUTAM AGARWAL ACA
437	211169	MR. TURLAPATI KIRAN KUMAR ACA
438	211179	MR. MOHANDASS S ACA
439	211189	MR. RENJITH BOBU P ACA
440	211201	MR. VIJAYAKRISHNA R ACA
441	211234	MR. VENKATESWARAN M ACA
442	211273	MR. JAGANNATH PRASAD R ACA
443	211354	MR. SWAMINATHAN K ACA
444	211373	MS. SANDHYA C ACA
445	211380	MR. RAGHAVENDRA GUDUR ACA
446	211401	MR. JYOTHI SWAROOP M ACA
447	211431	MR. SUDHIR R ACA
448	211437	MR. GOPAL RANJAN PADHEE ACA
449	211443	MR. RAMPRASAD GATTU FCA
450	211459	MR. MICHAEL JOSE ACA
451	211512	MR. LAKSHMI NARASIMHAN L ACA
452	211548	MR. RAVI THATAVARTHY ACA
453	211578	MS. NISHITA NADELLA ACA
454	211630	MR. SANJAY KUMAR JHAWAR ACA
455	211664	MS. KOMATHI K ACA
456	211682	MR. KAMESH R ACA
457	211683	MR. GANGADHARAN V ACA
458	211768	MR. BASHYAM A S ACA
459	211825	MR. VISHAL M SHAH ACA
460	211852	MS. SARITHA T ACA

S NO	MRN	MEMBER NAME
461	211874	MR. SHYAM SUNDAR S ACA
462	211911	MR. BIXAM REDDY CHINTHA KUNTALA FCA
463	211992	MR. SURESH S ACA
464	212048	MR. SAHAJANANDA REDDY T ACA
465	212201	MS. ULAGAMMAI M ACA
466	212223	MS. MEENAKSHI R ACA
467	212293	MR. JAMES T V ACA
468	212318	MR. DEVAPRASAD A ACA
469	212324	MR. ARVIND S ACA
470	212388	MR. GANGAIAH G ACA
471	212467	MR. POYAMOLI V ACA
472	212479	MR. HARISH C FCA
473	212506	MR. SIDDARTH MOHAN V ANUMUKONDA ACA
474	212524	MR. RAJVIR SINGH ACA
475	212528	MR. VIJAYANAND RAO B ACA
476	212545	MS. GNANAPRIYA B ACA
477	212606	MR. BENCY JOSEPH ACA
478	212611	MR. HARISH POOJARY ACA
479	212616	MR. RAJ KIRAN AYYAGARI ACA
480	212624	MR. ARUNAGIRINATHAN S ACA
481	212648	MR. GEORGE K MATHEW ACA
482	212809	MS. PADMAKSHI K V ACA
483	212854	MR. VASUDEV NATHAN L ACA
484	212930	MR. RAJESH R K ACA
485	212942	MS. ANUSHKA SANJAY KATARA ACA
486	212977	MR. MUPPALA SRIDHAR ACA
487	212986	MS. MADHU KANKARIA S ACA
488	212988	MS. SANGEETHA A ACA
489	212991	MR. AKHIL A KAPADIYA ACA
490	213009	MR. SANTOSH NAIR R ACA
491	213054	MR. RANJAK KUMAR S ACA
492	213175	MS. SRIVIDYA S ACA
493	213182	MR. VENKATESH K ACA
494	213218	MS. GOURI VIJAY DEO ACA
495	213219	MS. LALITHA S ACA
496	213250	MR. GOPINATH MISHRA ACA
497	213269	MR. VIJAY KAUSHIK P R ACA
498	213301	MR. YELLA REDDY A FCA
499	213311	MR. KALLEPALLI RAVINDRA VARMA* ACA
500	213407	MS. SUDHA M N ACA

S.NO	MRN	MEMBER NAME
501	213415	MS. ANUPAMA LAKSHMI YENAMANDRA ACA
502	213433	MR. BHAT SANTOSH SHANKAR ACA
503	213450	MR. SURESH K FCA
504	213585	MR. CHANDRAKANTH PEDDADA ACA
505	213612	MR. JAYAKRISHNA P FCA
506	213655	MR. MATHEW THOMAS ACA
507	213665	MR. NARASIMHA REDDY B ACA
508	213672	MR. SEBY JOSE ACA
509	213721	MR. BHASKAR KUMAR B FCA
510	213729	MR. JIBY MATHEW ZACHARIAH ACA
511	213739	MR. KISHORE KUMAR CHALUVADI ACA
512	213750	MS. UMADEVI T ACA
513	213805	MR. PRADEEP KUMAR GUNDERAO FCA
514	213845	MR. SIVAKUMAR R ACA
515	213944	MR. TRILOK LALIT RAHEJA ACA
516	213971	MR. DUSHYANT V MEHTA ACA
517	213996	MR. VIKAS KOTHARI ACA
518	214003	MR. ANILKUMAR NAKIRIKANTI ACA
519	214019	MR. PRASANNA K ACA
520	214072	MR. NAGESWARA REDDY BOMMAVARAM FCA
521	214148	MR. CHAITANYA LINGAMALLU V R K ACA
522	214150	MR. SUDHAKAR K ACA
523	214158	MR. RAMA KRISHNA V V ACA
524	214210	MS. RADHIKA B ACA
525	214387	MS. SHRADDHA AGRAWAL ACA
526	214391	MR. KARTHIK BHAT FCA
527	214400	MR. ROBIN K PAUL ACA
528	214403	MS. AARATHI CHELLAMMAL N ACA
529	214441	MR. SUNIL RAO A ACA
530	214475	MR. RAMA KRISHNA BATHINENI ACA
531	214508	MR. KULKARNI SANGRAM SUDHIR ACA
532	214511	MR. SYED SIRAJ ACA
533	214584	MS. MITU SURANA ACA
534	214588	MR. BANDARU RAMBABU ACA
535	214624	MR. SAURABH AGARWAL ACA
536	214646	MR. JOLLY K S ACA
537	214649	MR. RAMA CHANDRA RAO P ACA
538	214710	MR. JAGAN MOHAN K J ACA
539	214795	MR. SURESH K ACA
540	214998	MR. RAIKAR VINAY SURENDRA ACA

S NO	MRN	MEMBER NAME
541	215055	MRS. SANDHIYA V PATHANGE ACA
542	215071	MR. MURALI KRISHNAIAH C V M ACA
543	215077	MR. SELVAVINAYAGAM P ACA
544	215086	MR. UGANDHAR NETTYAM ACA
545	215100	MS. LISHA JOHN ACA
546	215219	MS. REKHA K ACA
547	215302	MS. NITHYA NARAYAN ACA
548	215342	MR. MOHANTY SANTOSH KUMAR ACA
549	215351	MR. SREEVATSA S ACA
550	215399	MR. RAVI KUMAR BELDI ACA
551	215456	MS. RANI S ACA
552	215522	MS. CHAITHRA K URAL ACA
553	215614	MR. SANTHOSH A C FCA
554	215682	MS. PRAPTI G ACA
555	215745	MS. DHANYA AJAYKUMAR ACA
556	215768	MR. KRISHNAMURTHY SHIBARAYA ACA
557	215779	MR. SESHADRI V ACA
558	215918	MR. SRIRAM P S ACA
559	215942	MS. NITHYA GOVIND ACA
560	216020	MR. BALAMURUGAN B ACA
561	216044	MR. SURYANARAYANA MADALA ACA
562	216050	MR. KAPUGANTY RAMESH ACA
563	216073	MS. KRISHNA PRASHANTHI K ACA
564	216110	MR. ANAND RAO ACA
565	216162	MR. SURAJ LAMICHANE ACA
566	216242	MR. ANU ABRAHAM ACA
567	216269	MS. MAHALAKSHMI A ACA
568	216304	MR. DHARMANSU ROUT ACA
569	216366	MR. SHIHABUDEEN THANGAL C A ACA
570	216387	MS. KALPANA T ACA
571	216443	MS. NANDINI M ACA
572	216474	MR. SHANTILAL C ACA
573	216485	MR. THANGARAJ P ACA
574	216494	MR. SUBHANKAR DAS ACA
575	216515	MS. PRAVEENA K R ACA
576	216659	MS. MADHAVEE LATHA RACHAPALLY ACA
577	216668	MR. PRABHAKARAN V ACA
578	216711	MR. JOBIN SEBASTIAN M ACA
579	216779	MR. ADARSHA K G ACA
580	216790	MS. SHEREEN MARY CHERIAN ACA

S NO	MRN	MEMBER NAME
581	216846	MR. RAGHAVENDRA RAO POGULA ACA
582	216858	MR. PRAKASH ADIGA B ACA
583	217011	MR. RAJENDRA PRASAD TALLURI ACA
584	217025	MS. RANJANI R ACA
585	217028	MS. SARANYA V ACA
586	217059	MS. CHITRA C ACA
587	217114	MR. PREMKUMAR S ACA
588	217195	MS. UMAVALLI M ACA
589	217220	MR. ANEESH GEORGE ACA
590	217236	MR. AJO KANNOTH JOSEPH ACA
591	217241	MR. SRIDHAR BABU G ACA
592	217261	MR. SENTHIL KUMAR S ACA
593	217285	MR. SAMBATH KUMAR E M ACA
594	217313	MS. DEEPA JIVAN ACA
595	217368	MR. HASHIR E V ACA
596	217404	MR. GANESAN S ACA
597	217475	MS. SUKANYA NATH ACA
598	217493	MR. MOHANAKRISHNAN T ACA
599	217494	MR. VENKATESH PRABHU ACA
600	217563	MR. ROSHAN POKHREL ACA
601	217585	MR. SUBBARAYUDU C ACA
602	217639	MR. AJIT KUMAR DHIR ACA
603	217825	MS. JACQUILIN PREETHI Y ACA
604	217884	MR. SUTHAKAR D ACA
605	218030	MS. PRADEEPA K ACA
606	218061	MS. ABIRAMASUNDARI P ACA
607	218173	MS. KRITHIKA K ACA
608	218204	MR. KUNDURU NARSIMHA REDDY ACA
609	218205	MR. PREM KUMAR L ACA
610	218244	MR. ANAND PANICKER N ACA
611	218466	MR. YOGESHA K J ACA
612	218474	MR. JEEVAN KUMAR ACA
613	218496	MR. SYED VIQUARUDDIN HUSSAIN ACA
614	218540	MR. ABDUL KHAYYUM SHAIK ACA
615	218546	MR. MATHEW P M ACA
616	218564	MR. RISHI KOTHARI ACA
617	218640	MS. MAHALAKSHMI P ACA
618	218662	MR. SAJID RAZVI L M ACA
619	218672	MS. LAKSHMY V ACA
620	218683	MR. SRIVATHSAN R ACA

S NO	MRN	MEMBER NAME
621	218692	MR. ANUJ JAIN ACA
622	218700	MR. PRAVEEN KUMAR JALLAN ACA
623	218741	MR. DEEPAK AVTAR GUPTA ACA
624	218759	MR. RAGAVAN C N V ACA
625	218784	MR. JANARDHAN RAMACHANDRA HEBBAR ACA
626	218892	MR. JAVED PARVEZ ACA
627	218935	MR. SRINIVASAN S ACA
628	218965	MR. NAVIN KUMAR A ACA
629	218967	MR. NATARAJ SEKHA THUNUGUNTALA ACA
630	219027	MS. JABEENA BABOO ACA
631	219033	MR. GURU SANTHANAM G ACA
632	219041	MR. VENKATA PAVAN KUMAR MALLELA ACA
633	219098	MR. RAMESH A ACA
634	219134	MS. PREETHY MARY JOHNSON ACA
635	219144	MR. VIJAY KUMAR BOYINA ACA
636	219203	MS. ASIFA BANU SHAIK ACA
637	219206	MR. RAMACHANDRA REDDY K ACA
638	219243	MS. RATHNAVANI K ACA
639	219246	MS. MADHUCHANDA S CHOUGULA ACA
640	219254	MR. PRATAP R ACA
641	219298	MR. TENNETI SUDHAKAR ACA
642	219301	MR. JOTHILINGAM S ACA
643	219306	MR. PEDDI REDDY T ACA
644	219358	MR. KANAKADASS L ACA
645	219405	MR. UGRASEN MUDULI ACA
646	219440	MR. SIDDARTH S ACA
647	219502	MR. ABDUL KALEEM B H ACA
648	219552	MR. PRADEEP V ACA
649	219626	MR. NAGARAJA CHARY P ACA
650	219627	MR. RAVI H S ACA
651	219663	MS. DHIVYA ACA
652	219664	MR. SRIDHAR KUNDETI ACA
653	219736	MR. LOKESH BACHU ACA
654	219869	MR. ANIL D'SOUZA ACA
655	219962	MR. PRADHAN PRIYA DASS ACA
656	219992	MR. SUBBA RAO CHINTA ACA
657	220061	MR. VAIDYANATHAN J ACA
658	220071	MR. KISHORE KUMAR B ACA
659	220078	MS. ASHWINI J ACA
660	220086	MS. LAKSHMI V S ACA

S NO	MRN	MEMBER NAME
661	220172	MR. SOMA SEKHA R GOLLAPUDI ACA
662	220217	MS. SUDHA RANI YARRAPATRUNI ACA
663	220255	MR. SKANDAPRASAD SEETHARAMAN ACA
664	220260	MS. ADITI ASHWIN KOTNIS ACA
665	220284	MS. RAMADEVI KHAREEDU ACA
666	220287	MR. PRAKASH RAO M V S ACA
667	220342	MR. KAMALESH A K ACA
668	220413	MR. SIRISH ANAND G ACA
669	220488	MS. VIJAYA LAKSHMI GUMPENA ACA
670	220492	MR. RAMAKRISHNA REDDY BORRA ACA
671	220585	MR. MALLIKARJUNA M S ACA
672	220588	MR. SACHIN C ACA
673	220618	MR. SRINIVASAN V R ACA
674	220673	MR. KARTHIK KUMAR K V ACA
675	220717	MS. VIJAYALAKSHMI A ACA
676	220725	MR. MAHESH MANICKHAM K ACA
677	220728	MR. SASIDHARAN T ACA
678	220729	MS. SONU JAIN ACA
679	220755	MR. DASH SABYASACHEE ACA
680	220852	MR. VENKATESWARA RAO THOTAKURA ACA
681	220865	MR. KRISHNA SWAROOP D G V G ACA
682	220875	MS. UNNAMALAI AR ACA
683	220904	MR. PARIKH JIMI RAJNIKANT ACA
684	220951	MR. RAJAGOPALAN V ACA
685	220956	MR. RAVI KUMAR T ACA
686	221011	MR. JOHN SAMUEL C ACA
687	221024	MS. RANJITHA MUNAGALA ACA
688	221084	MS. SOWMYA ANAND ACA
689	221088	MS. SUBHA V MENON ACA
690	221117	MR. RAMU JAMI ACA
691	221200	MS. MEGHANA T HINDOCHA ACA
692	221207	MS. ANN JOE MAMPILLY ACA
693	221290	MR. RAJESH BABU JAISWAL ACA
694	221291	MR. ARAVINDHAN D ACA
695	221304	MR. GOVINDA RAJU J ACA
696	221321	MR. RAMESH REDDY ANAM ACA
697	221338	MR. KRISHNA KISHORE NAMA ACA
698	221342	MS. CHANDRAKALA H H ACA
699	221392	MR. LAKSHMI PURNA CHANDRA RAO CHELLA ACA
700	221434	MR. VENKATARAMANA T ACA

S NO	MRN	MEMBER NAME
701	221544	MR. LALIT MASKARA ACA
702	221554	MR. MALADI KRISHNA MOHAN ACA
703	221615	MR. KUMUDA CHANDRA MAHARANA ACA
704	221626	MR. RAJANEESH R ACA
705	221662	MS. JEENA ELIZABETH GEORGE ACA
706	221727	MS. SUJA NAIR ACA
707	221738	MR. DINESH J ACA
708	221747	MR. KIRAN N ACA
709	221756	MR. SIVA KRISHNA I V S N ACA
710	221762	MR. GUNASEKAR N ACA
711	221780	MR. NAVEEN KUMAR P ACA
712	221793	MR. SUSHIL KUMAR CHITGOPKAR ACA
713	221811	MS. SAILAJA C ACA
714	221826	MS. SIVAKAMI S ACA
715	221837	MR. NAVAL KISHORE SASMAL ACA
716	221894	MR. SIVA NAGESWARA RAO GUMMADILLI ACA
717	221908	MR. RAMA KRISHNA M ACA
718	221909	MR. SACHENDRA DEWAN ACA
719	221922	MR. MANOHAR BABU ARVAPALLI ACA
720	221971	MS. HIMA BINDU KANCHARLA ACA
721	221983	MS. ASHA VINCENT ACA
722	221985	MR. VINOD H N ACA
723	222004	MR. KARTHIK BHAT ACA
724	222015	MR. NARASHIMHAPRASAD RAMESH REVANKAR ACA
725	222074	MR. RAJESH BAPAT ACA
726	222081	MS. DEEPTHI PERATLA ACA
727	222155	MR. SANDEEP KUNCHAM J ACA
728	222177	MR. DINESH BABU S B ACA
729	222179	MR. VIKRAM JOSHI ACA
730	222219	MR. PATIL NARAHARI LAXMANRAO ACA
731	222226	MR. NARASIMHA MURTHY K ACA
732	222257	MR. MADHUKAR KAMATH K ACA
733	222285	MR. VUCHIDI BALARAM ACA
734	222330	MR. MIDHUN ANAND ACA
735	222331	MR. SURESH KANNAN P ACA

S NO	MRN	MEMBER NAME
736	222335	MS. RAMA K ACA
737	222338	MR. PRASAD MAMILLAPALLI ACA
738	222381	MR. LALIT LALWANI ACA
739	222407	MR. RAMBHUPAL REDDY M ACA
740	222428	MS. REENA MARY JOHN ACA
741	222443	MR. JAMI SANTOSH KUMAR ACA
742	222468	MR. MOHD ABDUL QADER ACA
743	222503	MR. PRADHAN NANDAN KUMAR ACA
744	222525	MS. BARKHA SINGH ACA
745	222577	MR. AZEET KUMAR K ACA
746	222588	MR. SONY JOSEPH ACA
747	222598	MS. V N S KUMARI K ACA
748	222605	MS. PRIYA M ACA
749	222785	MR. RAGHAVAN J ACA
750	222788	MR. YATHISH V A ACA
751	400575	MR. JAIN MUKESH KUMAR ACA
752	400899	MR. ARORA JITENDRA ACA
753	401604	MR. MAHARISHI SHARADIA ACA
754	402721	MR. PARASHURAMPURIA SOMESH ACA
755	403402	MR. PRANAV KUMAR C ACA
756	403661	MS. GINITA SHAH ACA
757	406244	MR. VAIBHAV SURESH JOSHI ACA
758	409390	CA. KAPIL KUMAR GUPTA ACA
759	500051	MR. GUPTA SATYA PRAKASH ACA
760	500885	MR. GUPTA DUSHYANT ACA
761	501970	MR. RAJEEV KUMAR ACA
762	502037	MR. AGRAWAL MANOJ KUMAR ACA
763	504835	MR. GUPTA ATUL ACA
764	507180	MR. KHAGENDRA BHATTARAI ACA
765	508410	MR. BINIT KUMAR ACA
766	509360	MR. NIRAJ CHOUDHARY ACA
767	509886	MS. SMITHA UMESAN ACA
768	510026	MS. ASHWATI PODUVAL ACA
769	511864	MR. JYOTHI PRAKASH R ACA
770	513863	MR. NARASIMHA RAJU KOLUKULURI A ACA

(T KARTHIKEYAN)
SECRETARY

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 6th May 2011

No. N-15/13/11/1/2011-P&D—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st May, 2011 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Punjab Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1955 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Punjab namely :—

Name of the Village	Tehsil	District
Areas within the limits of Municipal Council, Nangal.	Nangal	Roopnagar

R. C. SHARMA
Director (P&D)

No. N-15/13/11/2/2011-P&D—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st May, 2011 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Punjab Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1955 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Punjab namely :—

Name of the Village	Tehsil	District
Areas within the limits of Municipal Committee, Faridkot & Faridkot Rural (I to V), Hadbast No. 75	Faridkot	Faridkot

R. C. SHARMA
Director (P&D)

No. N-15/13/14/5/2011-P&D—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st May, 2011 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Tamil Nadu Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1954 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Tamil Nadu namely :—

Centre	Areas Comprising the Revenue Villages of
Pirancheri Tirunelveli Taluk Tirunelveli District	Pirancheri

R. C. SHARMA
Director (P&D)

New Delhi, the 26th May 2011

No. A-12(11)-2/2000-E. I(A).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 97 read with clause (xxi) of sub-section (2) and sub-section (2A) of that section and sub-section (2) of section 17 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) and in supersession of the Employees' State Insurance Corporation (Recruitment) Regulations, 1965, the Employees State Insurance Corporation Recruitment Regulations, 1972, the Employees' State Insurance Corporation Record Sorter Recruitment Regulations, 1994, the Employees' State Insurance Corporation Junior Gestetner Operator (Recruitment) Regulations, 1994 and the Employees' State Insurance Corporation (Peon) Recruitment Regulations, 2007 in so far as they relate to the posts of Gestetner Operator, Jamadar, Daftary, Record Sorter, Peon, Farash, Chowkidar and Sweeper except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Employees' State Insurance Corporation hereby makes, with the approval of the Central Government, the following Regulations regulating the method of recruitment to the posts of Multi-tasking Staff in the Employees' State Insurance Corporation, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) These regulations may be called the Employees' State Insurance Corporation Multi-tasking Staff Recruitment Regulations, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of posts, their classification and the scale of pay attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these regulations.

3. The method of recruitment, age limit, qualification, etc.— The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said schedule.

4. Disqualification .— No person, —

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person

shall be eligible for appointment to the said post:

provided that the Director General of the Employees' State Insurance Corporation may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and to the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of these regulations.

5. Power to relax.— Where the Director General of the Employees' State Insurance Corporation is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, he may, after taking prior approval, of the Central Government, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these regulations, with respect to any class or category of persons.

6. Residuary matters.— Subject to the provisions of these regulations, all other provisions of the Employees' State Insurance Corporation (Recruitment) Regulations, 1965, applicable to the corresponding category of posts in the Employees' State Insurance Corporation, shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these regulations.

7. Savings.— Nothing in these regulations shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes and other categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time, in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay/Pay Scale (Rs.)	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Multi-tasking Staff	2826* (2011) *Subject to variation dependent on work load	Group 'C'	Pay Band-1 (Rs. 5200-20200) + Grade Pay Rs. 1800/-	Not applicable	Between 18 to 25 years of age *	Matriculation or equivalent pass	Not applicable	2 years

* Note. — The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangri Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and the percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption, grades from which promotion /deputation / absorption to be made.	If a DPC exists, what is its composition	Circumstances in which UPSC to be consulted in making recruitment
(10)	(11)	(12)	(13)
Direct recruitment	Not applicable	Group 'C' Department Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of: Director (Medical) Delhi/Medical Superintendent/Regional Director/Director (HQ)/Jt. Director (HQ)Chairman Deputy Director (Admn)/Deputy Director (Medical)/Deputy Director (General)Member Assistant Provident Fund Commissioner (EPFO)Member	Not applicable.

(Dr. C.S. Kedar)
DIRECTOR GENERAL

Ahmedabad-380014, the 2nd May 2011

No. U-16/53/2003/Med. II/ (Guj.)—In pursuance of resolution passed by ESI Corporation at its meeting held on 25.04.1951 conferring upon the Director General the power of Corporation under Regulation 105 of the ESI (General) Regulation, 1950 and such power further delegated to me vide Director General Order on File No. Pt. File-U-13/12/13/2005-PTMR (Med. I) dated 04.08.2008. I hereby authorized the following doctors(s) to function as Medical Authority at a monthly remuneration at a in accordance with norms w.e.f. the date given below for one year or till a full time Medical Referee joins, whichever is earlier, for centers as stated below for areas allocated by undersigned, for the purposes of Medical Examination of insured persons and grant of further certification to them, when the correctness of the Original certificate is in doubt :—

Name	Period	Name of Center/Place/Distt./State
Dr. D. M. Khalsa, PTMR	03.05.2011 to 02.05.2012	Baroda/Gujarat

H. P. SINGH

State Medical Commissioner

CENTRAL COUNCIL OF HOMOEOPATHY

New Delhi, the

No. 13-32/2010-CCH/CRH-Part-II Renewal 1993—The Central Council of Homoeopathy in pursuance of Regulation 9 of Homoeopathy Central Council (Registration) Regulations, 1982, read with Sections 21 & 15 of the Homoeopathy Central Council Act, 1973 (59 of 1973), renews the Register known as Central Register of Homoeopathy (published in Gazetted of India of 02.01.1993 and to read said Gazette with the list of removed names notified in the Gazette of India on 09.08.2008) by restoring some names in a list published in Gazette of India, dated 30th April—6th May, 2011 and in continuation to it, some more names are being restored as being published in the Gazette of India for general information.

LALIT VERMA

Registrar

S.No.	Doctor's Names	Father's/Husband's Names	Address a) Residential b) Professional	State in which Registered and the authority granting the State Registration	Date of Registration in State Register	Registration number given in the State Register	Date and reason (s) for removal from the central Register, if any	Remarks Entries of CRH S. No. in the Principal Central Register Part-B Published on 02.01.93/S. No. in Gazette of removed names published on 09.08.2008
27	Dr. Govindasamy Balasubramanian	Govindasamy	Homoeopathy Medical Practitioner 7, South Car Street, Pennadam 606105. Cuddalore District	Tamil Nadu	19.06.75	6814		2010/1680
28	Dr. Balasubramanian V.G.	Gonapathia Pillai	106, 107 Senbagavallam Man Kovil St. Viravanallur - 627426	Tamil Nadu	07.04.75	908		2099/1750
29	Dr. Krishan Kumar Bhagi	G.R. Sharma	Village - Paproudi PO & Tehsil - Samrala 141114 Distt. Ludhiana (P.B.)	Haryana	08.11.77	2131		2561/2120
30	Dr. Ashok Kumar Bhardwaj	Harcharan Das Bhardwaj	84, New Lajpat Nagar Pakhorwal Road Ludhiana 141002.	H.P.	20.01.77	B-2859		2615/2161

31	Dr. Urmila Devi Bhargove	Yash Pal	A-122 M2K (Aura) F.F. Mayfield Garden Sector 47 Gurgaon (Haryana) 122018	H.P.	03.10.75	840-B	2668/2204
32	Dr. Mrs. Sumitra Bhatia	Surjan Lal Bhatia	2-E/130-b, NIT Faridabad- 121001	Haryana	01.12.76	519	2779/2279
33	Dr. Suresh Kumar Bhatia	J.K. Bhatia	Street No.5, Dhobi Talai, Bikaner (Raj.) - 334001	Rajasthan	10.11.71	717	2781/2299
34	Dr. Dilip Bhusan Bhattacharjee	Dinesh C Bhattacharjee	Biver Road, Oak Land, Shillong - 1, Meghalaya	Meghalaya	15.10.84	2	2848/2356
35	Dr. Sri Nagendra Nath Bose	Pratap Chandra Boss	North East Noapara (Amtala Bazar) Po. Noapara P. S. Barasat Dist. (N.) 24 P.G.S. Kolkata - 700125. (W.B.)	Haryana	07.12.77	2648-B	3115/2583
36	Dr. K.V. Govinda Chetty	K.V. Venkatrama Chetty	Pudupatti P.O. Dharmapuri DT. TN. 636905	Tamil Nadu	24.06.75	4349	3688/3079
37	Dr. Brahma Swaroop Chaudhari	Rambharose	At & P.O. Purana Bazar Tharet (Tharet) Pin - 475673 - Dist Datia (M.P.)	M.P.	21.07.73	5977	3940/3289

38	Dr. T.K. Damodaran	Kanna Pillai T.	New Street Valathoor Gym, Taluk, VLT Dist - 635813	Tamil Nadu	30.04.75	1527	4130/3448
39	Dr. D. Dayal Uppal	C.D. Uppal	731/7 Housing Board Near G.T.B. Nagar, Jalandhar City (144003).	Punjab	06.02.75	B-249	4624/3871
40	Dr. Shiv Dayal	Joti Ram	H-13, Maheshnagar Ambala Cantt. 133001	Haryana	02.09.76	382-B	4630/3877
41	Dr. A.D. Rajagopal	Aendhale Duraishwamy	Old No.23, New No.116, Gokulapuram, 2nd, St. Chengalpattu- 603001	Tamil Nadu	01.04.75	252	5435/4560
42	Dutta Purnendu Bikash	Surendra Dutta	"Giribhavan" Anandomajallu Bosepara, P.O. Chandannagar, Dist. Hooghly - 712136.	Haryana	08.11.77	2324	5491/4605
43	Dr. Darshan Chand Gupta	Baboo Ram	Kansal Road Main Mandi (B.T.P.) Pin - 151509	Punjab	05.01.78	4764	7012/5860
44	Dr. Gauri Shankar Gupta		Maharkar KA Bada, Ganesh Colony, Naya Bazar, Lashkar, Distt. Gwalior M.P. - 474009	M.P.	29.05.63	3696	7027/5872
45	Dr. Beni Madhav Gupta	Hanumandin	Gudhai Bazar Rewa (M.P.) Pin - 486001	M.P.	25.07.73	6002	7139/5959

46	Dr. Vishwa Nath Gupta	Behari Lal	14/13/5, Faiz Ganj, Shantikutir Moradabad	Haryana	08.11.77	2276-B		7145/5965
47	Dr. Haja Mohideen Abdul Hameed	Abdul Hameed S.K.	1-204, Main Road, Kattur Post, Tiruvarur Dt. Tamil Nadu - 610104	Tamil Nadu	07.06.75	8131		7244/6053
48	Dr. Madhu Sudan Jain	G.P. Jain	47-A, Industrial Area, Rani Bazar, Bikaner - 334001	Rajasthan	18.01.73	2381		7899/6618
49	Dr. Sudhindra Kumar Jain	Somat Prasad Jain	Flat No. 201 Plot No. 236, Gopal Krishna Society, Road No. 15, Jawahar Nagar, Garegaon (W) Mumbai - 400062	Haryana	06.08.77	1679-B		7949/6660
50	Dr. Urmil Jain	Jatinder Kumar Jain	B XVII 52/16 Bagh Nauhria Mal, Ferozepur Road Ludhiana	Haryana	08.11.77	2208		7963/6671
51	Dr. P. Sambantham	V. Packkiani Padayachi	P. Sambantham, Kalanivasal, Main Road, Vadakaraia PO. 609314, May Lad Thuria (TK).	Tamil Nadu	04.02.76	9463		22841/18736
52	Dr. Joel Sam Pandian	Geore Joel	Geeva Clinic, No. 1, Appavoo Drawing Master St. Murugan Kuruchi 627002	Tamil Nadu	18.04.77	11108		22887/18776

53	Dr. Sukhminder Singh Sidhu	Santa Singh	Sidhu Homoeo, Chakista, H. No. 131/14, Satta Bazar, N/ Khadihawan Navab Gank Road Malerkotca. Dist Samgrur	Punjab	28.05.76	1432-B	25729/21281
54	Dr. Shambhu Nath Tiwari	Paramanand Tiwari	At Post - Bari Semaria Dist. Rewa M.P.	M.P.	19.10.65	4346	29790/24891
55	Dr. Basanta Kumar Tripathy	Sro Ananda Tripathy	At & P.O. Kinjirkela Dist Sandargarh Via Balisankara 770015 (Orissa)	Orissa	27.07.74	2462/A	29840/24935